

जयशंकर—प्रसाद—कृत

कामायनी

आमुख

आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में, चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मन्वन्तर के अर्थात् मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गयी है। इसलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है।

यदि श्रद्धा और मनु अर्थात् मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं। तब भी, उसके तिथि क्रम मात्र से संतुष्ट न होकर, मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। जल-प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है, जिसे मनु को देवों से विलक्षण, मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। 'मनवे वै प्रातः' इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के आठवें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात् श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नये युग की सूचना मिली। इस मन्वन्तर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादेव कहा गया है। भागवत में इन्हीं वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का आरम्भ माना गया है।

छांदोग्य उपनिषद्में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है। 'कामगोत्रजा श्रद्धानामर्षिका।' श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम पथ-प्रदर्शक और अग्नि-होत्र प्रज्वलित करनेवाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं :- इनके संबंध में वैदिक साहित्य में बहुत-सी बातें बिखरी हुई मिलती हैं किंतु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है। जलप्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के आठवें अध्याय से आरंभ होता है जिसमें उनकी नाव के उत्तरगिरि हिमवान प्रदेश में पहुँचने का प्रसंग है। वहाँ औघ के जल का अवतरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोरवसर्पण कहते हैं।

श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ। किंतु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु बलि की। इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व-परचित देव-प्रवृत्ति जाग उठी-उसने इडा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया। इडा के

संबंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई और उस पूर्ण योषिता को देखकर मनु ने पूछा कि 'तुम कौन हो ?' इडा ने कहा, 'तुम्हारी दुहिता हूँ ।' मनु ने पूछा कि 'मेरी दुहिता कैसे ?' उसने कहा, 'तुम्हारे दही, घी इत्यादि के हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है ।'

इडा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वे कुछ खिचे । ऋग्वेद में इडा का कई जगह उल्लेख मिलता है । यह प्रजापति मनु की पथ-प्रदर्शिका मनुष्यों का शासन करनेवाली कही गयी है । अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य-स्थापना इत्यादि इडा के प्रभाव से ही मनु ने किया । फिर तो इडा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोपभाजन होना पडा । इस अपराध के कारण उन्हें दंड भोगना पडा । इडा देवताओं की स्वसा थी । मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी ।

इसीलिए यज्ञों में इडा -कर्म होता है । यह इडा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है । फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में, दुख मिलना स्वाभाविक है । यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अदभुत मिश्रण हो गया है । इसीलिए मनु, श्रद्धा और इडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । मनु अर्थात् मनु के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इडा से भी सरलता से लग जाता है । श्रद्धा हृदय या कृत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॐ 'द्व्यक्र० 10-151-4) इन्हीं सबके आधार पर कामायनी की कथा-सृष्टि हुई है । हाँ, कामायनी की कथा-श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं-कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले आने का अधिकार मैं नहीं छोड सका हूँ ।

-जयशंकर

प्रसाद'

आविर्भाव-- माघ शुक्ला दशमी विक्रम संवत् -1946

तिरोभाव-- कार्तिक शुक्ला एकादशी संवत् - 1994

कामायनी

7

चिता

.....

हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छाँह,
एक पुरुष, भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह ।
नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन,
एक तत्व की ही प्रधानता-कहो उसे जड या चेतन ।
दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय-समान,
नीरवता-सी शिला -चरण से टकराता फिरता पवमान ।

तरुण तपस्वी—सा वह बैठा साधन करता सुर—स्मशान,
नीचे प्रलयसिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान ।
उसी तपस्वी—से लंबे थे देवदारु दो चार खडे,
हुए हिम—धवल, जैसे पत्थर बन कर ठिठुरे रहे अडे ।
अवयव की दृढ मांस—पेशियाँ, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार,
स्फीत शिरायें, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार ।
चिता—कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओत— प्रोत,
उधर उपेक्षामय यौवनव का बहता भीतर मधुमय स्रोत ।
बँधी महावट से नौका थी सूखे में अब पडी रही,
उतर चला था वह जल—प्लावन, और निकलने लगी मही ।
निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी,
वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हँसती—सी पहचानी—सी ।
"ओ चिता की पहली रेखा, अरी विश्व—वन की व्याली,
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप—सी मतवाली ॐ

8

हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खललेखा ॐ
हरी—भरी—सी दौड—धूप, ओ जल—माया की चल—रेखा ॐ
इस ग्रहकक्षा की हलचल — री तरल गरल की लघु—लहरी,
जरा अमर—जीवन की, और न कुछ सुनने वाली, बहरी ॐ
अरी व्याधि की सूत्र—धारिणी —अरी आधि, मधुमय अभिशाप ॐ
हृदय—गगन में धूमकेतु—सी, पुण्य—सृष्टि में सुंदर पाप ।
मनन करावेगी तू कितना ? उस निश्चित जाति का जीव—
अमर मरेगा क्या ? तू कितनी गहरी डाल रही है नींव ।
आह ॐ घिरेगी हृदय—लहलहे—खेतों पर करका—घन—सी,
छिपी रहेगी अंतरतम में सब के तू निगूढ धन—सी ।
बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिता तेरे हैं कितने नाम ॐ
अरी पाप है तू, जा, चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम ।
विस्मृति आ, अवसाद घेर ले, नीरवते ॐ बस चुप कर दे,
चेतनता चल जा, जडता से आज शून्य मेरा भर दे । "

"चिता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की,
उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखायें दुख की ।
आह सर्ग के अग्रदूत ॐ तुम असफल हुए, विलीन हुए,
भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए ।
अरी आँधियों ॐ ओ बिजली की दिवा—रात्रि तेरा नर्तन,
उसी वासना की उपासना, वह तेरा प्रत्यावर्तन ।
मणि—दीपों के अंधकारमय अरे निराशा पूर्ण भविष्य ॐ
देव—दंभ के महामेध में सब कुछ ही बन गया हविष्य ।

अरे अमरता के चमकीले पुतलो ॐ तेरे ये जयनाद -
काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बन कर मानो दीन विषाद ।
प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में,
भोले थे, हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में ।
वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, बन गया पारावार -
उमड रहा था देव-सुखों पर दुःख-जलधि का नाद अपार । "

9

"वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या ॐ स्वप्न रहा या छलना थी ॐ
देवसृष्टि की सुख-विभावरी ताराओं की कलना थी ।
चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास,
कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख-विश्वास ।
सुख, केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना,
छायापथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना ।
सब कुछ थे स्वायत्त, विश्व के -बल, वैभव, आनंद अपार,
उद्वेलित लहरों-सा होता उस समृद्धि का सुख-संचार ।
कीर्ति, दीप्ति, शोभा थी नचती अरुण-किरण-सी चारों ओर,
सप्तसिंधु के तरल कणों में, दुम-दल में, आनन्द-विभोर ।
शक्ति रही हाँ शक्ति-प्रकृति थी पद-तल में विनम्र विश्रांत,
कँपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत ।
स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विश्रृंखल होती सृष्टि ?
अरे अचानक हुई इसी से कडी आपदाओं की वृष्टि ।

गया, सभी कुछ गया, मधुर तम सुर-बालाओं का शृंगार,
उषा ज्योत्स्ना-सा यौवन-स्मित मधुप-सदृश निश्चित विहार ।
भरी वासना-सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह,
प्रलय-जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा कराह । "
"चिर-किशोर-वय, नित्य विलासी- सुरभित जिससे रहा दिगंत,
आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत ?
कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिगन हुए विलीन,
मौन हुई हैं मूर्छित तानें और न सुन पडती अब बीन ।

10

अब न कपोलों पर छाया-सी पडती मुख की सुरभित भाप
भुज-मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माप ।
कंकण क्वणित, रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार,
मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता अभिसार ।
सौरभ से दिगंत पूरित था, अंतरिक्ष आलोक-अधीर,
सब में एक अचेतन गति थी, जिससे पिछडा रहे समीर ।

वह अनंग-पीडा-अनुभव-सा अंग-भंगियों का नर्तन,
 मधुकर के मरंद-उत्सव-सा मंदिर भाव से आवर्तन ।
 सुरा सुरभिमय बदन अरुण वे नयन भरे आलस अनुराग,
 कल कपोल था जहाँ बिछलता कल्पवृक्ष का पीत पराग ।
 विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाये चले गये,
 आह ॐ जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले, गये । "
 " अरी उपेक्षा-भरी अमरते ॐ री अतृप्ति ॐ निर्बाध विलास ॐ
 द्विधा-रहित अपलक नयनों की भूख-भरी दर्शन की प्यास ॐ
 बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक-स्पर्श का पता नहीं,
 मधुमय चुंबन कातरतायें, आज न मुख को सता रहीं ।
 रल-सौध के वातायन, जिनमें आता मधु-मंदिर समीर,
 टकराती होगी अब उनमें तिमिगिलों की भीड़ अधीर ।
 देवकामिनी के नयनों से जहाँ नील नलिनियों की सृष्टि-
 होती थी, अब वहाँ हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि ।
 वे अम्लान-कुसुम-सुरभित-मणि रचित मनोहर मालायें,
 बर्नी श्रृंखला, जकड़ी जिनमें विलासिनी सुर-बालायें ।
 देव-यजन के पशुयज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला,
 जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला । "

11

" उनको देख कौन रोया यों अंतरिक्ष में बैठ अधीर ॐ
 व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर ॐ
 हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन कुलिश होते थे चूर,
 हुए दिगंत बधिर, भीषण रव बार-बार होता था क्रूर ।
 दिग्दाहों से धूम उठे, या जलचर उठे क्षितिज-तट के ॐ
 सघन गगन में भीमप्रकंपन, झंझा के चलते झटके ।
 अंधकार में मलिन मित्र की धुँधली आभा लीन हुई ।
 वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा स्तर-स्तर जमती पीन हुई,
 पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल-निपात
 उल्का लेकर अमर शक्तियाँ खोज रहीं ज्यों खोया प्रात ।
 बार बार उस भीषण रव से कँपती धरती देख विशेष,
 मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष ।
 उधर गरजती सिधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी,
 चली आ रहीं फेन उगलती फन फैलाये व्यालों-सी ।
 धँसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वाला-मुखियों के निस्वास
 और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास ।
 सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिधु के, विचलित-सी -
 व्यस्त महाकच्छप-सी धरणी ऊभ-चूम थी विकलित-सी ।
 बढने लगा विलास-वेग सा वह अतिभैरव जल-संघात,

तरल—तिमिर से प्रलय—पवन का होता आलिंगन, प्रतिघात ।
 वेला क्षण—क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण, फिर लीन हुआ ॐ
 उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा—हीन हुआ ॐ
 करका क्रंदन करती और कुचलना था सब का,
 पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य हो रहा था कब का । "
 "एक नाव थी, और न उसमें डोंडे लगते, या पतवार,
 तरल तरंगों में उठ—गिरकर बहती पगली बारंबार ।

12

लगते प्रबल थपेड़े , धुँधले तट का था कुछ पता नहीं,
 कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वहीं ।
 लहरें व्योम चूमती उठतीं, चपलायें असंख्य नचतीं,
 गरल जलद की खडी झडी में वूँदें निज संसृति रचतीं ।
 चपलायें उस जलधि—विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं ।
 ज्यों विराट बाडव—ज्वालायें खंड—खंड हो रोती थीं ।
 जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते,
 हुआ विलोडित गृह, तब प्राणी कौन ॐ कहाँ ॐ कब ॐ मुख पाते ?
 घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध,
 और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध ।
 उस विराट आलोडनमें ग्रह, तारा बुद—बुद से लगते,
 प्रखर प्रलय—पावस में जगमग, ज्योतिरिगणों—से जगते ।
 प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता,
 इनके सूचक उपकरणों का चिह्न न कोई पा सकता ।
 काला शासन—चक्र मृत्यु का कब तक चला, न स्मरण रहा,
 महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा ।
 किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तरगिरि के शिर से,
 देव—सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से ।
 आज अमरता का जीवित हूँ मैं वह भीषण जर्जर दंभ,
 आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम—पात्र मय सा विष्कंभ ॐ "
 "ओ जीवन की मरु—मरिचिका, कायरता के अलस विषाद ॐ
 अरे पुरातन अमृत ॐ अगतिमय मोहमुग्ध जर्जर अवसाद ॐ
 मौन ॐ नाश ॐ विध्वंस ॐ अंधेरा ॐ शून्य बना जो प्रकट अभाव,
 वही सत्य है, अरी अमरते ॐ तुझको यहाँ कहाँ अब ठाँव ।
 मृत्यु, अरी चिर—निद्रे ॐ तेरा अंक हिमानी—सा शीतल,
 तू अनंत में लहर बनाती काल—जलधि की—सी हलचल ।

13

महानृत्य का विषम सम अरी अखिल स्पंदनों की तू माप,
 तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप ।

अंधकार के अड्डहास—सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य,

छिपी सृष्टि के कण—कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य ।
जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घन—माला में,
सौदामिनी—संधि—सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में । "
पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी साँस,
टकराती थी, दीन प्रतिध्वनि बनी हिम—शिलाओं के पास ।
धू—धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य,
आकर्षण—विहीन विद्युत्क्षण बने भारवाही थे भृत्य ।
मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि,
परमव्योम से भौतिक कण—सी घने कुहासों की थी वृष्टि ।
वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल—संघात,
सौरचक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात ॐ

14

आशा

.....

उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी—सी उदित हुई,
उधर पराजित कालरात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई ।
वह विवर्ण मुख त्रस्त प्रकृति का आज लगा हँसने फिर से,
वर्षा बीती, हुआ सृष्टि में शरद—विकास नये सिर से ।
नव कोमल आलोक बिखरता हिम—संसृति पर भर अनुराग,
सित सरोज पर क्रीडा करता जैसे मधुमय पिग पराग ।
धीर धीरे हिम—आच्छादन हटने लगा धरातल से,
जर्गी वनस्पतियाँ अलसाईं मुख धोती शीतल जल से ।
नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने,
जलधि लहरियों की अँगड़ाई बार—बार जाती सोने ।
सिधुसेज पर धराबधू अब तनिक संकुचित बैठी—सी,
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किये सी ऐंठी—सी ।
देखा मनु ने वह अतिरंजित विजन का नव एकांत,
जैसे कोलाहल सोया हो हिम—शीतल—जडता—सा श्रांत ।
इंद्रनीलमणि महा चषक था सोम—रहित उलटा लटका,
आज पवन मृदु साँस ले रहा जैसे बीत गया खटका ।
वह विराट् था हेम घोलता नया रंग भरने को आज,
'कौन?' हुआ यह प्रश्न अचानक और कुतुहल का था राज ॐ
"विश्वदेव, सविता या पूषा, सोम, मरुत, चंचल पवमान,
वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान ?
किसका था भू—भंग प्रलय—सा जिसमें ये सब विकल रहे,
अरे ॐ प्रकृति के शक्ति—चिन्ह ये फिर भी कितने निबल रहे ॐ

15

विकल हुआ—सा काँप रहा था, सकल भूत चेतन समुदाय,
उनकी कैसी बुरी दशा थी वे थे विवश और निरुपाय |
देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले,
हाँ कि गर्व—रथ में तुरंग—सा, जितना जो चाहे जुत ले | "
"महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान,
ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्कण किसका करते—से संधान ॐ
छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिचे हुए,
तृण, वीरुध लहलहे हो रहे किसके रस से सिचे हुए?
सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार यहाँ,
सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका, वह अस्तित्व कहाँ ?
हे अनंत रमणीय ॐ कौन तुम? यह मैं कैसे कह सकता,
कैसे हो? क्या हो? इसका तो भार विचार न सह सकता |
हे विराट ॐ हे विश्वदेव ॐ तुम कुछ हो, ऐसा होता भान —
मंद्र—गंभीर—धीर—स्वर—संयुत यही कर रहा सागर गान | "
"यह क्या मधुर स्वप्न—सी झिलमिल सदय हृदय में अधिक अधीर,
व्याकुलता सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण—समीर ॐ
यह कितनी स्पृहणीय बन गई मधुर जागरण—सी छविमान,
स्मिति की लहरों—सी उठती है नाच रही ज्यों मधुमय तान |
जीवन ॐ जीवन ॐ की पुकार है खेल रहा है शीतल—दाह—
किसके चरणों में नत होता नव प्रभात का शुभ उत्साह |
मैं हूँ, यह वरदान सदृश क्यों लगा गूँजने कानों में ॐ
मैं भी कहने लगा, 'मैं रहूँ' शाश्वत नभ के गानों में |
यह संकेत कर रही सत्ता किसकी सरल विकास—मयी,
जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलास—मयी ?

16

तो फिर क्या मैं जिऊँ और भी—जीकर क्या करना होगा ?
देव ॐ बता दो, अमर—वेदना लेकर कब मरना होगा ? "
एक यवनिका हटी, पवन से प्रेरित मायापट जैसी |
और आवरण—मुक्त प्रकृति थी हरी—भरी फिर भी वैसी |
स्वर्ण शालियों की कलमें थीं दूर—दूर तक फैल रहीं,
शरद—इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही |
विश्व—कल्पना—सा ऊँचा वह सुख—शीतल—संतोष—निदान,
और डूबती—सी अचला का अवलंबन, मणि—रत्न—निधान |
अचल हिमालय का शोभनतम लता—कलित शुचि सानु—शरीर,
निद्रा में सुख—स्वप्न देखता जैसे पुलकित हुआ अधीर |
उमड रही जिसके चरणों में नीरवता की विमल विभूति,

शीतल झरनों की धारायें बिखरातीं जीवन-अनुभूति ॐ
 उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुसक्यान,
 मानो हँसी हिमालय की है फूट चली करती कल गान ।
 शिला-संधियों में टकरा कर पवन भर रहा था गुंजार ,
 उस दुर्भेद्य अचल दृढता का करता चारण-सदृश प्रचार ।
 संध्या-घनमाला की सुंदर ओढे रंग-बिरंगी छींट,
 गगन-चुंबिनी शैल-श्रणियाँ पहने हुए तुषार-किरीट ।
 विश्व-मौन, गौरव, महत्त्व की प्रतिनिधियों से भरी विभा,
 इस अनंत प्रांगण में मानो जोड़ रही है मौन सभा ।
 वह अनंत नीलिमा व्योम की जडता-सी जो शांत रही,
 दूर-दूर ऊँचे से ऊँचे निज अभाव में भ्रांत रही ।
 उसे दिखाती जगती का सुख, हँसी, और उल्लास अजान,
 मानो तुंग-तरंग विश्व की हिमगिरि की वह सुढर उठान ।

17

थी अनंत की गोद सदृश जो विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय,
 उसमें मनु ने स्थान बनाया सुंदर, स्वच्छ और वरणीय ।
 पहला संचित अग्नि जल रहा पास मलिन-द्युति रवि-कर से,
 शक्ति और जागरण-चिन्ह-सा लगा धधकने अब फिर से ।
 जलने लगा निरंतर उनका अग्निहोत्र सागर के तीर,
 मनु ने तप में जीवन अपना किया समर्पण होकर धीर ।
 सजग हुई फिर से सुर-संकृति देव-यजन की वर माया,
 उन पर लगी डालने अपनी कर्ममयी शीतल छाया ।
 उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है क्षितिज बीच अरुणोदय कांत,
 लगे देखने लुब्ध नयन से प्रकृति-विभूति मनोहर, शांत ।
 पाकयज्ञ करना निश्चित कर लगे शालियों को चुनने,
 उधर वह्नि-ज्वाला भी अपना लगी धूम-पट थी बुनने ।
 शुष्क डालियों से वृक्षों की अग्नि -अर्चिया हुई समिद्ध,
 आहुति के नव धूमगंध से नभ-कानन हो गया समृद्ध ।
 और सोचकर अपने मन में "जैसे हम हैं बचे हुए -
 क्या आश्चर्य और कोई हो जीवन-लीला रचे हुए , "
 अग्निहोत्र -अवशिष्ट अन्न कुछ कहीं दूर रख आते थे,
 होगा इससे तृप्त अपरिचित समझ सहज सुख पाते थे ।
 दुख का गहन पाठ पढकर अब सहानुभूति समझते थे ,
 नीरवता की गहराई में मग्न अकेले रहते थे ।
 मनन किया करते वे बैठे ज्वलित अग्नि के पास वहाँ,
 एक सजीव, तपस्या जैसे पतझड़ में कर वास रहा ।
 फिर भी धडकन कभी हृदय में होती चिता कभी नवीन,
 यों ही लगा बीतने उनका जीवन अस्थिर दिन-दिन दीन ।

18

प्रश्न उपस्थित नित्य नये थे अंधकार की माया में,
रंग बदलते जो पल-पल में उस विराट की छाया में ।
अर्ध प्रस्फुटित उत्तर मिलते प्रकृति सकर्मक रही समस्त,
निज अस्तित्व बना रखने में जीवन आज हुआ था व्यस्त ।
तप में निरत हुए मनु, नियमित-कर्म लगे अपना करने,
विश्वरंग में कर्मजाल के सूत्र लगे घन हो धिरने ।
उस एकांत नियति-शासन में चले विवश धीरे-धीरे,
एक शांत स्पंदन लहरों का होता ज्यों सागर-तीरे ।
विजन जगत की तंद्रा में तब चलता था सूना सपना,
ग्रह-पथ के आलोक -वृत्त से काल जाल तनता अपना ।
प्रहर, दिवस, रजनी आती थी चल जाती संदेश-विहीन,
एक विरागपूर्ण संसृति में ज्यों निष्फल आरंभ नवीन ।
धवल, मनोहर चंद्रबिंब से अंकित सुंदर स्वच्छ निशीथ,
जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उदगीथ ।
नीचे दूर-दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित, अधीर,
अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा चंद्रिका-निधि गंभीर ।
खुर्ली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आँखें,
हृदय-कुसुम की खिलीं अचानक मधु से वे भीगी पाँखें ।
व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था,
एक अतींद्रिय स्वप्न-लोक का मधुर रहस्य उलझता था ।
नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख-समान,
चिर-परिचित-सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान ।
दिवा-रात्रि या-मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार,
मिलन लगा हँसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार ।

19

तप से संयम का संचित बल, तृषित और व्याकुल था आज -
अट्टहास कर उठा रिक्त का वह अधीर-तम-सूना राज ।
धीर-समीर-परस से पुलकित विकल हो चला श्रांत-शरीर,
आशा की उलझी अलकों से उठी लहर मधुगंध अधीर ।
मनु का मन था विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट,
संवेदन ॐ जीवन जगती को जो कटुता से देता घोंट ।
"आह ॐकल्पना का सुंदर यह जगत मधुर कितना होता ॐ
सुख-स्वप्नों का दल छाया में पुलकित हो जगता-सोता ।
संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता,
फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता ॐ
कब तक और अकेले ? कह दो हे मेरे जीवन बोलो ?

किसे सुनाऊँ कथा—कहो मत, अपनी निधि न व्यर्थ खोलो । "

"तम के सुंदरतम रहस्य, हे कांति—किरण—रंजित तारा ॐ
व्यथित विश्व के सात्विक शीतल विदु, भरे नव रस सारा ।
आतप—तापित जीवन—सुख की शांतिमयी छाया के देश,
हे अनंत की गणना ॐ देते तुम कितना मधुमय संदेश ॐ
आह शून्यते ॐ चुप होने में तू क्यों इतनी चतुर हुई ?
इंद्रजाल—जननी ॐ रजनी तू क्यों अब इतनी मधुर हुई ? "

" जब कामना सिधु तट आई ले संध्या का तारा—दीप,
फाड़ सुनहली साडी उसकी तू हँसती क्यों अरी प्रतीप ?
इस अनंत काले शासन का वह जब उच्छृंखल इतिहास,
आँसू और' तम घोल लिख रही तू सहसा करती मृदु हास ।

20

विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से—
आती चूम—चूम चल जाती पढी हुई किस टोने से ।
किस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी—सी साँस,
यों समीर मिस हॉफ रही—सी चली जा रही किसके पास ।
विकल खिलखिलाती है क्यों तू? इतनी हँसी न व्यर्थ बिखेर,
तुहिन कणों, फेनिल लहरों में, मच जावेगी फिर अधेर ।
घुँघट उठा देख मुसक्याती किसे ठिठकती—सी आती,
विजन गगन में किसी भूल—सी किसको स्मृति—पथ में लाती ।
रजत—कुसुम के नव पराग—सी उडा न दे तू इतनी धूल—
इस ज्योत्स्ना की, अरी बावली तू इसमें जावेगी भूल ।
पगली ॐ हँ सँहाल ले, कैसे छूट पडा तेरा अंचल ?
देख, बिखरती है मणिराजी—अरी उठा बेसुध चंचल ।
फटा हुआ था नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली ।
देख, अकिचन जगत लूटता तेरी छवि भोली—भाली ॐ
ऐसे अतुल अनंत विभव में जाग पडा क्यों तीव्र विराग ?
या भूली—सी खोज रही कुछ जीवन की छाती के दाग ॐ"
"भैं भी भूल गया हूँ कुछ, हँ स्मरण नहीं होता, क्या था ?
प्रेम, वेदना, भ्रांति या कि क्या ? मन जिसमें सुख सोता था ॐ
मिले कहीं वह पडा अचानक उसको भी न लुटा देना ल
देख तुझे भी दूँगा तेरा भाग, न उसे भुला देना ॐ"

21

श्रद्धा

.....

"कौन तुम ? संसृति—जलनिधि तीर—तरंगों से फेंकी मणि एक,
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक ?

मधुर विश्रांत और एकांत -जगत का सुलझा हुआ रहस्य,
 एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य ॐ"
 सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का-सा जब सानंद,
 किये मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद,
 एक झिटका-सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे-से, कौन-
 गा रहा यह सुंदर संगीत ? कुतुहल रह न सका फिर मौन ।
 और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम,
 कुसुम-वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम ।
 हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया, उन्मुक्त
 मधु-पवन-क्रीडित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ-संयुक्त ।
 मसृण, गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म,
 ढँक रहे थे उसका वपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म ।
 नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग,
 खिला हो ज्यों विजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग ।
 आह वह मुख ॐपश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घन श्याम,
 अरुण रवि-मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम ।
 या कि, नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड कर धधक रही हो कांत-
 एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत ।

22

घिर रहे थे घुँघराले बाल अंस अवलंबित मुख के पास,
 नील घनशावक-से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास ।
 और, उस पर वह मुसक्यान ॐ रक्त किसलय पर ले विश्राम-
 अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम ।
 नित्य-यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति,
 स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड में स्फूर्ति ।
 उषा की पहिली लेखा कांत, माधुरी से भींगी भर मोद,
 मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक-द्युति की गोद ।
 कुसुम कानन अंचल में मंद-पवन प्रेरित सौरभ साकार,
 रचित-परमाणु-पराग-शरीर खडा हो, ले मधु का आधार ।

और, पडती हो उस पर शुभ्र नवल मधु-राका मन की साध,
 हँसी का मदविस्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश अबाध ॐ
 कहा मनु ने "नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय,
 एक उल्का-सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय ।
 शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिम-खंड,
 दौड कर मिला न जलनिधि-अंक आह वैसा ही हूँ पाषंड ।
 पहेली-सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान-
 बताता हूँ विस्मृति का मार्ग चल रहा हूँ बन कर अनजान ।

भूलता ही जाता दिन—रात सजल—अभिलाषा—कलित अतीत ,
 बढ रहा तिमिर—गर्भ में नित्य जीवन का यह संगीत ।
 क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उदभ्रांत ? विवर में नील गगन के आजुँ
 वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजडा—सा राज ।
 एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुँधला—सा प्रतिबिबल
 और जडता की जीवन—राशि, सफलता का संकलित विलंब । "

23

"कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड में अति सुकुमार उँ
 घन—तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार ।
 नखत की आशा—किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत—
 कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस —हलचल शांत उँ "
 लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष,
 दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेशः—
 "भरा था मन में नव उत्साह सीख लूँ ललित कला का ज्ञान,
 इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान ।
 घूमने का मेरा अभ्यास बढा था मुक्त—व्योम—तल नित्य,
 कुतूहल खोज रहा था, व्यस्त हृदय—सत्ता का सुंदर सत्य ।
 दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर प्रश्न करता मन अधिक अधीर ,
 धरा की यह सिकुडन भयभीत आह, कैसी है ? क्या है पीर ?
 मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान,
 सजग हो करता था संकेत , चेतना मचल उठी अनजान ।
 बढा मन और चले ये पैर , शैल—मालाओं का श्रृंगार,
 आँख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार उँ
 एक दिन सहसा सिधु अपार लगा टकराने नग तल क्षुब्ध,
 अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध ।
 यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत—हित—रत किसका यह दान उँ
 इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान ।

24

तपस्वीउँ क्यों इतने हो क्लांत ? वेदना का यह कैसा वेग ?
 आहउँ तुम कितने अधिक हताश —बताओ यह कैसा उद्वेग उँ
 हृदय में क्या है नहीं अधीर—लालसा की निःशेष ?
 कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में घर सुंदर वेश उँ
 दुःख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान ,
 काम से झिझक रहे हो आज, भविष्यत् से बनकर अनजानउँ
 कर रही लीलामय आनंद—महाचिति सजग हुई—सी व्यक्त,
 विश्व का उन्मीलन अभिराम—इसी में सब होते अनुरक्त ।
 काम—मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम,

तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम"
 "दुःख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात,
 एक परदा यह झीना नील छिपाये है जिसमें सुख गात ।
 जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल—
 ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल ।
 विषमता की पीडा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान,
 यही दुख—सुख विकास का सत्य यही भूमा का मधुमय दान ।
 नित्य समरसता का अधिकार उमडता कारण—जलधि समान,
 व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख—मणिगण द्युतिमान ।"
 लगे कहने मनु सहित विषादः— "मधुर मारुत्—से ये उच्छ्वास
 अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास ।
 किंतु जीवन कितना निरुपाय ॐ लिया है देख, नहीं संदेह,
 निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह ।"
 कहा आगंतुक ने सस्नेह ः— "अरे, तुम इतने हुए अधीर ॐ
 हार बैठे जीवन का दाँव, जीतते मर कर जिसको वीर ।

25

तप नहीं केवल जीवन—सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद,
 तरल आकांक्षा से है भरा—सो रहा आशा का आल्हाद ।
 प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल,
 मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल ।
 पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक,
 नित्य नूतनता का आनंद किये है परिवर्तन में टेक ।
 युगों की चङ्गनों पर सृष्टि डाल पद—चिन्हों चली गंभीर,
 देव, गंधर्व, असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर ।"
 " एक तुम, यह विस्तृत भू—खंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद,
 कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड का चेतन—आनन्द ।
 अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते ? तुच्छ विचार ।
 तपस्वी ॐ आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म—विस्तार ।
 दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब,
 तुम्हारा सहचर बन कर क्या न उद्गुण होऊँ मैं बिना विलंब ?
 समर्पण लो—सेवा का सार, सजल—संसृति का यह पतवार,
 आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद—तल में विगत—विकार ।
 दया, माया, ममता लो आज, मधुरिमा लो, अगाध विश्वास,
 हमारा हृदय—रत्न—निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास ।
 बनो संसृति के मूल रहस्य, तुम्हीं से फैलेगी वह बेल,
 विश्व—भर सौरभ से भर जाय सुमन के खेलो सुंदर खेल ।"
 "और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान—
 'शक्तिशाली हो, विजयी बनो' विश्व में गूँज रहा जय— गान ।

डरो मत, अरे अमृत संतान ॐ अग्रसर है मंगलमय वृद्धि,
पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिची आवेगी सकल समृद्धि ।

26

देव-असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज,
पडा है बन मानव-सम्पत्ति पूर्ण हो मन का चेतन-राज ।
चेतना का सुंदर इतिहास-अखिल मानव भावों का सत्य,
विश्वके हृदय-पटल पर दिव्य-अक्षरों से अंकित हो नित्य ।
विधाता की कल्याणी सृष्टि, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण,
पटें सागर, बिखरे ग्रह -पुंज और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण ।
उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खडी सानंद,
आज से मानवता की कीर्ति अनिल, भू, जल में रहे न बंद ।
जलधि के फूटें कितने उत्स-द्वीप-कच्छप डूबें-उतरायें ।
किन्तु वह खडी रहे दृढ-मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय ।
विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार-
हँसाता रहे उसे सविलास शक्ति का क्रीडामय संचार ।
शक्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय,
समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय ॐ"

27

काम

.....

"मधुमय वसंत जीवन-वन के, बह अंतरिक्ष की लहरों में,
कब आये थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में ?
क्या तुम्हें देख कर आते यों मतवाली कोयल बोली थी ?
उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आँखें खोली थी ?
जब लीला से तुम सीख रहे कोरक-कोने में लुक रहना,
तब शिथिल सुरभि से धरणी में बिछलन न हुई थी ? सच कहना ॐ
जब लिखते थे तुम सरस हँसी अपनी, फूलों के अंचल में,
अपना कलकंठ मिलाते थे झरनों के कोमल कल-कल में ।
निश्चित आह ॐवह था कितना, उल्लास, काकली के स्वर में ॐ
आनन्द प्रतिध्वनि गूँज रही जीवन दिगंत के अंबर में ।
शिशु चित्रकार ॐ चंचलता में, कितनी आशा चित्रित करते ॐ
अस्पष्ट एक लिपि ज्योतिमयी-जीवन की आँखों में भरते ।
लतिका घूँघट से चितवन की वह कुसुम-दुग्ध-सी मधु-धारा,
प्लावित करती मन-अजिर रही -था तुच्छ विश्व-वैभव सारा ।
वे फूल और वह हँसी रही वह सौरभ, वह निश्वास छना,
वह कलरव, वह संगीत अरे वह कोलाहल एकांत बना ॐ"
कहते-कहते कुछ सोच रहें लेकर निश्वास निराशा की-

मनु अपने मन की बात , रुकी फिर भी न प्रगति अभिलाषा की ।
"ओ नील आवरण जगती के ॐ दुर्बोध न तू ही है इतना ,
अवगुंठन होता आँखों का आलोक रूप बनता जितना ।

28

चल-चक्र वरुण का ज्योति भरा व्याकुल तू क्यों देता फेरी ?
तारों के फूल बिखरते हैं लुटती है असफलता तेरी ।
नव नील कुंज हैं झीम रहे कुसुमों की कथा न बंद हुई,
है अंतरिक्ष आमोद भरा हिम-कणिका ही मकरंद हुई ।
इस इंदीवर से गंध भरी बुनती जाली मधु की धारा,
मन-मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी-सी कारा ।
अणुओं को है विश्राम कहाँ यह कृतिमय वेग भरा कितना ॐ
अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना ॐ
उन नृत्य-शिथिल-निश्वासों की कितनी है मोहमयी माया ?
जिनसे समीर छनता-छनता बनता है प्राणों की छाया ।
आकाश-रंध्र हैं पूरित-से यह सृष्टि गहन-सी होती है ल
आलोक सभी मूर्छित सोते यह आँख थकी-सी रोती है ।
सौंदर्यमयी चंचल कृतियाँ बनकर रहस्य है नाच रही ,
मेरी आँखों को रोक वहीं आगे बढने में जाँच रही ।
मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी वह सब क्या छाया उलझन है ?
सुंदरता के इस परदे में क्या अन्य धरा कोई धन है ?
मेरी अक्षय निधि ॐ तुम क्या हो पहचान सकूँगा क्या न तुम्हें ?
उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझूँ मान तुम्हें ।
माधवी निशा की अलसाई अलकों में लुकते तारा-सी,
क्या हो सूने मरु-अंचल में अंतःसलिला की धारा-सी ,
श्रुतियों में चुपके-चुपके से कोई मधु-धारा घोल रहा,
इस नीरवता के परदे में जैसे कोई कुछ बोल रहा ।
है स्पर्श मलय के झिलमिल सा संज्ञा को और सुलाता है,
पुलकित हो आँखें बंद किये तंद्रा को पास बुलाता है ।
व्रीडा है यह चंचल कितनी विभ्रम से घूँघट खींच रही,
छिपने पर स्वयं मुटूल कर से क्यों मेरी आँखें मीच रही ?

29

उदबुद्ध क्षितिज की श्याम छटा इस उदित शुक्र की छाया में ,
ऊषा-सा कौन रहस्य लिये सोती किरनों की काया में ।
उठती है किरनों के ऊपर कोमल किसलय की छाजन-सी,
स्वर का मधु-निस्वन रंध्रों में-जैसे कुछ दूर बजे बंसी ।
सब कहते हैं- 'खोलो खोलो, छवि देखूँगा जीवन धन की'
आवरन स्वयं बनते जाते हैं भीड लग रही दर्शन की ।

चाँदनी सदृश खुल जाय कहीं अवगुंठन आज सँवरता सा ,
जिसमें अनंत कल्लोल भरा लहरों में मस्त विचरता सा—
अपना फेनिल फन पटक रहा मणियों का जाल लुटाता —सा,
उन्निद्र दिखाई देता हो उन्मत्त हुआ कुछ गाता —सा । "
"जो कुछ हो , मैं न सहालूँगा इस मधुर भार को जीवन के,
आने दो कितनी आती हैं बाधायेँ दम—संयम बन के ।
नक्षत्रों, तुम क्या देखोगे —इस ऊषा की लाली क्या है ?
संकल्प भर रहा है उनमें संदेहों की जाली क्या है ?
कौशल यह कोमल कितना है सुषमा दुर्भेद्य बनेगी क्या ?
चेतना इंद्रियों की मेरी, मेरी ही हार बनेगी क्या ? "
"पीता हूँ, हाँ मैं पीता हूँ—यह स्पर्श, रूप, रस गंध भरा
मधु, लहरों के टकराने से ध्वनि में है क्या गुंजार भरा ।
तारा बनकर यह बिखर रहा क्यों स्वपनों का उन्माद अरे उँ
मादकता—माती नींद लिये सोऊँ मन में अवसाद भरे ।
चेतना शिथिल—सी होती है उन अंधकार की लहरों में —"
मनु डूब चले धीरे—धीरे रजनी के पिछले पहरों में ।
उस दूर क्षितिज में सृष्टि बनी स्मृतियों की संचित छाया से,
इस मन को है विश्राम कहाँ उँ चंचल यह अपनी माया से ।

30

जागरण—लोक था भूल चला स्वप्नों का सुख—संचार हुआ,
कौतुक सा बन मनु के मन का वह सुंदर क्रीडागार हुआ ।
था व्यक्ति सोचता आलस में चेतना सजग रहती दुहरी,
कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी :-
"प्यासा हूँ, मैं अब भी प्यासा संतुष्ट ओध से मैं न हुआ,
आया फिर भी वह चला गया तृष्णा को तनिक न चैन हुआ ।
देवों की सृष्टि विलीन हुई अनुशीलन में अनुदिन मेरे,
मेरा अतिचार न बंद हुआ उन्मत्त रहा सबको घेरे ।
मेरी उपासना करते वे मेरा संकेत विधान बना,
विस्तृत जो मोह रहा मेरा वह देव—विलास—वितान तना ।
मैं काम, रहा सहचर उनका उनके विनोद का साधन था,
हँसता था और हँसाता था उनका मैं कृतिमय जीवन था ।
जो आकर्षण बन हँसती थी रति थी अनादि—वासना वही ,
अव्यक्त—प्रकृति—उन्मीलन के अंतर में उसकी चाह रही ।
हम दोनों का अस्तित्व रहा उस आरंभिक आवर्तन—सा ।
जिससे संसृति का बनता है आकार रूपके नर्तन—सा ।
उस प्रकृति—लता के यौवन में उस पुष्पवती के माधव का —
मधु—हास हुआ था वह पहला दो रूप मधुर जो ढाल सका । "
"वह मूल शक्ति उठ खडी हुई अपने आलस का त्याग किये,

परमाणु बाल सब दौड़ पड़े जिसका सुंदर अनुराग लिये ।
कुंकुम का चूर्ण उडाते से मिलने को गले ललकते से ,
अंतरिक्ष में मधु-उत्सव के विद्युत्कण मिले झलकते से ।
वह आकर्षण, वह मिलन हुआ प्रारंभ माधुरी छाया में,
जिसको कहते सब सृष्टि, बनी मतवाली माया में ।

31

प्रत्येक नाश-विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए, बन सृष्टि रही ,
ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था-मादक मरंद की वृष्टि रही ।
भुज-लता पडी सरिताओं की शैलों के गले सनाथ हुए,
जलनिधि का अंचल व्यजन बना धरणी का दो-दो साथ हुए ।
कोरक अंकुर-सा जन्म रहा हम दोनों साथी झूल चले,
उस नवल-सर्ग के कानन में मृदु मलयानिल से फूल चले ।
हम भूख-प्यास से जाग उठे आकांक्षा-तृप्ति समन्वय में,
रति-काम बने उस रचना में जो रही नित्य-यौवन वय में ? '
"सुरबालाओं को सखी रही उनकी हत्तंत्री की लय थी
रति, उनके मन को सुलझाती वह राग-भरी थी, मधुमय थी ।
मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनकी ,
आनन्द-समन्वय होता था हम ले चलते पथ पर उनको ।
वे अमर रहे न विनोद रहा, चेतना रही, अनंग हुआ,
हूँ भटक रहा अस्तित्व लिये संचित का सरल प्रसंग हुआ । "
" यह नीड मनोहर कृतियों का यह विश्व-कर्म रंगस्थल है,
है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है ।
वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं ,
आरंभ और परिणामों के संबंध सूत्र से बुनते हैं ।
उषा की सजल गुलाली जो घुलती है नीले अंबर में
वह क्या है ? क्या तुम देख रहे वर्णों के मेघाडंबर में ?
अंतर है दिन और रजनी का यह साधक-कर्म विखरता है ,
माया के नीले अंचल में आलोक बिंदु-सा झरता है । "
" आरंभिक वात्या-उदगम में अब प्रगति बन रहा संसृति का,
मानव की शीतल छाया में ऋणशोध करूँगा निज कृति का ।

32

दोनों का समुचित परिवर्तन जीवन में शुद्ध विकास हुआ,
प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई जब विप्लवमें पड ह्रास हुआ ।
यह लीला जिसकी विकस चली वह मूलशक्ति थी प्रेम-कला,
उसका संदेश सुनाने को संसृति में आयी वह अमला ।
हम दोनों की संतान वही- कितनी सुंदर भोली-भाली,
रंगों ने जिनसे खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली ।

जड़—चेतनता की गाँठ वही सुलझन है भूल—सुधारों की ।
वह शीतलता है शांतिमयी जीवन के उष्ण विचारों की ।
उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो"—कहती—कहती
वह ध्वनि चुपचाप हुई सहसा जैसे मुरली चुप हो रहती ।
मनु आँख खोलकर पूछ रहे—"पंथ कौन वहाँ पहुँचाता है ?
उस ज्योतिमयी को देव ॐ कहो कैसे कोई नर पाता है ?"
पर कौन वहाँ उत्तर देता ॐ वह स्वप्न अनोखा भंग हुआ ,
देखा तो सुंदर प्राची में अरुणोदय का रस—रंग हुआ ।
उस लता—कुंज की झिल—मिल से हेमाभरश्मि थी खेल रही ,
देवों के सोम—सुधा —रस की मनु के हाथों में बेल रही ।

33

वासना

.....

चल पडे कब से हृदय दो, पथिक—से अश्रांत,
यहाँ मिलने के लिये, जो भटकते थे भ्रांत ।
एक गृहपति , दूसरा था अतिथि विगत—विकार,
प्रश्न था यदि एक, तो उत्तर द्वितीय उदार ।
एक जीवन—सिधु था, तो वह लहर लघु लोल,
एक नवल प्रभात, तो वह स्वर्ण—किरण अमोल ।
एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम ,
दूसरा रंजित किरण से श्री—कलित घनश्याम ।
नदी—तट के क्षितिज में नव जलद सायंकाल—
खेलता दो बिजलियों से ज्यों मधुरिमा—जाल ।
लड रहे अविरत युगल थे चेतना के पाश,
एक सकता था न कोई दूसरे को फाँस ।
था समर्पण में ग्रहण का एक सुनिहित भाव ,
थी प्रगति, पर अडा रहता था सतत अटकाव ।
चल रहा था विजन—पथ पर मधुर जीवन—खेल ,
दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल ।
नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष ,
गूढ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष ।
दूर, जैसे सघन वन—पथ—अंत का आलोक—
सतत होता जा रहा हो, नयन की गति रोक ।

34

गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि में असहाय ,
घन—पटल में डूबता था किरण का समुदाय ।
कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल—छंद,

मधुकरी का सुरस—संचय हो चला अब बंद ।
 उठ रही थी कालिमा धूसर क्षितिज से दीन ,
 भेंटता अंतिम अरुण आलोक—वैभव—हीन ।
 यह दरिद्र—मिलन रहा रच एक करुणा लोक ,
 शोक भर निर्जन निलय से बिछुडते थे कोक ।
 मनु अभी तक मनन करते थे लगाये ध्यान ,
 काम के संदेश से ही भर रहे थे कान ।
 इधर गृह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार ,
 शस्य, पशु या धान्य का होने लगा संचार ।
 नई इच्छा खींच लाती, अतिथि का संकेत —
 चल रहा था सरल—शासन युक्त—सुरुचि—समेत ।
 देखते थे अग्निशाला से कुतुहल — युक्त ,
 मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन—मुक्त ।
 एक माया ॐ आ रहा था पशु अतिथि के साथ ,
 हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ ।
 चपल कोमल—कर रहा फिर सतत पशु के अंग ,
 स्नेह से करता चमर—उदगीव हो वह संग ।
 कभी पुलकित रोमराजी से शरीर उछाल ,
 भाँवरों से निज बनाता अतिथि सन्निधि जाल ।
 कभी निज भोले नयन से अतिथि बदन निहार ,
 सकल संचित—स्नेह देता दृष्टि—पथ से ढार ।

35

और वह पुचकारने का स्नेह शबलित चाव ,
 मंजु ममता ससे मिला बन हृदय का सद्भाव ।
 देखते—ही—देखते दोनों पहुँच कर पास ,
 लगे करने सरल शोभन मधुर मुग्ध विलास ।
 वह विराग—विभूति ईर्ष्या—पवन से हो व्यस्त
 बिखरती थी और खुलतते ज्वलन—कण जो अस्त ।
 किन्तु यह क्या ? एक तीखी घूँट, हिचकी आह ॐ
 कौन देता है हृदय में वेदनामय डाह ?
 " आह यह पशु और इतना सरल सुन्दर स्नेह ॐ
 पल रहे मेरे दिये जो अन्न से इस गेह ।
 मैं? कहाँ मैं ? लेलिया करते सभी निज भाग ,
 और देते फेंक मेरा प्राप्य तुच्छ विराग ॐ
 अरी नीच कृतघ्नते ॐ पिच्छल—शिला—संलग्न ,
 मलिन काई—सी करेगी हृदय कितने भग्न ?
 हृदय का राजस्व अपहृत कर अधम अपराध ,
 दस्यु मुझसे चाहते हैं सुख सदा निर्बाध ।

विश्व में जो सरल सुंदर हो विभूति महान ,
सभी मेरी हैं, सभी करती रहें प्रतिदान ।
यही तो, मैं ज्वलित वाडव-वह्नि नित्य-अशांत ,
सिधु लहरों सा करें शीतल मुझे सब शांत । "
आ गया फिर पास क्रीडाशील अतिथि उदार ,
चपल शैशव सा मनोहर भूल का ले भार ।

36

कहा "क्यों तुम अभी बैठे ही रहे धर ध्यान ,
देखती हैं आँख कुछ, सुनते रहे कुछ कान -
मन कहीं , यह क्या हुआ है ? आज कैसा रंग ? "
नत हुआ फण दृष्ट ईर्षा का, विलीन उमंग ।
और सहलाने लगा कर-कमल कोमल कांत ,
देख कर वह रूप-सुषमा मनु हुए कुछ शांत ।
कहा "अतिथि ॐ कहाँ रहे तुम किधर थे अज्ञात ?
और यह सहचर तुम्हारा कर रहा ज्यों बात -
किसी सुलभ भविष्य की, क्यों आज अधिक अधीर ?
मिल रहा तुमसे चिरंतन स्नेह सा गंभीर ?
खौन हो तुम खींचते यों मुझे अपनी ओर ॐ
ओर ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर ॐ
ज्योत्स्ना -निर्झर ॐ ठहरती ही नहीं यह आँख ,
तुम्हें कुछ पहचानने की खो गयी-सी साख ।
कौन करुण रहस्य है तुममें छिपा छविमान ?
लता वीरुध दिया करते जिससे छायादान ।
पशु कि हो पाषाण सब में नृत्य का नव छंद ,
एक आलिंगन बुलाता सभा को सानंद ।
राशि-राशि बिखर पडा है शांत संचित प्यार ,
रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार ।
देखता हूँ चकित जैसे ललित लतिका-लास ,
अरुण घन की सजल छाया में दिनांत निवास -
और उसमें हो चला जैसे सहज सविलास ,
मदिर माधव-यामिनी का धीर-पद-विन्यास ।
आह यह जो रहा सूना पडा कोना दीन -
ध्वस्त मंदिर का, बसाता जिसे कोई भी न -

37

उसी में विश्राम माया का अचल आवास ,
अरे यह सुख नींद कैसी, हो रहा हिम-हास ॐ
वासना की मधुर छाया ॐ स्वास्थ्य , बल, विश्राम ॐ

हृदय की सौंदर्य—प्रतिमा ॐ कौन तुम छविधाम ॐ
 कामना की किरन का जिसमें मिला हो ओज ,
 कौन हो तुम , इसी भूले हृदय की चिर—खोज ॐ
 कुंद—मंदिर—सी हँसी ज्यों खुली सुषमा बाँट ,
 क्यों न वैसे ही खुला यह हृदय रुद्ध—कपाट ?
 कहा हँसकर " अतिथि हूँ मैं , और परिचय व्यर्थ ,
 तुम कभी उद्विग्न इतने थे न इसके अर्थ |
 चलो , देखो वह चला आता बुलाने आज —
 सरल हँसमुख विधु जलद—लघु—खंड—वाहन साज ॐ
 कालिमा धुलने लगी घुलने लगा आलोक ,
 इसी निभृत अनंत में बसने लगा अब लोक |
 इस निशामुख की मनोहर सुधामय मुसक्यान ,
 देख कर सब भूल जायें दुःख के अनुमान |
 देख लो , ऊँचे शिखर का व्योम—चुंबन—व्यस्त —
 लौटना अंतिम किरण का और होना अस्त |
 चलो तो इस कौमुदी में देख आवें आज ,
 प्रकृति का यह स्वप्न—शासन , साधना का राज | "
 सृष्टि हँसने लगी आँखों में खिला अनुराग ,
 राग—रंजित चंद्रिका थी , उडा सुमन—पराग |
 और हँसता था अतिथि मनु का पकडकर हाथ ,
 चले दोनों स्वप्न—पथ में , स्नेह—संबल साथ |

38

देवदारु निकुंज गह्वर सब सुधा में स्नात ,
 सब मनाते एक उत्सव जागरण की रात |
 आ रही थी मंदिर भीनी माधवी की गंध ,
 पवन के घन घिरे पडते थे बने मधु—अंध |
 शिथिल अलसाई पडी छाया निशा की कांत —
 सो रही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रान्त |
 उसी झुरमुट में हृदय की भावना थी भ्रान्त ,
 जहाँ छाया सृजन करती थी कुतूहल कांत |
 कहा मनु ने " तुम्हें देखा अतिथि ॐ कितनी बार ,
 कितु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार ॐ
 पूर्व—जन्म कहूँ कि था स्पृहणीय मधुर अतीत ,
 गूँजते जब मंदिर घन में वासना के गीत |
 भूल कर जिस दृश्य को मैं बना आज अचेत ,
 वही कुछ सत्रीड , सस्मित कर रहा संकेत |
 " मैं तुम्हारा हो रहा हूँ " यही सुदृढ विचार '
 चेतना का परिधि बनता घूम चक्राकार |

मधु बरसती विधु किरन है काँपती सुकुमार ?
 पवन में है पुलक, मंथर चल रहा मधु-भार ।
 तुम समीप, अधीर इतने आज क्यों है प्राण ?
 छक रहा है किस सुरभी से तृप्त होकर घ्राण ?
 आज क्यों संदेह होता रूठने का व्यर्थ ,
 क्यों मनाना चाहता-सा बन रहा असमर्थ ।
 धमनियों में वेदना-सा रक्त का संचार,
 हृदय में है काँपती धडकन, लिये लघु भार ॐ
 चेतना रंगीन ज्वाला परिधि में सानंद ,
 मानती-सी दिव्य-सुख कुछ गा रही है छंद ।

39

अग्निक्रीट समान जलती है भरी उत्साह ,
 और जीवित है, न छाले हैं न उसमें दाह ॐ
 कौन हो तुम विश्व-माया-कुहक-सी साकार ,
 प्राण-सत्ता के मनोहर भेद-सी सुकुमार ॐ
 हृदय जिसकी कांत छाया में लिये निश्वास ,
 थके पथिक समान करता व्यजन ग्लानि विनाश । "
 श्याम-नभ में मधु-किरन-सा फिर वही मृदु हास,
 सिधु की हिलकोर दक्षिण का समीर-विलास ॐ
 कुंज में गुंजरित कोई मुकुल सा अव्यक्त-
 लगा कहने अतिथि, मनु थे सुन रहे अनुरक्त -
 " यह अतृप्ति अधीर मन की, क्षोभयुत उन्माद ,
 सखे ॐ तुमुल-तरंग-सा उच्छ्वासमय संवाद ।
 मत कहो, पूछो न कुछ, देखो न कैसी मौन ,
 विमल राका-मूर्ति बन कर स्तब्ध बैठा कौन ॐ
 विभव मतवाली प्रकृति का आवरण वह नील ,
 शिथिल है, जिस पर बिखरता प्रचुर मंगल खील,
 राशि-राशि नखत-कुसुम की अर्चना अश्रांत
 बिखरती है, तामरस सुंदर चरण के प्रांत । "
 मनु निरखने लगे ज्यों-ज्यों यामिनी का रूप ,
 वह अनंत प्रगाढ छाया फैलती अपरूप ,
 बरसता था मंदिर कण-सा स्वच्छ सतत अनंत ,
 मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत ।
 छूटती चिनगारियाँ उत्तेजना उद्भ्रांत ।
 धधकती ज्वाला मधुर , था वक्ष विकल अशांत ।
 वातचक्र समान कुछ था बाँधता आवेश ,
 धैर्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था लेश ।

40

कर पकड उन्मुक्त से हो लगे कहने "आज,
देखता हूँ दूसरा कुछ मधुरिमामय साज ॐ
वही छवि ॐ हाँ वही जैसे ॐ कितु क्या यह भूल ?
रही विस्मृति-सिधु में स्मृति-नाव विकल अकूल ॐ
जन्म-संगिनी एक थी जो कामबाला नाम -
मधुर श्रद्धा था, हमारे प्राण को विश्राम -
सतत मिलता था उसी से, अरे जिसको फूल
दिया करते अर्ध में मकरंद सुषमा-मूल
प्रलय में भी बच रहे हम फिर मिलन का मोद
रहा मिलने को बचा, सूने जगत की गोद ॐ
ज्योत्स्ना सी निकल आई ॐ पार कर नीहार,
प्रणय-विधु है खडा नभ में लिये तारक हार ॐ
कुटिल कुंतल से बनाती कालमाया जाल-
नीलिमा से नयन की रचती तमिस्रा माल |
नींद-सी दुर्भेद्य तम की, फेंकती यह दृष्टि,
स्वप्न-सी है बिखर जाती हँसी की चल-सृष्टि |
हुई केंद्रीभूत-सी है साधना की स्फूर्ति,
दृढ- सकल सुकुमारता में रम्य नारी-मूर्ति |
दिवाकर दिन या परिश्रम का विकल विश्रांत
में पुरुष, शिशु-सा भटकता आज तक था भ्रांत |
चंद्र की विश्राम राका बालिका -सी कांत,
विजयनी सी दीखती तुम माधुरी-सी शांत |
पददलित-सी थकी व्रज्या ज्यों सदा आक्रांत,
शस्य -श्यामल भूमि में होती समाप्त अशांत |
आह ॐ वैसा ही हृदय का बन रहा परिणाम,
पा रहा आज देकर तुम्हीं से निज काम |

41

आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान |
विश्व-रानी ॐ सुंदरी नारी ॐ जगत की मान ॐ "
धूम-लतिका सी गगन-तरु पर न चढती दीन,
दबी शिशिर -निशीथ में ज्यों ओस-भार नवीन |
झुक चली सब्रीड वह सुकुमारता के भार,
लद गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार |
और वह नारीत्व का जो मूल मधु अनुभाव,
आज जैसे हँस रहा भीतर बढाता चाव |
मधुर व्रीडा-मिश्र चिता साथ ले उल्लास,
हृदय का आनंद-कूजन लगा करने रास |

गिर रहीं पलकें, झुकी थी नासिका की नोक ,
 भूलता थी कान तक चढती रही बेरोक ।
 स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल ,
 खिला पुलक कदंब सा था भरा गदगद बोल ।
 किन्तु बोली "क्या समर्पण आज का हे देव ॐ
 बनेगा— चिर—बंध — नारी—हृदय—हेतु — सदैव ।
 आह मैं दुर्बल, कहो क्या ले सकूँगी दान ॐ
 वह, जिसे उपभोग करने में विकल हों प्रान ?"

42

लज्जा

.....

"कोमल किसलय के अंचल में नन्हीं कलिका ज्यों छिपती —सी,
 गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दिपती —सी ।
 मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों—
 सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों—
 वैसी —ही माया में लिपटी अधरों पर उँगली धरे हुए ,
 माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए ।
 नीरव निशीथ में लतिका—सी तुम कौन आ रही हो बढती ?
 कोमल बाहें फैलाये—सी आलिगन का जादू पढती ॐ
 किन इंद्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग—कण राग—भरे ,
 सिर नीचा कर हो गूँथ माला जिससे मधु धार ढरे ?
 पुलकित कदंब की माला—सी पहना देती हो अंतर में ,
 झुक जाती है मन की डाली अपनी फलभरता के डर में ।
 वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरनों से बुना हुआ,
 यह अंचल कितना हलका—सा कितना सौरभ से सना हुआ ।
 सब अंग मोम से बनते हैं कोमलता में बल खाती हूँ ,
 मैं सिमिट रही—सी अपने में परिहास—गीत सुन पाती हूँ ।
 स्मित बन जाती है तरल हँसी नयनों में भर कर बाँकपना ,
 प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना
 मेरे सपनों में कलरव का संसार आँख जब खोल रहा ,
 अनुराग समीरों पर तिरता था इतराता—सा डोल रहा ।
 अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को ,
 जीवन भर के बल—वैभव से सत्कृत करती दूरागत को ।

43

किरणों का रज्जु समेट लिया जिसका अवलंबन ले चढती,
 रस के निर्झर में धँस कर मैं आनन्द—शिखर के प्रति बढती ।
 छूने में हिचक, देखने में पलकें आँखों पर झुकती हैं ,

कलरव परिहास भरी गूँजें अधरों तक सहसा रुकती हैं ।
 संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खडी रही ,
 भाषा बन भीहों की काली रेखा -सी भ्रम में पडी रही ।
 तुम कौन ॐ हृदय की परवशता ? सारी स्वतंत्रता छीन रही ,
 स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे जीवन-वन से हो बीन रही "
 संध्या की लाली में हँसती, उसका ही आश्रय लेती-सी ,
 छाया प्रतिमा गुनगुना उठी श्रद्धा का उत्तर देती-सी ।
 " इतना न चमत्कृत हो बाले ॐ अपने मन का उपकार करो,
 मैं एक पकड हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच-विचार करो ।
 अंबर-चुंबी हिम-श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिये ,
 विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिये ।
 मंगल कुंकुम की श्री जिसमें निखरी हो ऊषा की लाली ,
 भोला सुहाग इठलाता हो ऐसा हो जिसमें हरियाली ।
 हो नयनों का कल्याण बना आनन्द सुमन सा विकसा हो ,
 वासंती के वनवैभव में जिसका पंचमस्वर पिक-सा हो ,
 जो गूँज उठे फिर नस-नस में मूर्छना समान मचलता-सा ,
 आँखों के साँचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता-सा ,
 नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो ,
 वह कौध कि जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो ,
 हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का गोधूली की सी ममता हो ,
 जागरण प्रात-सा हँसता हो जिसमें मध्याह्न निखरता हो ,
 हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से ,
 उस नवल चंद्रिका-से बिछले जो मानस की लहरों पर-से ,

44

फूलों की कोमल पंखुडियाँ बिखरें जिसके अभिनंदन में ,
 मकरंद मिलाती हों अपना स्वागत के कुंकुम चंदन में ,
 कोमल किसलय मर्मर-रव-से जिसका जयघोष सुनाते हों ,
 जिसमें दुख-सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हों ,
 उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं ,
 जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं ।
 मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती ,
 ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती ,
 मैं देव-सृष्टि की रति-रानी निज पंचबाण से वंचित हो ,
 बन आवर्जना-मूर्ति दीना अपनी अतृप्ति-सी संचित हो ,
 अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता-सी ,
 लीला विलास की खेद-भरी अवसादमयी श्रम-दलिता-सी ,
 मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ मैं शालीनता सिखाती हूँ ,
 मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ ,

लाली बन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती ,
कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती ,
चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली ,
मैं वह हलकी सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली ।
"हाँ, ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है ?
इस निविड निसा में संसृति की आलोकमयी रेखा क्या है ?
यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ ,
अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ ।
पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है ,
घनश्याम—खंड—सी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है ?
सर्वस्व—समर्पण करने की विस्वास—महा—तरु—छाया में ,
चुपचाप पडी रहने की क्यों ममता जगती है माया में ?

45

छायापथ में तारक—द्युति सी झिलमिल करने की मधु—लीला,
अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रम—शीला ?
निस्संबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में ,
चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुधराई में ।
नारी जीवन का चित्र यही क्या ? विकल रंग भर देती हो ,
अस्पृष्ट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो ।
रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच—विचार न कर सकती,
पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बकती ।
मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ ,
भुजलता फँसा कर नर—तरु से झूले सी झोंके खाती हूँ ।
इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है ,
मैं दे दूँ और न फिर कुछ लूँ, इतना ही सरल झलकता है ।"
"क्या कहती हो ठहरो नारी ॐ संकल्प अश्रु —जल—से अपने —
तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने—से सपने ।
नारी ॐ तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास—रजत—नग पगतल में ,
पीयूष—स्रोत—सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में ।
देवों की विजय, दानवों की हारों का होता—युद्ध रहा ,
संघर्ष सदा उर—अंतर में जीवित रह नित्य—विरुद्ध रहा ।
आँसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा—
तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधिपत्र लिखना होगा ।

46

कर्म

.....

कर्मसूत्र—संकेत सदृश थी सोमलता तब मनु को ,
 चढी शिजिनी सी, खींचा फिर उसने जीवन—धनु को ।
 हुए अग्रसर उसी मार्ग में छुटे—तीर—से फिर वे ,
 यज्ञ यज्ञ की कटु पुकार से रह न सके अब थिर वे ।
 भरा कान में कथन काम का मन में नव अभिलाषा ,
 लगे सोचने मनु—अतिरंजित उमड रही थी आशा ।
 ललक रही थी ललित लालसा सोमपान की प्यासी ,
 जीवन के उस दीन विभव में जैसे बनी उदासी ।
 जीवन की अविराम साधना भर उत्साह खडी थी ,
 ज्यों प्रतिकूल पवन में तरणी गहरे लौट पडी थी ।
 श्रद्धा के उत्साह वचन, फिर काम—प्रेरणा मिल के,
 भ्रांत अर्थ बन आगे आये बने ताड थे तिल के ।
 बन जाता सिद्धांत प्रथम —फिर पुष्टि हुआ करती है ,
 बुद्धि उसी ऋण को सबसे ले सदा भरा करती है ।
 मन जब निश्चित—सा कर लेता कोई मत है अपना,
 बुद्धि दैव—बल से प्रमाण का सतत निरखता सपना ।
 पवन वही हिलकोर उठाता वही तरलता जल में ।
 वही प्रतिध्वनि अंतरतम की छा जाती नभ थल में ।
 सदा समर्थन करती उसकी तर्कशास्त्र की पीढी ,
 " ठीक यही है सत्य ॐ यही है उन्नति सुख की सीढी ।

47

और सत्य ॐ यह एक शब्द तू कितना गहन हुआ है ?
 मेघा के क्रीडा—पंजर का पाला हुआ सुआ है ।
 सब बातों में खोज तुम्हारी रट—सी लगी हुई है ,
 किन्तु स्पर्श से तर्क—करो के बनता 'छुईमुई' है ।
 असुर पुरोहित उस वोप्लव से बच कर भटक रहे थे,
 वे किलात—आकुलि थे—जिनने कष्ट अनेक सहे थे ।
 देख—देख कर मनु का पशु, जो व्याकुल चंचल रहती —
 उनकी आमिष—लोलुप—रसना आँखों से कुछ कहती ।
 ' क्यों किलात ॐ खाते—खाते तृष्ण और कहाँ तक जीऊँ ,
 कब तक मैं देखूँ जीवित पशु घूँट लहू का पीऊँ ॐ
 क्या कोई इसका उपाय ही नहीं कि इसको खाऊँ ?
 बहुत दिनों पर एक बार तो सुख की बीन बजाऊँ । '
 आकुलि ने तब कहा — ' देखते नहीं, साथ में उसके
 एक मृदुलता की, ममता की छाया रहती हँस के ।
 अंधकार को दूर भगाती वह आलोक किरन—सी,
 मेरी माया विध जाती है जिससे हलके घन—सी ।
 तो भी चलो आज कुछ करके तब मैं स्वस्थ रहूँगा ,

या जो भी आवेंगे सुख-दुख उनको सहज सहूँगा ।
-यों ही दोनों कर विचार उस कुंज द्वार पर आये,
जहाँ सोचते थे मनु बैठे मन से ध्यान लगाये ।
"कर्म-यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा,
इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा ।

48

कितु बनेगा कौन पुरोहित ? अब यह प्रश्न नया है ,
किस विधान से करूँ यज्ञ यह पथ किस ओर गया है ॐ
श्रद्धा ॐ पुण्य-प्राप्य है मेरी वह अनंत अभिलाषा ,
फिर इस निर्जन में खोजे अब किसको मेरी आशा ।
कहा असुर मित्रों ने अपना मुख गंभीर बनाये -
जिनके लिए यज्ञ होगा हम उनके भेजे आये ।

49

यजन करोगे क्या तुम ? फिर यह किसको खोज रहे हो ?
अरे पुरोहित की आशा में कितने कष्ट सहे हो ।
इस जगती के प्रतिनिधि जिनसे प्रकट निशीथ सबेरा -
"मित्र-वरुण' जिनकी छाया है यह आलोक -अँधेरा ।
वे ही पथ-दर्शक हों सब विधि पूरी होगी मेरी ,
चलो आज फिर ससे वेदी पर हो ज्वाला की फेरी । "
"परंपरागत कर्मों की वे कितनी सुंदर लडियाँ,
जीवन-साधन की उलझी हैं जिसमें सुख की घडियाँ,
जिनमें हैं प्रेरणामयी-सी संचित कितनी कृतियाँ ,
पुलकभरी सुख देने वाली बन कर मादक स्मृतियाँ ।
साधारण से कुछ अतिरंजित गति में मधुर त्वरा-सी
उत्सव-लीला, निर्जनता की जिससे कटे उदासी ।
एक विशेष प्रकार कुतूहल होगा श्रद्धा को भी । "
प्रसन्नता से नाच उठा मन नूतनता का लोभी ।
यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला,
दारुण-दृश्य ॐ रुधिर के छींटे अस्थि-खंड की माला ॐ
वेदी की निर्मम-प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी ,
सोम-पात्र भी भरा , धरा था पुरोडाश भी आगे,
श्रद्धा वहाँ न थी मनु के तब सुप्त भाव सब जागे ।
"जिसका था उल्लास निरखना वही अलग जा बैठी,
यह सब क्यों फिर ॐ दृप्त वासना लगी गरजने ऐंठी ।

50

जिसमें जीवन का संचित सुख सुंदर मूर्त बना है,

हृदय खोल कर कैसे उसको कहूँ कि वह अपना है ।
 वही प्रसन्न नहीं ॐ रहस्य कुछ इसमें सुनिहित होगा ,
 आज वही पशु मर कर भी क्या सुख में बाधक होगा ।
 श्रद्धा रूठ गयी तो फिरा क्या उसे मनाना होगा ,
 या वह स्वयं मान जायेगी, किस पथ जाना होगा । "

पुरोडाश के साथ सोम का पान लगे मनु करने ,
 लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने ।
 संध्या की धूसर छाया में शैल श्रृंग की रेखा ,
 अंकित थी दिगंत अंबर में लिये मलिन शशि—लेखा ।
 श्रद्धा अपनी शयन—गुहा में दुखी लौट कर आयी ,
 एक विरक्ति —बोझ सी ढोती मन ही मन बिलखायी ।
 सूखी काष्ठ संधि में पतली अनल शिखा जलती थी ,
 उस धुँधले गुह में आभा से, तामस को छलती थी ।
 कितु कभी बुझ जाती पाकर शीत पवन के झोंके ,
 कभी उसी से जल उठती तब कौन उसे फिर रोके ?
 कामायनी पडी थी अपना कोमल चर्म बिछा के ,
 श्रम मानो विश्राम कर रहा मृदु आलस को पा के ।
 धीरे—धीरे जगत चल रहा अपने उस ऋजुपथ में,
 धीरे धीरे खिलते तारे मृग जुतते विधुरथ में ॐ
 अंचल लटकाती निशीथिनी अपना ज्योत्स्ना —शाली ,
 जिसकी छाया में सुख पावे सृष्टि वेदना वाली ।
 उच्च शैल—शिखरों पर हँसती प्रकृति चंचला बाला ,
 धवल हँसी बिखराती अपना फैला मधुर उजाला

51

जीवन की उद्धाम लालसा उलझी जिसमें व्रीडा,
 एक तीव्र उन्माद और मन मथने वाली पीडा ।
 मधुर विरक्ति —भरी आकुलता, घिरती हृदय —गगन में,
 अंतर्दाह स्नेह का तब भी होता था उस मन में ।
 वे असहाय नयन थे खुलते —मुँदते भीषणता में ,
 आज स्नेह का पात्र खडा था स्पष्ट कुटिल कटुता में ।
 " कितना दुःख जिसे मैं चाहूँ वह कुछ और बना हो ,
 मेरा मानस—चित्र खींचना सुंदर—सा सपना हो ।
 जाग उठी है दारुण—ज्वाला इस अनंत मधुवन में ,
 कैसे बुझे कौन कह देगा इस नीरव निर्जन में ?
 यह अनंत अवकाश नीड—सा जिसका व्यथित बसेरा ,
 वही वेदना सजग पलक में भर कर अलस सबेरा ।
 काँप रहे हैं चरण पवन के , विस्तृत नीरवता सी—
 धुली जा रही है दिशि—दिशि की नभ में मलिन उदासी ।

अंतरतम की प्यास विकलता से लिपटी बढती है ,
युग-युग की असफलता का अवलंबन ले चढती है ।
विश्व विपुल-आतंक-त्रस्त है अपने ताप विषम-से ,
फैल रही है घनी नीलिमा अंतर्दाह परम- से ।
उद्वेलित है उदधि , लहरियाँ लोट रहीं व्याकुल सी
चक्रवाल की धुँधली रेखा मानो जाती झुलसी ।
सघन घूम कुंडल में कैसी नाच रही यह ज्वाला ,
तिमिर फणी पहने है मानो अपने मणि की माला ॐ
जगती-तल का सारा क्रंदन यह विषमयी विषमता ,
चुभने वाला अंतरग छल अति दारुण निर्ममता ।

52

जीवन के वे निष्ठुर दंशन जिनकी आतुर पीडा ,
कलुष-चक्र सी नाच रही है बन आँखों की क्रीडा ।
स्खलन चेतना के कौशल का भूल जिसे कहते हैं ,
एक बिदु , जिसमें विषाद के नद उमडे रहते है ।
आह वही अपराध , जगत की दुर्बलता की माया ,
धरणी की वर्जित मादकता , संचित तम की छाया ।
नील-गरल से भरा हुआ यह चंद्र-कपाल लिये हो ,
इन्हीं निमीलित ताराओं में कितनी शांति पिये हो ।
अखिल विश्व का विष पीते हो सृष्टि जियेगी फिर से ,
कहो अमरता शीतलता इतनी आती तुम्हें किधर से ?
अचल अनंत नील लहरों पर बैठे आसन मारे ,
देवॐ कौन तुम , झरते तन से श्रमकण से ये तारे ॐ
इन चरणों में कर्म-कुसुम की अंजलि वे दे सकते ,
चले आ रहे छायापथ में लोक-पथिक जो थकते ,
कितु कहाँ वह दुर्लभ उनको स्वीकृति मिली तुम्हारी ॐ
लौटाये जाते वे असफल जैसे नित्य भिखारी ।
प्रखर विनाशशील नर्तन में विपुल विश्व की माया ,
क्षण-क्षण होती प्रकट नवीना बन कर उसकी काया ।
सदा पूर्णता पाने को सब भूल किया करते क्या ?
जीवन में यौवन लाने को जी-जी कर मरते क्या ?
यह व्यापार महा-गतिशाली कहीं नहीं बसता क्या ?
क्षणिक विनाशों में स्थिरमंगल चुपके से हँसता क्या ?
यह विराग संबंध हृदय का कैसी यह मानवता ॐ
प्राणी को प्राणी के प्रति बस बची रही निर्ममता ॐ
जीवन का संतोष अन्य का रोदन बन हँसता क्यों ?
एक -एक विश्राम प्रगति को परिकर सा कसता क्यों ?
दुर्व्यवहार एक का कैसे अन्य भूल जावेगा ,

कौन उपाय ॐ गरल को कैसे अमृत बना पावेगा ॐ "

53

जाग उठी थी तरल वासना मिली रही मादकता,
मनु को कौन वहाँ आने से भला रोक अब सकता ॐ
खुले मसृण भुज-मूलों से वह आमंत्रण था मिलता,
उन्नत बक्षों में आलिंगन-सुख लहरों-सा तिरता ।
नीचा हो उठता जो धीमे-धीमे निस्वासों में,
जीवनका ज्यों ज्वार उठ रहा हिमकर के हासों में ।
जागृत था सौंदर्य यद्यपि वह सोती थी सुकुमारी,
रूप-चंद्रिका में उज्ज्वल थी आज निशा-सी नारी ।
वे मांसल परमाणु किरण से विद्युत थे बिखराते,
अलकों की डोरी में जीवन कण-कण उलझे जाते ।
विगत विचारों के श्रम-सीकर बने हुए थे मोती,
मुख मंडल पर करुण कल्पना उनको रही पिरोती ।
छूते थे मनु और कटकित होती थी वह बेली,
स्वस्थ-व्यथा की लहरों-सी जो अंग-लता थी फैली ।
वह पागल सुख इस जगती का आज विराट बना था,
अंधकार-मिश्रित प्रकाश का एक वितान तना था ।
कामायनी जगी थी कुछ-कुछ खोकर सब चेतनता,
मनोभाव आकार स्वयं हो रहा बिगडता बनता ।
जिसके हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है,
और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता है ।
प्रिय को ठुकरा कर भी मन की माया उलझा लेती,
प्रणय-शिला प्रत्यावर्त्तन में उसको लौटा देती ।

54

जलदागम-मारुत से कंपित पल्लव सदृश हथेली,
श्रद्धा की, धीरे से मनु ने अपने कर में ले ली ।
अनुनय वाणी में, आँखों में उपालंभ की छाया,
कहने लगे "अरे यह कैसी मानवती की माया ॐ
स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विफल बनाओ,
अरी अप्सरे ॐ उस अतीत के नूतन गान सुनाओ ।
इस निर्जन में ज्योत्स्ना-पुलकित विद्युत नभ के नीचे,
केवल हम तुम, और कौन है ? रहो न आँखें मीचे ।
आकर्षण से भरा विश्व यह केवल भोग्य हमारा,
जीवन के दोनों कूलों में बहे वासना धारा ।
श्रम की, इस अभाव की जगती उसकी सब आकुलता,
जिस क्षण भूल सकें हम अपनी यह भीषण चेतनता ।

वही स्वर्ग की बन अनंतता मुसक्याता रहता है ,
 दो बूँदों में जीवन का रस लो बरबस बहता है ।
 देवों को अर्पित मधु—मिश्रित सोम अधर से झूलो,
 मादकता दोला पर प्रेयसि ॐ आओ मिलकर झूलो । "
 श्रद्धा जाग रही थी तब भी छाई थी मादकता,
 मधुर—भाव उसके तन—मन में अपना हो रस छकता ।
 बोली एक सहज मुद्रा से " यह तुम क्या कहते हो ,
 आज अभी तो किसी भाव की धारा में बहते हो ।
 कल ही यदि परिवर्तन होगा तो फिर कौन बचेगा ।
 क्या जाने कोई साथी बन नूतन यज्ञ रचेगा ।
 और किसी की फिर बलि होगी किसी देव के नाते,
 कितना धोखा ॐ उससे तो हम अपना ही सुख पाते ।
 ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के,
 उनके कुछ अधिकार नहीं क्या वे सब ही हैं फीके ?

55

मनु ॐ क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता ।
 जिसमें सब कुछ ले लेना हो हंत ॐ बची क्या शक्ती ॐ "
 " तुच्छ नहीं है अपना सुख भी श्रद्धे ॐ वह भी कुछ है ,
 दो दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है ।
 इंद्रिय की अभिलाषा जितनी सतत सफलता पावे ,
 जहाँ हृदय की तृप्ति—विलासिनि मधुर—मधुर कुछ गावे ।
 रोम—हर्ष हो उस ज्योत्स्ना में मृदु मुसक्यान खिले तो ,
 आशाओं पर श्वास निछावर होकर गले मिले तो ।
 विश्व—माधुरी जिसके सम्मुख मुकुर बनी रहती हो ,
 वह अपना सुख—स्वर्ग नहीं है ॐ यह तुम क्या कहती हो ?
 जिसे खोजता फिरता मैं इस हिमगिरि के अंचल में ,
 वही अभाव स्वर्ग बन हँसता इस जीवन चंचल में ।
 वर्तमान जीवन के सुख से योग जहाँ होता है ,
 छली—अदृष्ट अभाव बना क्यों वहीं प्रकट होता है ।
 कितु सकल कृतियों की अपनी सीमा है हम ही तो ,
 पूरी हो कामना हमारी, विफल प्रयास नहीं तो ॐ "
 एक अचेतनता लाती सी सविनय श्रद्धा बोली ,
 " बचा जान यह भाव सृष्टि ने फिर से आँखें खोली ॐ
 भेद—बुद्धि निर्मम ममता की समझ, बची ही होगी ,
 प्रलय—पयोनिधि की लहरें भी लौट गयी ही होंगी ।
 अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा,
 यह एकांत स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा ।

औरों को हँसता देखो मनु—हँसो और सुख पाओ ,
अपने सुख को विस्तृत कर लो सब को सुखी बनाओ ॐ

56

रचना—मूलक सृष्टि—यज्ञ यह यज्ञ पुरुष का जो है ,
संसृति—सेवा भाग हमारा उसे विकसने को है ॐ
सुख को सीमित कर अपने में केवल दुख छोड़ोगे,
इतर प्राणियों की पीडा लख अपना मुँह मोड़ोगे,
ये मुद्रित कलियाँ दल में सब सौरभ बंदी कर लें ,
सरस न हों मकरंद बिंदु से खुल कर, तो ये मर लें —
सूखें, झड़ें और तब कुचले सौरभ बंदी कर लें,
सरस न हों मकरंद बिंदु से खुल कर, तो ये मर लें,
सूखें , झड़ें और तब कुचले सौरभ को पाओगे ,
फिर आमोद कहाँ से मधुमय वसुधा पर लाओगे ॐ
सुख अपने संतोष के लिए संग्रह—मूल नहीं है ,
उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य, वही है ।
निर्जन में क्या एक अकेले तुम्हें प्रमोद मिलेगा ?
नहीं इसी से अन्य हृदय का कोई सुमन खिलेगा ।

सुख—समीर पाकर, चाहे हो वह एकांत तुम्हारा
बढती है सीमा संसृति की बन मानवता—धारा । "
हृदय हो रहा था उत्तेजित बातें कहते—कहते ,
श्रद्धा के थे अधर सूखते मन की ज्वाला सहते ।
उधर सोम का पात्र लिये मनु, समय देखकर बोले—
"श्रद्धे ॐ पी लो इसे बुद्धि के बंधन को जो खोले ।
वही करूँगा जो कहती हो सत्य, अकेला सुख क्या ॐ
यह मनुहार ॐ रुकेगा प्याला पीने से फिर मुख क्या ? "
आँखें प्रिय आँखों में, डूबे अरुण अधर थे रस में
हृदय काल्पनिक—विजय में सुखी चेतनता नस—नस में ।
छल—वाणी की वह प्रवंचना हृदयों की शिशुता को,
खेल खिलाती, भुलवाती जो उस निर्मल विभुता को,

57

जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य की प्रगति दिशा को पल में
अपने एक मधुर इंगित से बदल सके जो छल में —
वही शक्ति अवलंब मनोहर निज मनु को थी देती,
जो अपने अभिनय से मन को सुख में उलझा लेती ।
"श्रद्धे, होगी चंद्रशालिनी यह भव—रजनी भीमा ,
तुम बन जाओ इस जीवन के मेरे सुख की सीमा ।

लज्जा का आवरण प्राण को ढँक लेता है तम से,
 उसे अकिचन कर देता है अलगाता 'हम तुम' से ।
 कुचल उठा आनंद, -यही है बाधा, दूर हटाओ,
 अपने ही अनुकूल सुखों को मिलने दो मिल जाओ । "
 और एक फिर व्याकुल चुंबन रक्त खौलता जिससे,
 शीतल प्राण धधक उठते हैं तृषा-तृप्ति के मिस से
 दो काठों की संधि बीच उस निभूत गुफा में अपने,
 अग्नि-शिखा बुझ गई, जागने पर जैसे सुख सपने ।

58

ईर्ष्या

.....

पल भर की उस चंचलता ने खो दिया हृदय का स्वाधिकार,
 श्रद्धा की अब वह मधुर निशा फैलाती निष्फल अंधकार ॐ
 मनु को अब मृगया छोड़ नहीं रह गया और था अधिक काम
 लग गया रक्त था उस मुख में-हिसा -सुख लाली से ललाम ।
 हिंसा ही नहीं - और भी कुछ वह खोज रहा था मन अधीर,
 अपने प्रभुत्व की सुख सीमा जो बढ़ती हो अवसाद चीर ।
 जो कुछ मनु के करतलगत था उसमें न रहा कुछ भी नवीन,
 श्रद्धा का सरल विनोद नहीं रुचता अब था बन रहा दीन ।
 उठती अंतस्तल से सदैव दुर्ललित लालसा जो कि कांत,
 वह इंद्रचाप-सी झिलमिल हो दब जाती अपने आप शांत ।
 " निज उदगम का मुख बंद किये कब तक सोयेंगे अलस प्राण,
 जीवन की चिर चंचल पुकार रोये कब तक, है कहाँ त्राण ॐ
 श्रद्धा का प्रणय और उसकी आरंभिक सीधी अभिव्यक्ति,
 जिसमें व्याकुल आलिंगन का अस्तित्व न तो है कुशल सूक्ति ॐ
 भावनामयी वह स्फूर्ति नहीं नव-नव स्मित रेखा में विलीन,
 अनुरोध न तो उल्लास, नहीं कुसुमोदगम-सा कुछ भी नवीन ॐ
 आती है वाणी में न कभी वह चाव भरी लीला-हिलोर,
 जिसमें नूतनता नृत्यमयी इठलाती हो चंचल मरोर ।
 जब देखो बैठी हुई वहीं शालियाँ वीन कर नहीं श्रांत,
 या अन्न इकट्ठे करती है होती न तनिक सी कभी क्लांत ॐ

59

बीजों का संग्रह और इधर चलती है तकली भरी गीत,
 सब कुछ लेकर बैठी है वह, मेरा अस्तित्व हुआ अतीत ॐ "
 लौंटे थे मृगया से थक कर दिखलाई पडता गुफा-द्वार,
 पर और न आगे बढ़ने की इच्छा होती, करते विचार ॐ
 मृग डाल दिया, फिर धनु को भी, मनु बैठ गये शिथिलित शरीर,

बिखरे ते सब उपकरण वहीं आयुध, प्रत्यंचा, श्रृंग, तीर ।
 "पश्चिम की रागमयी संध्या अब काली है हो चली, किंतु,
 अब तक आये न अहेरी वे क्या दूर ले गया चपल जंतु " —
 यों सोच रही मन में अपने हाथों में तकली रही घूम ,
 श्रद्धा कुछ—कुछ अनमनी चली अलकें लेती थीं गुल्फ चूम ।
 केतकी—गर्भ—सा पीला मुँह आँखों में आलस भरा स्नेह,
 कुछ कृशता नई लजीली थी कंपित लतिका—सी लिये देह ॐ
 मातृत्व—बोझ से झुके हुए बंध रहे पयोधर पीन आज,
 कोमल काले ऊनों की नवपट्टिका बनाती रुचिर साज,
 सोने की सिकता में मानों कालिदी बहती भर उसाँस ।
 स्वर्गगा में इंदीवर की या एक पंक्ति कर रही हास ॐ
 कटि में लिपटा था नवल—वसन वैसा ही हलका बुना नील ।
 दुर्भर थी गर्भ—मधुर पीडा झेलती जिसे जननी सलील ।
 श्रम—बिदु बना सा झलक रहा भावी जननी का सरस गर्व ,
 बन कुसुम बिखरते थे भू पर आया समीप था महापर्व ।
 मनु ने देखा जब श्रद्धा का वह सहज—खेद से भरा रूप,
 अपनी इच्छा का दृढ विरोध —जिसमें वे भाव नहीं अनूप ।
 वे कुछ भी बोले नहीं, रहे चुपचाप देखते साधिकार ,
 श्रद्धा कुछ कुछ मुस्करा उठी ज्यों जान गई उनका विचार ।
 ' दिन भर थे कहीं भटकते तम' बोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह —
 " यह हिंसा इतनी है प्यारी जो भुलवाती है देह—देह ॐ

60

मैं यहाँ अकेली देख रही पथ, सुनती—सी पद—ध्वनि नितांत,
 कानन में जब तुम दौड रहे मृग के पीछे बन कर अशांत ॐ
 ढल गया दिवस पीला पीला तुम रक्तारुण वन रहे घूम,
 देखो नीडों में विहग—युगल अपने शिशुओं को रहे चूम ॐ
 उनके घर में कोलाहल है मेरा सूना है गुफा—द्वार ॐ
 तुमको क्या ऐसी कमी रही जिसके हित जाते अन्य—द्वार ? '
 " श्रद्धे तुमको कुछ कमी नहीं पर मैं तो देख रहा अभाव ,
 भूली—सी कोई मधुर वस्तु जैसे कर देती विकल घाव ।
 चिर—मुक्त—पुरुष वह कब इतने अवरुद्ध श्वास लेगा निरीह ॐ
 गतिहीन पंगु—सा पडा—पडा ढह कर जैसे बन रहा डीह ।
 जब जड—बंधन—सा एक मोह कसता प्राणों का मृदु शरीर,
 आकुलता और जकडने की तब ग्रंथि तोडती हो अधीर ।
 हँस कर बोले, बोलते हुए निकले मधु—निर्झर—ललित—गान,
 गानों में हो उल्लास भरा झूमें जिसमें बन मधुर प्राण ।
 वह आकुलता अब कहाँ रही जिसमें सब कुछ ही जाय भूल,
 आशा के कोमल तंतु—सदृश तुम तकली मे हो रही झूल ।

यह क्यों, क्या मिलते नहीं तुम्हें शावक के सुंदर मृदुल चर्म ?
तुम बीज बीनती क्यों ? मेरा मृगया का शिथिल हुआ न कर्म ।
तिस पर यह पीलापन कैसा — यह क्यों बुनने का श्रम सखेद ?
यह किसके लिए, बताओ तो क्या इसमें है छिप रहा भेद ? "
"अपनी रक्षा करने में जो चल जाय तुम्हारा कहीं अस्त्र
वह तो कुछ समझ सकी हूँ मैं — हिसक से रक्षा करे शस्त्र ।
पर जो निरीह जीकर भी कुछ उपकारी होने में समर्थ ,
वे क्यों न जियें, उपयोगी बन —इसका मैं समझ सकी न अर्थ ॐ

61

चमड़े उनके आवरण रहे ऊनों से मेरा चले काम ,
वे जीवित हों मांसल बन कर हम अमृत दुहें — वे दुग्धधाम ।
वे द्रोह न करने के स्थल हैं जो पाले जा सकते सहेतु ,
पशु से यदि हम कुछ ऊँचे हैं तो भव—जलनिधि में बनें सेतु । "
"मैं यह तो मान नहीं सकता सुख सहज—लब्ध यों छूट जायँ,
जीवन का जो संघर्ष चले वह विफल रहे हम छले जायँ ।
काली आँखों की तारा में— मैं देखूँ अपना चित्र धन्य,
मेरा मानस का मुकुर रहे प्रतिबिंबित तुमसे ही अनन्य ।
श्रद्धे ॐ यह नव संकल्प नहीं — चलने का लघु जीवन अमोल,
मैं उसको निश्चय भोग चलूँ जो सुख चलदल सा रहा डोल ॐ
देखा क्या तुमने कभी नहीं स्वर्गीय सुखों पर प्रलय—नृत्य ?
फिर नाश और चिर—निद्रा है तब इतना क्यों विश्वास सत्य ?
यह चिर—प्रशांत—मंगल की क्यों अभिलाषा इतनी रही जाग ?
यह संचित क्यों हो रहा स्नेह किस पर इतनी हो सानुराग ?
यह जीवन का वरदान—मुझे दे दो रानी—अपना दुलार ,
केवल मेरी ही चिता का तव—चित्त वहन कर रहे भार ।
मेरा सुंदर विश्राम बना सृजता हो मधुमय विश्व एक ,
जिसमें बहती हो मधु—धारा लहरें उठती हों एक—एक । "
"मैंने तो एक बनाया है चल कर देखो मेरा कुटीर, "
यों कह कर श्रद्धा हाथ पकड मनु को ले चली वहाँ अधीर ।
उस गुफा समीप पुआलों की छाजन छोटी सी शांति—पुंज ,

कोमल लतिकाओं की डालें मिल सघन बनाती जहाँ कुंज ।
थे वातायन भी कटे हुए — प्राचीर पर्णमय रचित शुभ्र ,
आवें क्षण भर तो चले जायँ — रुक जायँ कहीं न समीर, अभ्र ।

62

उसमें था झूला हुआ वेतसी—लता का सुरुचिपूर्ण ,
बिछ रहा धरातल पर चिकना सुमनों का कोमल सुरभि—चूर्ण ।

कितनी मीठी अभिलाषायें उसमें चुपके से रहीं घूम ॐ
 कितने मंगल के मधुर गान उसके कोनों को रहे चूम ॐ
 मनु देख रहे थे चकित नया यह गृहलक्ष्मी का गृह-विधान ॐ
 पर कुछ अच्छा-सा नहीं लगा 'यह क्यों ?' किसका सुख साभिमान ?'
 चुप थे पर श्रद्धा ही बोली - "देखो यह तो बन गया नीड ,
 पर इसमें कलरव करने को आकुल न हो रही अभी भीड |
 तुम दूर चले जाते हो जब-तब लेकर तकली, यहाँ बैठ,
 मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच पैठ |
 मैं बैठी गाती हूँ तकली के प्रतिवर्तन में स्वर विभोर -
 ' चल री तकली धीरे-धीरे प्रिय गये खेलने को अहेर' |
 जीवन का कोमल तंतु बढे तेरी ही मंजुलता समान,
 चिर-नग्न प्राण उनमें लिपटे सुंदरता का कुछ बढे मान |
 किरनों-सी तू बुन दे उज्ज्वल मेरे मधु-जीवन का प्रभात ,
 जिसमें निर्वसना प्रकृति सरल ढँक ले प्रकाश से नवल गात |
 वासना भरी उन आँखों पर आवरण डाल दे कांतिमान ,
 जिसमें सौंदर्य निखर आवे लतिका में फुल्ल-कुसुम-समान |
 अब वह आगंतुक गुफा बीच पशु सा न रहे निर्वसन-नग्न,
 अपने अभाव की जडता में वह रह न सकेगा कभी मग्न |
 सूना न रहेगा यह मेरा लघु-विश्व कभी जब रहोगे न ,
 मैं उसके लिये बिछाऊँगा फूलों के रस का मृदुल फेन |
 झूले पर उसे झुलाऊँगी दुलरा कर लूँगी बदन चूम,
 मेरी छाती से लिपटा इस घाटी में लेगा सहज घूम |
 वह आवेगा मृदु मलयज-सा लहराता अपने मसृण बाल,
 उसके अधरों से फैलेगी नवमधुमय स्मिति-लतिका-प्रवाल |

63

अपनी मीठी रसना से वह बोलेगा ऐसे मधुर बोल,
 मेरी पीडा पर छिडकेगी जो कुसुम-धूलि मकरंद घोल |
 मेरी आँखों का सब पानी तब बन जायेगा अमृत स्निग्ध
 उन निर्विकार नयनों में जब देखूँगी अपना चित्र मुग्ध ॐ"
 "तुम फूल उठोगी लतिका सी कंपित कर सुख सौरभ तरंग,
 मैं सुरभि खोजता भटकूँगा वन-वन बन कस्तूरी कुरंग |
 यह जलन नहीं सह सकता मैं चाहिये मुझे मेरा ममत्व,
 इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूँ बन एक तत्त्व |
 यह द्वैत, अरे यह द्विधा तो है प्रेम बाँटने का प्रकार ॐ
 भिक्षुक मैं ॐ ना, यह कभी नहीं - मैं लौटा लूँगा निज विचार |
 तुम दानशीलता से अपनी बन सजल जलद वितरो न विदु |
 इस सुख-नभ में मैं विचरूँगा बन सकल कलाधर शरद-इंदु |
 भूले से कभी निहारोगी कर आकर्षणमय हास एक ,

मायाविनि ॐ मैं न उसे लूँगा वरदान समझ कर —जानु टेक ॐ
 इस दीन अनुग्रह का मुझ पर तुम बोझ डालने में समर्थ —
 अपने को मत समझो श्रद्धे ॐ होगा प्रयास यह सदा व्यर्थ ।
 तुम अपने सुख से सुखी रहो मुझको दुख पाने दो स्वतंत्र ,
 ' मन की परवशता महा—दुख' मैं यही जपूँगा महामंत्र ॐ
 लो चला आज मैं छोड़ यहीं संचित संवेदन—भार—पुंज ,
 मुझको काँटे ही मिलें धन्य ॐ हो सफल तुम्हें ही कुसुम—कुंज । "
 कह, ज्वलनशील अंतर लेकर मनु चले गये, था शून्य प्रांत ,
 " रुक जा, सुन ले ओ निर्मोही ॐ " वह कहती रही अधीर श्रांत ॐ

64

इडा

.....

" किस गहन गुहा से अति अधीर
 झंझा— प्रवाह—सा निकला यह जीवन विशुद्ध महासमीर
 ले साथ विकल परमाणु—पुंज नभ, अनिल, अनल, क्षिति और नीर
 भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन
 प्राणी कटुता को बाँट रहा जगती को करता अधिक दीन
 निर्माण और प्रतिपद—विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता
 संघर्ष कर रहा —सा सब से, सब से विराग सब पर ममता
 अस्तित्व—चिरंतन—धनु से कब, यह छूट पडा है विषम तीर
 किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर ?
 देखे मैंने वे शैल—श्रृंग
 जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुंग
 अपने जड—गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग
 अपनी समाधि में रहे सुखी, वह जाती हैं नदियाँ अबोध
 कुछ स्वेद—बिदु उसके लेकर, वह स्मित—नयन गत शोक—क्रोध
 स्थिर—मुक्ति, प्रतिष्ठा मैं वैसी चाहता नहीं इस जीवन की
 मैं तो अबाध गति मरुत्—सदृश, हूँ चाह रहा अपने मन की
 जो चूम चला जाता अग—जग प्रति—पग में कंपन की तरंग
 वह ज्वलनशील गतिमय पतंग ।

65

अपनी ज्वाला से कर प्रकाश
 जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास
 वन, गुहा, कुंज, मरू—अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास
 पागल मैं, किस पर सदय रहा —क्या मैंने ममता ली न तोड़
 किस पर उदारता से रीझा —किससे न लगा दी कडी होड ?
 इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला

लू-सा झुलसाता दौड रहा -कब मुझसे कोई फूल खिला ?
मैं स्वप्न देखता हूँ उजडा -कल्पनालोक में कर निवास
देखा कब मैंने कुसुम हास ॐ

इस दुखमय जीवन का प्रकाश
नभ-नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश ॐ
कलियाँ जिनको मैं समझ रहा वे काँटे बिखरे आस-पास
कितना बीहड-पथ चला और पड रहा कहीं थक कर नितांत
उन्मुक्त शिखर हँसते मुझ पर -रोता मैं निर्वासित अशांत
इस नियति -नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाँच रही
खोखली शून्यता में प्रतिपद-असफलता अधिक कुलौंच रही
पावस -रजनी में जुगनू गण को दौड पकडता मैं निराश
उन ज्योति कणों का कर विनाश ॐ

जीवन-निशीथ के अंधकार ॐ
तू, नील तुहिन-जल-निधि बन कर फैला है कितना वार-पार
कितनी चेतनता की किरणें हैं डूब रहीं ये निर्विकार
कितना मादक तम, निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग ॐ
तू, मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग
ममता की क्षीण अरुण रेखा खिलती है तुझमें ज्योति-कला
जैसे सुहागिनी की ऊर्मिल अलकों में कुंकुमचूर्ण भला
रे चिरनिवास विश्राम प्राण के मोह-जलद-छाया उदार
मायारानी के केशभार ॐ

66

जीवन-निशीथ के अंधकार ॐ
तू घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन-धूम-सा दुर्निवार
जिसमें अपूर्ण-लालसा, कसक, चिनगारी-सी उठती पुकार
यौवन मधुवन की कालिदी बह रही चूम कर सब दिगंत
मन-शिशु की क्रीडा नौकायें बस दौड लगाती हैं अनंत
कुहुकिनि अपलक दृग के अंजन ॐ हँसती तुझमें सुंदर छलना
धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नव-कलना
इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छायी पिक प्राणों की पुकार-
बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार ॐ

यह उजडा सूना नगर-प्रांत
जिसमें सुख-दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प-सी हो नितांत
निज विकृत वक्र रेखाओं से, प्राणी का भाग्य बनी अशांत
कितनी सुखमय स्मृतियाँ, अपूर्ण रुचि बन कर मँडराती विकीर्ण
इन डेरों में दुखभरी कुरुचि दब रही अभी बन पत्र जीर्ण
आती दुलार को हिचकी-सी सूने कोनों में कसक भरी ।
इस सूखे तरु पर मनोवृति आकाश-बेलि सी रही हरी
जीवन-समाधि के खँडहर पर जो जल उठते दीपक अशांत

फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत ।

यों सोच रहे मनु पडे श्रांत
श्रद्धा का सुख साधन निवास जब छोड चले आये प्रशांत
पथ-पथ में भटक अटकते वे आये इस ऊजड नगर-प्रांत
बहती सरस्वती वेग भरी निस्तब्ध हो रही निशा श्याम
नक्षत्र निरखते निर्निमेष वसुधा को वह गति विकल वाम
वृत्रघ्नी का वह जनाकीर्ण उपकूल आज कितना सूना
देवेश इंद्र की विजय-कथा की स्मृति देती थी दुख दूना
वह पावन सारस्वत प्रदेश दुःस्वप्न देखता पडा क्लांत
फैला था चारों ओर ध्वांत ।

67

"जीवन का लेकर नव विचार

जब चला द्रुह्य था असुरों में प्राणों की पूजा का प्रचार
उस ओर आत्मविश्वास-निरत सुर-वर्ग कह रहा था पुकार -
में स्वयं सतत आराध्य आत्म-मंगल उपासना में विभोर
उल्लासशील मैं शक्ति-केन्द्र, किसकी खोजूँ फिर शरण और
आनंद-उच्छलित-शक्ति-स्त्रोत जीवन-विकास वैचित्र्य भरा
अपना नव-नव निर्माण किये रखता यह विश्व सदैव हरा,
प्राणों के सुख-साधन में ही, संलग्न असुर करते सुधार
नियमों में बँधते दुर्निवार

था एक पूजता देह दीन

दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण
दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वास-हीन-
फिर क्यों न तर्क को शस्त्रों से वे सिद्ध करें - क्यों हो न युद्ध
उनका संघर्ष चला अशांत वे भाव रहे अब तक विरुद्ध
मुझमें ममत्वमय आत्म-मोह स्वातंत्र्यमयी उच्छृंखलता
हो प्रलय-भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता
वह पूर्व द्रुह्य परिवर्तित हो मुझको बना रहा अधिक दीन
-सचमुच मैं हूँ श्रद्धा-विहीन । "

मनु तुम श्रद्धा को गये भूल

उस पूर्ण आत्म-विश्वासमयी को उडा दिया था समझ तूल
तुमने तो समझा असत् विश्व जीवन धागे में रहा झूल
जो क्षण बीतें सुख-साधन में उनको ही वास्तव लिया मान
वासना-तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उलटी मति का व्यर्थ-ज्ञान
तुम भूल गये पुरुषत्त्व-मोह में कुछ सत्ता है नारी की
समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की । "
जब गूँजी यह वाणी तीखी कंपित करती अंबर अकूल
मनु को जैसे चुभ गया शूल ।

68

" यह कौन ? अरे फिर वही काम ॐ
जिसने इस भ्रम में है डाला छीना जीवन का सुख-विराम ?
प्रत्यक्ष लगा होने अतीत जिन घड़ियों का अब शेष नाम
वरदान आज उस गतयुग का कंपित करता है अंतरंग
अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग - "
बोले मनु - " क्या मैं भ्रांत साधना में ही अबतक लगा रहा
क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा ?
पाया तो, उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत-धाम
फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण-काम ? "

"मनु ॐ उसने तो कर दिया दान
वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल जिसमें जीवन का भरा मान
जिसमें चेतनता ही केवल निज शांत प्रभा से ज्योतिमान
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुंदर जड देह मात्र
सौंदर्य जलधि से भर लाये केवल तुम अपना गरल पात्र
तुम अति अबोध, अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके
परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके
'कुछ मेरा हो' यह राग-भाव संकुचित पूर्णता है अजान
मानस-जलनिधि का क्षुद्र-यान ।

हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र
सब कलुष ढाल कर औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र
द्वंद्वों का उदगम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र
डाली में कंटक संग कुसुम खिलते मिलते भी हैं नवीन
अपनी रुचि से तुम विधे हुए जिसको चाहे ले रहे बीन
तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय-प्रकाश न ग्रहण किया
हाँ, जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया-
अब विकल प्रवर्तन हो ऐसा जो नियति-चक्र का बने यंत्र
हो शाप भरा तव प्रजातंत्र ।

69

यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि
द्वयता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि
अनजान समस्यायें गढती रचती हो अपनी ही विनष्टि
कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो बड़े भेद
अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद

हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्षस्थल की जडता
पहचान सकेंगे नहीं परस्पर चले विश्व गिरता पडता
सब कुछ भी हो यदि पास भरा पर दूर रहेगी सदा तुष्टि
दुख देगी यह संकुचित दृष्टि ।

अनवरत उठे कितनी उमंग
 चुंबित हों आँसूँ जलधर से अभिलाषाओं के शैल-श्रृंग
 जीवन-नद हाहाकार भरा -हो उठती पीडा की तरंग
 लालसा भरे यौवन के दिन पतझड से सूखे जायँ बीत
 संदेह नये उत्पन्न रहें उनसे संतप्त सदा सभीत
 फैलेगा स्वजनों का विरोध बन कर तम वाली श्याम-अमा
 दारिद्र्य दलित बिलखाती हो यह शस्यश्यामला प्रकृति-रमा
 दुख-नीरद में बन इंद्रधनुष बदले नर कितने नये रंग-

बन तृष्णा-ज्वाला का पतंग ।

वह प्रेम न रह जाये पुनीत
 अपने स्वार्थों से आवृत हो मंगल-रहस्य सकुचे सभीत
 सारी संसृति हो विरह भरी, गाते ही बीतें करुण गीत
 आकांक्षा-जलनिधि की सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त
 तुम राग-विराग करो सबसे अपने को कर शतशः विभक्त
 मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सदभाव नहीं
 वह चलने को जब कहे कहीं तब हृदय विकल चल जाय कहीं
 रोकर बीतें सब वर्तमान क्षण सुंदर अपना हो अतीत
 पेंगों में झूले हार-जीत ।

70

संकुचित असीम अमोघ शक्ति
 जीवन को बाधा-मय पथ पर ले चले मेद से भरी भक्ति
 या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी -सी महासक्ति
 व्यापकता नियति-प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बंद
 सर्वज्ञ-ज्ञान का क्षुद्र-अंश विद्या बनकर कुछ रचे छंद
 करतृत्व-सकल बनकर आवे नश्वर-छाया -सी ललित-कला
 नित्यता विभाजित हो पल-पल में काल निरंतर चले ढला
 तुम समझ न सको, बुराई से शुभ-इच्छा की है बडी शक्ति
 हो विफल तर्क से भरी युक्ति ।

जीवन सारा बन जाय युद्ध
 उस रक्त, अग्नि की वर्षा में बह जायँ सभी जो भाव शुद्ध
 अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध
 अपने को आवृत किये रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप
 वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दंभ-स्तूप
 श्रद्धा इस संसृति की रहस्य-व्यापक, विशुद्ध, विश्वासमयी
 सब कुछ देकर नव-निधि अपनी तुमसे ही तो वह छली गयी
 हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध
 सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध ।

तुम जरा मरण में चिर अशांत

जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत
अमरत्व, वही भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत
दुखमय चिर चितन के प्रतीक ॐ श्रद्धा-वंचक बनकर अधीर
मानव-संतति ग्रह-रश्मि-रज्जु से भाग्य बाँध पीटे लकीर
'कल्याण भूमि यह लोक' यही श्रद्धा-रहस्य जाने न प्रजा ।
अतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक-वंचना से भर जा
आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत

वह चलता रहे सदैव श्रांत । "

71

अभिशाप-प्रतिध्वनि हुई लीन
नभ-सागर के अंतस्तल में जैसे छिप जाता महा मीन
मृदु मरुत्-लहर में फेनोपम तारागण झिलमिल हुए दीन
निस्तब्ध मौन था अखिल लोक तंद्रालस था वह विजन प्रांत
रजनी-तम-पूंजीभूत-सदृश मनु श्वास ले रहे थे अशांत
वे सोच रहे थे " आज वही मेरा अदृष्ट बन फिर आया
जिसने डाली थी जीवन पर पहले अपनी काली छाया
लिख दिया आज उसने भविष्य ॐ यातना चलेगी अंतहीन
अब तो अवशिष्ट उपाय भी न । "

करती सरस्वती मधुर नाद
बहती थी श्यामल घाटी में निर्लिप्त भाव सी अप्रमाद
सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे वे निष्ठुर जड विषाद
वह थी प्रसन्नता की धारा जिसमें था केवल मधुर गान
थी कर्म-निरंतरता-प्रतीक चलता था स्ववश अनंत-ज्ञान
हिम -शीतल लहरों का रह-रह कूलों से टकराते जाना
आलोक अरुण किरणों का उन पर अपनी छाया बिखराना -
अदभुत था ॐ निज-निर्मित-पथ का वह पथिक चल रहा निर्विवाद
कहता जाता कुछ सुसंवाद ।

प्राची में फैला मधुर राग
जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग
जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब उठे जाग
आलोक-रश्मि से बुने उषा-अंचल में आंदोलन अमंद
करता प्रभात का मधुर पवन सब ओर वितरने को मरंद
उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला
वह नयन-महोत्सव की प्रतीक अम्लान-नलिन की नव-माला
सुषमा का मंडल सुस्मित -सा बिखरता संसृति पर सुराग
सोया जीवन का तम विराग ।

72

वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल
 दो पद्म-पलाश चषक-से दृग देते अनुराग विराग ढाल
 गुंजरित मधुप से मुकुल सदृश वह आनन जिसमें भरा गान
 वक्षस्थल पर एकत्र धरे संसृति के सब विज्ञान ज्ञान
 था एक हाथ में कर्म -कलश वसुधा-जीवन -रस-सार लिये
 दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिये
 त्रिवली थी त्रिगुण-तरंगमयी, आलोक-वसन लिपटा अराल
 चरणों में थी गति भरी ताल ।

नीरव थी प्राणों की पुकार
 मूर्छित जीवन-सर निस्तरंग नीहार घिर रहा था अपार
 निस्तब्ध अलस बन कर सोयी चलती न रही चंचल बयार
 पीता मन मुकुलित कंज आप अपनी मधु बूँदें मधुर मौन
 निस्वन दिगंत में रहे रुद्ध सहसा बोले मनु " अरे कौन-
 आलोकमयी स्मिति-चेतना आयी यह हेमवती छाया '
 तंद्रा के स्वप्न तिरोहित थे बिखरी केवल उजली माया
 वह स्पर्श-दुलार-पुलक से भर बीते युग को उठता पुकार
 वीचियाँ नाचतीं बार-बार ।

प्रतिभा प्रसन्न -मुख सहज खोल
 वह बोली - "मैं हूँ इडा , कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल ॐ "
 नासिका नुकीली के पतले पुट फरक रहे कर स्मित अमोल
 "मनु मेरा नाम सुनो बाले ॐ मैं विश्व पथिक सह रहा क्लेश । "
 "स्वागत ॐ पर देख रहे हो तुम यह उजडा सारस्वत प्रदेश
 भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा
 इसमें अब तक हूँ पडी इस आशा से आये दिन मेरा । "
 " मैं तो आया हूँ - देवि बता दो जीवन का क्या सहज मोल
 भव के भविष्य का द्वार खोल ॐ

73

इस विश्वकुहर में इंद्रजाल
 जिसने रच कर फैलाया है ग्रह, तारा, विद्युत, नखत-माल
 सागर की भीषणतम तरंग-सा खेल रहा वह महाकाल
 तब क्या इस वसुधा के लघु-लघु प्राणी को करने को सभित
 उस निष्ठुर की रचना कठोर केवल विनाश की रही जीत
 तब मूर्ख आज तक क्यों समझे हैं सृष्टि उसे जो नाशमयी
 उसका अधिपति ॐहोगा कोई, जिस तक दुख की न पुकार गयी
 सुख नीडों को घेरे रहता अविरत विषाद का चक्रवाल
 किसने यह पट है दिया डाल ॐ
 शनि का सुदूर वह नील लोक
 जिसकी छाया-सा फैला है ऊपर नीचे यह गगन-शोक

उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महा ओक
वह एक किरन अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय
क्या बन सकता है ? नियति -जाल से मुक्ति -दान का कर उपाय । "
कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे
अपनी दुर्बलता बल सम्हाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे -
मत कर पसार -निज पैरों चल, चलने की जिसको रहे झोंक
उसको कब कोई सके रोक ?

हाँ तुम ही हो अपने सहाय ?
जो बुद्धि कहे उनको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाय
जितने विचार संस्कार रहे उनका न दूसरा है उपाय
यह प्रकृति , परम रमणीय अखिल-ऐश्वर्य-भरी शोधक विहीन
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर बन कर्मलीन
सबका नियमन शासन करते बस बढा चलो अपनी क्षमता
तुम ही इसके निर्णायक हो, हो कहीं विषमता या समता
तुम जडता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय
यश अखिल लोक में रहे छाय । "

74

हँस पडा गगन वह शून्य लोक
जिसके भीतर बस कर उजडे कितने ही जीवन मरण शोक
कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह-कोक
ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज
हँस पडी उषा प्राची-नभ में देखे नर अपना राज-काज
चल पडी देखने वह कौतुक चंचल मलयाचल की बाला
लख लाली प्रकृति कपोलों में गिरता तारा दल मतवाला
उन्मिद्र कमल-कानन में होती थी मधुपों की नोक-झोंक
वसुधा विस्मृत थी सकल-शोक ।

"जीवन निशीथ का अंधकार

भग रहा क्षितिज के अंचल में मुख आवृत कर तुमको निहार
तुम इडे उषा-सी आज यहाँ आयी हो बन कितनी उदार
कलरव कर जाग पडे मेरे ये मनोभाव सोये विहंग
हँसती प्रसन्नता चाव भरी बन कर किरनों की सी तरंग
अवलंब छोड कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया
मैं बढा सहज, तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया
मेरे विकल्प संकल्प बनें, जीवन हो कर्मों की पुकार
सुख साधन का हो खुला द्वार । "

75

स्वप्न

.....

संध्या अरुण जलज केसर ले अब तक मन थी बहलाती,
 मुरझा कर कब गिरा तामरस, उसको खोज कहाँ पाती ॐ
 क्षितिज भाल का कुंकुम मिटता मलिन कालिमा के कर से,
 कोकिल की काकली वृथा ही अब कलियों पर मँडराती |
 कामायनी—कुसुम वसुधा पर पडी, न वह मकरंद रहा,
 एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ ॐ
 वह प्रभात का हीनकला शशि — किरन कहाँ चाँदनी रही,
 वह संध्या थी— रवि, शशि, तारा ये सब कोई नहीं जहाँ |
 जहाँ तामरस इंदीवर या सित शतदल हैं मुरझाये —
 अपने नालों पर, वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप आये,
 वह जलधर जिसमें चपला या श्यामलता का नाम नहीं,
 शिशिर—कला की क्षीण—स्रोत वह जो हिमतल में जम जाये |
 एक मौन वेदना विजन की, झिल्ली की झनकार नहीं,
 जगती की अस्पष्ट—उपेक्षा, एक कसक साकार रही |
 हरित—कुंज की छाया भर—थी वसुधा—आलिगन करती,
 वह छोटी सी विरह—नदी थी जिसका है अब पार नहीं |
 नील गगन में उडती—उडती विहग—बालिका सी किरनें,
 स्वप्न—लोक को चलीं थकी सी नींद—सेज पर जा गिरने |
 कितु, विरहिणी के जीवन में एक घडी विश्राम नहीं —
 बिजली—सी स्मृति चमक उठी तब, लगे जभी तम—घन घिरने |

76

संध्या नील सरोरुह से जो श्याम पराग बिखरते थे,
 शैल—घाटियों के अंचल को वे धीरे से भरते थे :-
 तृण—गुल्मों से रोमांचित नग सुनते उस दुख की गाथा,
 श्रद्धा की सूनी साँसों से मिल कर जो स्वर भरते थे :-
 "जीवन में सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनि कुछ बोलोगी ?
 नभ में नखत अधिक, सागर में या बुदबुद हैं गिन दोगी ?
 प्रतिबिंबित हैं तारा तुम में, सिधु मिलन को जाती हो,
 या दोनों प्रतिबिंब एक के इस रहस्य को खोलोगी ॐ
 इस अवकाश—पटी पर जितने चित्र बिगडते बनते हैं,
 उनमें कितने रंग भरे जो सुरधनु पट से छनते हैं,
 कितु सकल अणु पल में घुल कर व्यापक नील—शून्यता—सा,
 जगती का आवरण वेदना का धूमिल—पट बुनते हैं |
 दग्ध—श्वास से आह न निकले सजल कुहू में आज यहाँ ॐ
 कितना स्नेह जला कर जलता ऐसा है लघु—दीप कहाँ ?
 बुझ न जाय वह साँझ—किरन सी दीप—शिखा इस कुटिया की,
 शलभ समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहाँ ॐ
 आज सुनूँ केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कह ले,

पर न परागों की वैसी है चहल—पहल जो थी पहले ।
इस पतझड़ की सूनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या ,
कामायनि ॐ तू हृदय कडा कर धीरे—धीरे सब सह ले ॐ

77

विरल डालियों के निकुंज सब ले दुख के निश्वास रहे,
उस स्मृति का समीर चलता है मिलन कथा फिर कौन कहे ?
आज विश्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध बिना ,
किन चरणों को धोयेंगे जो अश्रु पलक के पार बहे ॐ
अरे मधुर है कष्ट पूर्ण भी जीवन की वीथी घडियाँ —
जब निस्संबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कडियाँ ।
वही एक जो सत्य बना था चिर —सुंदरता में अपनी,
छिपा कहीं, तब कैसे सुलझें उलझी सुख—दुख की लडियाँ ॐ
विस्मृत हों वे बीती बातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं ,
वह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं ॐ
सब अतीत में लीन हो चलीं, आशा, मधु—अभिलाषायें,
प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं ॐ
वे आलिंगन एक पाश थे, स्मिति चपला थी, आज कहाँ ?
और मधुर विश्वास ॐ अरे वह पागल मन का मोह रहा ,
वंचित जीवन बना समर्पण यह अभिमान अकिचन का,
कभी दे दिया था कुछ मैंने, ऐसा अब अनुमान रहा ।
विनिमय प्राणों का यह कितना भयसंकुल व्यापार अरे ॐ
देना हो जितना दे दे तू, लेना ॐ कोई यह न करे ॐ
परिवर्तन की तुच्छ प्रतीक्षा पूरी कभी न हो सकती ,
संध्या रवि देकर पाती है इधर—उधर उडुगन बिखरे ॐ
वे कुछ दिन जो हँसते आये अंतरिक्ष अरुणाचल से,
फूलों की भरमार स्वरों का कूजन लिये कुहक बल से ।
फैल गयी जब स्मिति की माया, किरन—कली की क्रीडा से,
चिर—प्रवास में चले गये वे आने को कह कर छल से ॐ

78

जब शिरीष की मधुर गंध से मान—भरी मधुऋतु रातें,
रूठ चली जाती रक्तिम—मुख, न सह जागरण की घातें,
दिवस मधुर आलाप कथा—सा कहता छा जाता नभ में,
वे जगते—सपने अपने तब तारा बन कर मुसक्याते । "
वन बालाओं के निकुंज सब भरे वेणु के मधु स्वर से,
लौट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से,
किन्तु न आया वह परदेसी—युग छिप गया प्रतीक्षा में ,
रजनी की भींगी पलकों से तुहिन बिदु कण—कण बरसे ॐ

मानस का स्मृति—शतदल खिलता, झरते बिदु मरंद घने ,
 मोती कठिन पारदर्शी ये, इनमें कितने चित्र बने ॐ
 आँसू सरल तरल विद्युत्कण, नयनालोक विरह तम में,
 प्राण पथिक यह संबल लेकर लगा कल्पना—जग रचने ।
 अरुण जलज के शोण कोण थे नव तुषार के बिदु भरे,
 मुकुर चूर्ण बन रहे , प्रतिच्छवि कितनी साथ लिये बिखरे ॐ
 वह अनुराग हँसी दुलार की पंक्ति चली सोने तम में ,
 वर्षा—विरह—कुहू में जलते स्मृति के जुगनू डरे—डरे ।
 सूने गिरि—पथ में गुंजारित श्रृंगनाद की ध्वनि चलती ,
 आकांक्षा लहरी दुख—तटिनी पुलिन अंक में थी ढलती ।
 जले दीप नभ के, अभिलाषा—शलभ उडे, उस ओर चले ,
 भरा रह गया आँखों में जल, बुझी न वह ज्वाला जलती ।

79

"माँ"—फिर एक किलक दूरागत , गूँज उठी कुटिया सूनी ,
 माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी ।
 लुटरी खुली अलक, रज—धूसर बाँहे आकर लिपट गयीं ,
 निशा—तापसी की जलने को धधक उठो बुझती धूनी ॐ
 कहाँ रहा नटखट तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना ॐ
 अरे पिता के प्रतिनिधि ॐ तूने भी सुख—दुख तो दिया घना,
 चंचल तू, बनचर—मृग बन कर भरता है चौकड़ी कहीं ,
 मैं डरती तू रूठ न जाये करती कैसे तुझे मना ॐ"
 "मैं रूढ़ूँ माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही ॐ
 ले मैं सोता हूँ अब जाकर, बोलूँगा मैं आज नहीं ,
 पके फलों से पेट भरा है नींद नहीं खुलने वाली ।"
 श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न कुछ—कुछ विषाद से भरी रही ।
 जल उठते हैं लघु जीवन के मधुर—मधुर वे पल हलके ,
 मुक्त उदास गगन के उर में छाले बन कर जा झलके ।
 दिवा—श्रांत—आलोक—रश्मियाँ नील—निलय में छिपी कहीं ,
 करुण वही स्वर फिर उस संसृति में बह जाता है गल के ।
 प्रणय किरण का कोमल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता ,
 दूर, किंतु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता ॐ
 मधुर चाँदनी—सी तंद्रा जब फैली मूर्छित मानस पर,
 तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता ।

80

कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना—सा देख रही,
 युग—युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुई बन लेख रही—
 जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था,

आज पपीहा की पुकार बन —नभ में खिचती रेख रही ।
 इडा अग्नि—ज्वाला—सी आगे जलती है उल्लास भरी,
 मनु का पथ आलोकित करती विपद—नदी में बनी तरी,
 उन्नति का आरोहण, महिमा शैल—श्रृंग सी श्रांति नहीं,
 तीव्र प्रेरणा की धारा सी बही वहाँ उत्साह भरी ।
 वह सुंदर आलोक किरन सी हृदय भेदिनी दृष्टि लिये,
 जिधर देखती —खुल जाते हैं तम ने जो पथ बंद किये ।
 मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयिनी तारा थी ,
 आश्रय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिये ॐ
 मनु का नगर बसा है सुंदर सहयोगी हैं सभी बने ,
 दृढ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पडे घने ,
 वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न हुये ,
 खेतों में हैं कृषक चलाते हल प्रमुदित श्रम —स्वेद सने ।
 उधर धातु गलते, बनते हैं आभूषण औ' अस्त्र नये ,
 कहीं साहसी ले आते हैं मृगया के उपहार नये ,
 पुष्पलावियाँ चुनती हैं बन—कुसुमों की अध—विकच कली ,
 गंध चूर्ण था लोध्र कुसुम रज, जुटे नवीन प्रसाधन ये ।
 घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि रोष भरी ,
 तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्छना उधर ढरी ,
 अपने वर्ग बना कर श्रम का करते सभी उपाय वहाँ ,
 उनकी मिलित—प्रयत्न—प्रथा से पुर की श्री दिखती निखरी ।

81

देश काल का लाघव करते वे प्राणी चंचल से हैं ,
 सुख—साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में हैं ,
 बढे ज्ञान—व्यवसाय, परिश्रम, बल की विस्तृत छाया में,
 नर—प्रयत्न से ऊपर आवे जो कुछ वसुधा तल में है ।
 सृष्टि —बीज अंकुरित, प्रफुल्लित, सफल हो रहा हरा भरा ,
 प्रलय बीच भी रक्षित मनु से वह फैला उत्साह भरा ,
 आज स्वचेतन—प्राणी अपनी कुशल कल्पनायें करके ,
 स्वावलंब की दृढ धरणी पर खडा , नहीं अब रहा डरा ।
 श्रद्धा उस आश्चर्य—लोक में मलय—बालिका—सी चलती ,
 सिंहद्वार के भीतर पहुँची, खडे प्रहरियों को छलती ,
 ऊँचे स्तंभों पर वलभी—युत बने रम्य प्रासाद वहाँ ,
 धूप—धूप—सुरभित—गृह, जिनमें थी आलोक—शिखा जलती ।
 स्वर्ण—कलश—शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने ,
 ऋजु—प्रशस्त, पथ बीच—बीच में, कहीं लता के कुंज घने ,
 जिनमें दंपति समुद विहरते , प्यार भरे दे गलबाहीं,
 गँज रहे थे मधुप रसीले, मदिरा—मोद पराग सने ।

देवदारु के वे प्रलंब भुज, जिनमें उलझी वायु-तरंग ,
 मिखरित आभूषण से कलरव करते सुंदर बाल-विहंग ,
 आश्रय देता वेणु-वनों से निकली स्वर-लहरी-ध्वनि को ,
 नाग-केसरो की क्यारी में अन्य सुमन भी थे बहुरंग ॐ
 नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच तहाँ ,
 एक ओर रक्खे हैं सुन्दर मढे चर्म से सुखद जहाँ ,
 आती है शैलेय-अगुरु की धूम-गंध आमोद -भरी ,
 श्रद्धा सोच रही सपने में 'यह लो में आ गयी कहाँ ॐ'

82

और सामने देखा उसने निज दृढ कर में चषक लिये,
 मनु, वह क्रतुमय पुरुष ॐ वही मुख संध्या की लालिमा पिये ।
 मादक भाव सामने, सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ,
 जिसे देखने को यह जीवन मर-मर कर सौ बार जिये-
 इडा ढालती थी वह आसव , जिसकी बुझती प्यास नहीं ,
 तृषित कंठ को , पी-पीकर भी जिसमें है विश्वास नहीं ,
 वह- वैश्वानर की ज्वाला-सी -मंच वेदिका पर बैठी ,
 सौमनस्य बिखराती शीतल, जडता का कुछ भास नहीं ।
 मनु ने पूछा "और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ ?"
 बोली इडा "सफल इतने में अभी कर्म सविशेष कहाँ ॐ
 क्या सब साधन स्ववश हो चुके ?" नहीं अभी मैं रिक्त रहा -
 देश बसाया पर उजडा है सूना मानस-देश यहाँ ।
 सुंदर मुख, आँखों की आशा, कितु हुए ये किसके हैं ,
 एक बाँकपन प्रतिपद-शशि का, भरे भाव कुछ रिस के हैं,
 कुछ अनुरोध मान-मोचन का करता आँखों में संकेत,
 बोल अरी मेरी चेतनते ॐ तू किसकी, ये किसके हैं ?"
 "प्रजा तुम्हारी, तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूँ मैं ,
 वह संदेह-भरा फिर कैसा नया प्रश्न सुनती हूँ मैं ॐ"
 "प्रजा नहीं, तुम मेरी रानी मुझे न अब भ्रम में डालो ,
 मधुर मराली ॐ कहो 'प्रणय के मोती अब चुनती हूँ मैं '
 मेरा भाग्य-गगन धुँधला-सा, प्राची-पट-सी तुम उसमें ,
 खुल कर स्वयं अचानक कितनी प्रभापूर्ण हो छवि-यश में ॐ
 मैं अतृप्त आलोक-भिखारी ओ प्रकाश-बालिके ॐ बता ,
 कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु-अधरो के रस में ?

83

' ये सुख साधन और रूपहली-रातों की शीतल-छाया ,
 स्वर-संचरित दिशायें, मन है उन्मद और शिथिल काया ,
 तब तुम प्रजा बनो मत रानी ॐ " नर -पशु कर हुंकार उठा ,

उधर फैलती मंदिर घटा सी अंधकार की घन-माया ।
 आलिंगन ॐ फिर भय का क्रंदन ॐ वसुधा जैसे काँप उठी ॐ
 वह अतिचारी , दुर्बल नारी-परित्राण-पथ नाप उठी ॐ
 अंतरिक्ष में हुआ रुद्र-हुंकार भयानक हलचल थी ,
 अरे आत्मजा प्रजा ॐ पाप की परिभाषा बन शाप उठी ।
 उधर गगन में क्षुब्ध हुई सब देव-शक्तियाँ क्रोध भरी ,
 रुद्र-नयन खुल गया अचानक-व्याकुल काँप रही नगरी ,
 अतिचारी था स्वयं प्रजापति , देव अभी शिव बने रहें ॐ
 नहीं, इसी से चढी शिजिनी अजगव पर प्रतिशोध भरी ।
 प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकंपित-पद अपना -
 उधर उठाया, भूत-सृष्टि सब होने जाती थी सपना ॐ
 आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं-कलुष में मनु संदिग्ध,
 फिर कुछ होगा, यही समझ कर वसुधा का थर-थर कँपना ।
 काँप रहे थे प्रलयमयी क्रीडा से सब आशंकित जंतु ,
 अपनी अपनी पडी सभी को, छिन्न स्नेह का कोमल तंतु,
 आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा का था भार लिये,
 इडा क्रोध लज्जा से भर कर बाहर निकल चली थी कितु ।

84

देखा उसने, जनता व्याकुल राजद्वार कर रुद्ध रही ,
 प्रहरी के दल भी झुक आये उनके भाव विशुद्ध नहीं ,
 नियमन एक झुकाव दबा-सा टूटे या ऊपर उठ जाय ॐ
 प्रजा आज कुछ और सोचती अब तक जो अविरुद्ध रही ॐ
 कोलाहल में घिर, छिप बैठे मनु कुछ सोच विचार भरे ,
 द्वार बंद लख प्रजा त्रस्त -सी , कैसे मन फिर धैर्य धरे ॐ
 शक्ति-तरंगों में आन्दोलन, रुद्र-क्रोध भीषणतम था ,
 महानील-लोहित-ज्वाला का नृत्य सभी से उधर परे ।
 वह विज्ञानमयी अभिलाषा, पंख लगाकर उडने की ,
 जीवन की असीम आशायेँ कभी न नीचे मुडने की ,
 अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया ,
 वर्गों की खाँई बन फैली कभीभ नहीं जो जुडने की ।
 असफल मनु कुछ क्षुब्ध हो उठे , आकस्मिक बाधा कैसी -
 समझ न पाये कि यह हुआ क्या , प्रजा जुटी क्यों आ ऐसी ॐ
 परित्राण प्रार्थना विकल थी देव-क्रोध से बन विद्रोह ,
 इडा रही जब वहाँ ॐ स्पष्ट ही वह घटना कुचक्र जैसी ।
 "द्वार बंद कर दो इनको तो अब न यहाँ आने देना ,
 प्रकृति आज उत्पाद कर रही , मुझको बस सोने देना ॐ"
 कह कर यों मनु प्रकट क्रोध में, कितु डरे-से थे मन में ,
 शयन-कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना-देना ।

श्रद्धा काँप उठी सपने में सहसा उसकी आँख खुली,
यह क्या देखा मैंने ? कैसे वह इतना हो गया छली ?
स्वजन-स्नेह में भय की कितनी आशंकायें उठ आतीं ,
अब क्या होगा , इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली ।

85

संघर्ष

.....

श्रद्धा का था स्वप्न कितु वह सत्य बना था ,
इडा संकुचित उधर प्रजा में क्षोभ घना था ।
भौतिक-विप्लव देख विकल वे थे घबराये ,
राज-शरण में त्राण प्राप्त करने को आये ।
कितु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था ,
मनस्ताप से सब के भीतर रोष भरा था ।
क्षुब्ध निरखते वदन इडा का पीला-पीला ,
उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव-लीला ।
प्रांगण में थी भीड बढ रही सब जुड आये ,
प्रहरी-गण कर द्वार बंद थे ध्यान लगाये ।
रात्रि घनी-लालिमा-पटी में दबी -लुकी-सी ,
रह-रह होती प्रगट मेघ की ज्योति झुकी सी ।
मनु चितित से पडे शयन पर सोच रहे थे ,
क्रोध और शंका के श्वापद नोच रहे थे ।
"मैं यह प्रजा बना कर कितना तुष्ट हुआ था ,
कितु कौन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था ।
कितने जव से भर कर इनका चक्र चलाया ,

अलग-अलग ये एक हुई पर इनकी छाया ।
मैं नियमन के लिए बुद्धि-बल से प्रयत्न कर ,
इनको कर एकत्र , चलाता नियम बना कर ।

86

कितु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चलूँ मैं ,
तनिक न मैं स्वच्छंद , स्वर्ण सा सदा गलूँ मैं ॐ
जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूँ मैं ,
क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूँ मैं ?
श्रद्धा का अधिकार समर्पण दे न सका मैं ,
प्रतिपल बढता हुआ भला कब वहाँ रुका मैं ॐ
इडा नियम-परतंत्र चाहती मुझे बनाना ,

निर्वाधित अधिकार उसी ने एक न माना ।
 विश्व एक बंधन विहीन परिवर्तन तो है ,
 इसकी गति में रवि -शशि-तारे ये सब जो हैं ।
 रूप बदलते रहते वसुधा जलनिधि बनती ,
 उदधि बना मरुभूमि जलधि में ज्वाला जलती ॐ
 तरल अग्नि की दौड़ लगी है सब के भीतर,
 गल कर बहते हिम-नग सरिता-लीला रच कर ।
 यह स्फुलिंग का नृत्य एक पल आया बीता ॐ
 टिकने को कब मिला किसी को यहाँ सुभीता ?
 कोटि-कोटि नक्षत्र शून्य के महा-विवर में,
 लास रास कर रहे लटकते हुए अधर में ।
 उठती हैं पवनों के स्तर में लहरें कितनी ,
 यह असंख्य चीत्कार और परवशता इतनी ।
 यह नर्तन उन्मुक्त विश्व का स्पंदन द्रुततर ,
 गतिमय होता चला जा रहा अपने लय पर ।
 कभी -कभी हम वही देखते पुनरावर्तन,
 उसे मानते नियम चल रहा जिससे जीवन ।

87

रुदन हास बन कितु पलक में छलक रहे हैं,
 शत-शत प्राण विमुक्ति खोजते ललक रहे हैं ।
 जीवन में अभिशाप शाप में ताप भरा है ,
 इस विनाश में सृष्टि-कुंज हो रहा हरा है ।
 ' विश्व बँधा है एक नियम से' यह पुकार -सी ,
 फैली गयी है इसके मन में दृढ प्रचार -सी ।
 नियम इन्होंने परखा फिर सुख-साधन जाना,
 वशी नियामक रहे, न ऐसा भँने माना ।
 मैं चिर-बंधन-हीन मृत्यु -सीमा-उल्लंघन -
 करता सतत चलूँगा यह मेरा है दृढ प्रण ।
 महानाश की सृष्टि बीच जो क्षण हो अपना ,
 चेतनता की तुष्टि वही है फिर सब सपना । "
 प्रगति मन रुका एक क्षण करवट लेकर,
 देखा अचिचल इडा खडी फिर सब कुछ देकर ॐ
 और कह रही "कितु नियामक नियम न माने ,
 तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ निश्चय जाने । " '
 " ऐं तुम फिर भी यहाँ आज कैसे चल आयी ,
 क्या कुछ और उपद्रव की है बात समायी -
 मन में, यह सब आज हुआ है जो कुछ इतना ॐ
 क्या न हुई है तुष्टि ? बच रहा है अब कितना ? "

88

" मनु, सब शासन स्वत्त्व तुम्हारा सतत निबाहें ,
तुष्टि, चेतना का क्षण अपना अन्य न चाहें ॐ
आह प्रजापति यह न हुआ है, कभी न होगा ,
निर्वाधित अधिकार आज तक किसने भोगा ? "
यह मनुष्य आकार चेतना का है विकसित ,
एक विश्व अपने आवरणों में हैं निर्मित ॐ
चिति-केन्द्रों में जो संघर्ष चला करता है ,
द्वयता का जो भाव सदा मन में भरता है :-
वे विस्मृत पहचान रहे से एक-एक को ,
होते सतत समीप मिलाते हैं अनेक को ।
स्पर्धा में जो उत्तम ठहरें वे रह जावें ,
संसृति का कल्याण करें शुभ मार्ग बतावें ।
व्यक्ति चेतना इसीलिए परतंत्र बनी -सी ,
रागपूर्ण, पर द्वेष-पंक में सतत सनी सी ।
नियत मार्ग में पद-पद पर है ठोकर खाती ,
अपने लक्ष्य समीप श्रांत हो चलती जाती ।
यह जीवन उपयोग, यही है बुद्धि-साधना ,
पना जिसमें श्रेय यही सुख की अ'राधना ।
लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में,
प्राण सदृश तो रमो राष्ट्र की इस काया में ।

89

देश कल्पना काल परिधि में होती लय है ,
काल खोजता महाचेतना में निज क्षय है ।
वह अनंत चेतन नचता है उन्मद गति से ,
तुम भी नाचो अपनी द्वयता में-विस्मृति में ।
क्षितिज पटी को उठा बढो ब्रह्मांड विवर में,
गुंजारित घन नाद सुनो इस विश्व कुहर में ।
ताल-ताल पर चलो नहीं लय छूटे जिसमें ,
तुम न विवादी स्वर छेडो अनजाने इसमें ।
" अच्छा ॐ यह तो फिर न तुम्हें समझाना है अब,
तुम कितनी प्रेरणामयी हो जान चुका सब ।
कितु आज ही अभी लौट कर फिर हो आयी ,
कैसे यह साहस की मन में बात समायी ॐ
आह प्रजापति होने का अधिकार यही क्या ॐ
अभिलाषा मेरी अपूर्ण ही सदा रहे क्या ?
मैं सबको वितरित करता ही सतत रहूँ क्या ?

कुछ पाने का यह प्रयास है पाप, सहुँ क्या ?
तुमने भी प्रतिदान दिया कुछ कह सकती हो ?
मुझे ज्ञान देकर ही जीवित रह सकती हो ?
जो मैं हूँ चाहता वही जब मिला नहीं है ,
तब लौटा लो व्यर्थ बात जो अभी कही है । "

90

"इडे अँ मुझे वह वस्तु चाहिये जो मैं चाहूँ ,
तुम पर हो अधिकार, प्रजापति न तो वृथा हूँ ।
तुम्हें देख कर बंधन ही अब टूट रहा सब ,
शासन या अधिकार चाहता हूँ न तनिक अब ।
देखो यह दुर्धर्ष प्रकृति का इतना कंपन अँ
मेरे हृदय समक्ष क्षुद्र है इसका स्पंदन अँ
इस कठोर ने प्रलय खेल है हँस कर खेला अँ
कितु आज कितना कोमल हो रहा अकेला ?
तुम कहती हो विश्व एक लय है, मैं उसमें
लीन हो चलूँ ? कितु धरा है क्या सुख इसमें ।
क्रंदन का निज अलग एक आकाश बना लूँ,
उस रोदन में अट्टहास हो तुमको पा लूँ ।

फिर से जलनिधि उछल बहे मर्यादा बाहर,
फिर झंझा हो वज्र-प्रगति से भीतर बाहर ,
फिर डगमग हो नाव लहर ऊपर से भागे ,
रवि-शशि-तारा सावधान हों चौके जागें,
कितु पास ही रहो बालिके अँ मेरी हो, तुम ,
मैं हूँ कुछ खिलवाड नहीं जो अब खेलो तुम ? "

91

आह न समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें,
तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाते ।
प्रजा क्षुब्ध हो शरण माँगती उधर खडी है ,
प्रकृति सतत आतंक विकंपित घडी-घडी है ।
सावधान, मैं शुभाकाक्षिणी और कहूँ क्या अँ
कहना था कह चुकी और अब यहाँ रहूँ क्या अँ "
"मायाविनि, बस पाली तुमने ऐसे छुट्टी,
लडके जैसे खेलों में कर लेते खुट्टी ।
मूर्तिमती अभिशाप बनी सी सम्मुख आयी ,
तुमने ही संघर्ष भूमिका मुझे दिखायी ।
रुधिर भरी वेदियाँ भयकरी उनमें ज्वाला ,

विनयन का उपचार तुम्हीं से सीख निकाला ।
 चार वर्ण बन गये बँटा श्रम उनका अपना
 शस्त्र यंत्र बन चले, न देखा जिनका सपना ।
 आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर ,
 प्रकृति संग संघर्ष निरंतर अब कैसा डर ?
 बाधा नियमों की न पास में अब आने दो
 इस हताश जीवन में क्षण—सुख मिल जाने दो ।
 राष्ट्र—स्वामिनी, यह लो सब कुछ वैभव अपना,
 केवल तुमको सब उपाय से कह लूँ अपना ।
 यह सारस्वत देश या कि फिर ध्वंस हुआ सा
 समझो, तुम हो अग्नि और यह सभी धुआँ सा ? "

92

"मैंने जो मनु, किया उसे मत यों कह भूलो ,
 तुमको जितना मिला उसी में यों मत फूलो ।
 प्रकृति संग संघर्ष सिखाया तुमको मैंने,
 तुमको केंद्र बनाकर अनहित किया न मैंने ॐ
 मैंने इस बिखरी—विभूति पर तुमको स्वामी ,
 सहज बनाया, तुम अब जिसके अंतर्यामी ।
 किंतु आज अपराध हमारा अलग खडा है,
 हाँ में हाँ न मिलाऊँ तो अपराध बडा है ।
 मनु ॐदेखो यह भ्रांत निशा अब वीत रही है ,
 प्राची में नव—उषा तमस् को जीत रही है ।
 अभी समय है मुझ पर कुछ विश्वास करो तो । '
 बनती है सब बात तनिक तुम धैर्य धरो तो । "
 और एक क्षण वह, प्रमाद का फिर से आया,
 इधर इडा ने द्वार ओर निज पैर बढाया ।
 किंतु रोक ली गयी भुजाओं से मनु की वह ,
 निस्सहाय ही दीन—दृष्टि देखती रही वह ।
 "यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी ।
 मुझको अपना अस्त्र बना करती मनमानी ।
 यह छल चलने में अब पंगु हुआ सा समझो ,
 मुझको भी अब मुक्त जाल से अपने समझो ।

93

शासन की यह प्रगति सहज ही अभी रुकेगी ,
 क्योंकि दासता मुझसे अब तो हो न सकेगी ।
 मैं शासक, मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा—
 हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा ।

छिन्न भिन्न अन्यथा हुई जाती है पल में ,
 सकल व्यवस्था अभी जाय डूबती अतल में ।
 देख रहा हूँ वसुधा का अति-भय-से कंपन,
 और सुन रहा हूँ नभ का यह निर्मम-क्रंदन ॐ
 किंतु आज तुम बंदी हो मेरी बाँहों में ,
 मेरी छाती में, " -फिर सब डुबा आहों में ॐ
 सिंहद्वार अरराया जनता भीतर आयी ,
 "मेरी रानी" उसने जो चीत्कार मचायी ।
 अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे ,
 स्वलन विकंपित पद वे अब भी काँप रहे थे ।
 सजग हुए मनु वज्र-खचित ले राजदंड तब ,
 और पुकारा "तो सुन लो जो कहता हूँ अब ।
 "तुम्हें तृप्तिकर सुख के साधन सकल बताया ,
 मैंने ही श्रम-भाग किया फिर वर्ग बनाया ।
 अत्याचार प्रकृति-कृत हम सब जो सहते हैं,
 करते कुछ प्रतिकार न अब हम चुप रहते हैं ॐ
 आज न पशु हैं हम, या गूँगे काननचारी ,
 यह उपकृति क्या भूल गये तुम आज हमारी ॐ "
 वे बोले सक्रोध मानसिक भीषण दुख से ,
 "देखो पाप पुकार उठा अपने ही मुख से ॐ

94

तुमने योगक्षेम से अधिक संचय वाला ,
 लोभ सिखा कर इस विचार-संकट में डाला ।
 हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख ,
 कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख ॐ
 प्रकृत-शक्ति तुमने यंत्रों से सब की छिनी ॐ
 शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी ॐ
 और इडा पर यह क्या अत्याचार किया है ?
 इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है ?
 आज बंदिनी मेरी रानी इडा यहाँ है ?
 ओ यायावर ॐ अब मेरा निस्तार कहाँ है ? "
 "तो फिर मैं हूँ आज अकेला जीवन रण में ,
 प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीषण में ।
 आज साहसिक का पौरुष निज तन पर लेखें ,
 राजदंड को वज्र बना सा सचमुच देखें । "
 यों कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र समहाला ,
 देव 'आग' ने उगली त्योंही अपनी ज्वाला ।
 छूट चले नाराच धनुष से तीक्ष्ण नुकीले ,

टूट रहे नभ-धूमकेतु अति नीले-पीले ।
 अंधड था बढ रहा , प्रजा दल सा झुंझलाता ,
 रण वर्षा में शस्त्रों सा बिजली चमकाता ।
 कितु क्रूर मनु वारण करते उन वाणों को ,
 बढे कुचलते हुए खड्ग से जन-प्राणों को ।
 तांडव में थी तीव्र प्रगति , परमाणु विकल थे ,
 नियति विकर्षणमयी , त्रास से सब व्याकुल थे ।

95

मनु फिर रहे अलात-चक्र से उस घन-तम में ,
 वह रक्तिम-उन्माद नाचता कर निर्मम में ।
 उठ तुमुल रण-नाद , भयानक हुई अवस्था ,
 बढा विपक्ष समूह मौन पददलित व्यवस्था ।
 आहत पीछे हटे , स्तंभ से टिक कर मनु ने ,
 श्वास लिया , टंकार किया दुर्लक्ष्यी धनु ने ।
 बहते विकट अधीर विषम उंचास-वात थे ,
 मरण-पर्व था , नेता आकुलि औ' किलात थे ।
 ललकारा , " बस अब इसको मत जाने देना " ।
 कितु सजग मनु पहुँच गये कह " लेना लेना " ।
 " कायर , तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया ,
 अरे , समझकर जिनको अपना था अपनाया ।
 तो फिर आओ देखो कैसे होती है बलि ,
 रण यह यज्ञ , पुरोहित ओ ॐ किलात औ' आकुलि ।
 और धराशायी थे असुर-पुरोहित उस क्षण ,
 इडा अभी कहती जाती थी " बस रोको रण ।
 भीषण जन संहार आप ही तो होता है ,
 ओ पागल प्राणी तू क्यों जीवन खोता है ॐ
 क्यों इतना आतंक ठहर जा ओ गर्वीले ,
 जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले । " ।
 कितु सुन रहा कौन ॐ धधकती वेदी ज्वाला ,
 सामूहिक-बलि का निकला था पंथ निराला ।
 रक्तोन्मद मनु का न हाथ अब भी रुकता था ,
 प्रजा- पक्ष का भी न कितु साहस झुकता था ।

96

वहीं धर्षिता खडी इडा सारस्वत-रानी ,
 वे प्रतिशोध अधीर , रक्त बहता बन पानी ।
 धूमकेतु-सा चला रुद्र-नाराच भयंकर ,
 लिये पूँछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर ।

अंतरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कर उठी
सब शस्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठीं ।
और गिरीं मनु पर , मुमूर्षु वे गिरे वहीं पर,
रक्त नदी की बाढ़ -फैलती थी उस भू पर ।

97

निर्वेद

.....

वह सारस्वत नगर पडा था क्षुब्ध, मलिन, कुछ मौन बना ,
जिसके ऊपर विगत कर्म का विष-विषाद-आवरण तना ।
उल्का धारी प्रहरी से ग्रह-तारा नभ में टहल रहे ,
वसुधा पर यह होता क्या है अणु-अणु क्यों हैं मचल रहे ?
जीवन में जागरण सत्य है या सुषुप्ति ही सीमा है ,
आती है रह रह पुकार-सी 'यह भव -रजनी भीमा है ।'
निशिचारी भीषण विचार के पंख भर रहे सरटि ,
सरस्वती थी चली जा रही खींच रही-सी सनाटे ।
अभी घायलों की सिसकी में जाग रही थी मर्म-व्यथा ,
पुर-लक्ष्मी खगरव के मिस कुछ कह उठती थी करुण-कथा ।
कुछ प्रकाश धूमिल-सा उसके दीपों से था निकल रहा ,
पवन चल रहा था रुक-रुक कर खिन्न, भरा अवसाद रहा ।
भयमय मौन निरीक्षक-सा था सजग सतत चुपचाप खडा ,
अंधकार का नील आवरण दृश्य-जगत से रहा बडा ।
मंडप के सोपान पडे थे सूने , कोई अन्य नहीं ,
स्वयं इडा उस पर बैठी थी अग्नि-शिखा सी धधक रही ।
शून्य राज-चिह्नों से मंदिर बस समाधि-सा रहा खडा ,
क्योंकि वहीं घायल शरीर वह मनु का तो था रहा पडा ।
इडा ग्लानि से भरी हुई बस सोच रही बीती बातें ,
घृणा और ममता में ऐसी बीत चुकीं कितनी रातें ।

98

नारी का वह हृदय ॐ हृदय में -सुधा-सिधु लहरें लेता ,
बाडव-ज्वलन उसी में जलकर कंचन सा जल रँग देता ।
मधु-पिगल उस तरल -अग्नि में शीतलता संसृति रचती ,
क्षमा और प्रतिशोध ॐ आह रे दोनों की माया नचती ।
"उसने स्नेह किया था मुझसे हाँ अनन्य वह रहा नहीं ,
सहज लब्ध थी वह अनन्यता पडी रह सके जहाँ कहीं ।
बाधाओं का अतिक्रमण कर जो अबाध हो दौड चले ,
वही स्नेह अपराध हो उठा जो सब सीमा तोड चले ।
"हाँ अपराध, कितु वह कितना एक अकेले भीम बना ,

जीवन के कोने से उठ कर इतना आज असीम बना ॐ
 और प्रचुर उपकार सभी वह सहृदयता की सब माया ,
 शून्य-शून्य था ॐ केवल उसमें खेल रही थी छल छाया ॐ
 "कितना दुखी एक परदेशी बन, उस दिन जो आया था ,
 जिसके नीचे धारा नहीं थी शून्य चतुर्दिक छाया था |
 वह शासन का सूत्रधार था नियमन का आधार बना ,
 अपने निर्मित नव विधान से स्वयं दंड साकार बना |
 "सागर की लहरों से उठकर शैल-श्रृंग पर सहज चढा ,
 अप्रतिहत गति , संस्थानों से रहता था जो सदा बढा |
 आज पडा है वह मुमूर्षु सा वह अतीत सब सपना था ,
 उसके ही सब हुए पराये सबका ही जो अपना था |
 "कितु वही मेरा अपराधी जिसका वह उपकारी था ,
 प्रकट उसी से दोष हुआ है जो सबको गुणकारी था |
 अरे सर्ग-अंकुर के दोनों पल्लव है ये भले बुरे ,
 एक दूसरे की सीमा है क्यों न युगल को प्यार करें ?

99

" अपना हो या औरों का सुख बढा कि बस दुख बना वहीं ,
 कौन बिदु है रुक जाने का यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं |
 प्राणी निज-भविष्य-चिंता में वर्तमान का सुख छोडे ,
 दौड चला है बिखराता सा अपने ही पथ में रोडे | "
 "इसे दंड देने में बैठी या करती रखवाली मैं ,

यह कैसी है विकट पहेली कितनी उलझन वाली मैं ?
 एक कल्पना है मीठी यह इससे कुछ सुंदर होगा ,
 हाँ कि, वास्तविकता से अच्छी सत्य इसी को वर देगा | "
 चौक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत-ध्वनि सुनती ,
 इस निस्तब्ध-निशा में कोई चली आ रही है कहती -
 "अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा ?
 उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा |
 रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं ,
 वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं ॐ
 यही भूल अब शूल-सदृश हो साल रही उर में मेरे
 कैसे पाऊँगी उसको मैं कोई आकर कह दे रे ॐ "
 इडा उठी, दिख पडा राजपथ धुँधली सी छाया चलती ,
 वाणी में थी करुणा-वेदना वह पुकार जैसे जलती |
 शिथिल शरीर , वसन विश्रृंखल कबरी अधिक अधीर खुली ,
 छिन्नपत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझायी हुई कली |
 नव कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उँगली पकडे ,

चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े |
थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ -बेटे ,
खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल हो कर लेटे |

100

इडा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने ,
पहुँची पास और फिर पूछा "तुमको बिसराया किसने ?
इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो ,
बैठी आज अधिक चंचल हूँ व्यथा-गाँठ निज खोलो तो |
जीवन की लंबी यात्रा में खोये भी हैं मिल जाते ,
जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें | "
श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था मिलता है विश्राम यहीं ,
चली इडा के साथ जहाँ पर वह्नि शिखा प्रज्वलित रही |
सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती ,
कामायनी देख पायी कुछ पहुँची उस तक डग भरती |
और वही मनु ॐ घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा ?
आह प्राणप्रिय ॐ यह क्या ? तुम यों ॐ घुला हृदय, बन नीर बहा |
इडा चकित , श्रद्धा आ बैठी वह थी मनु को सहलाती,
अनुलेपन-सा मधुर स्पर्श था व्यथा भला क्यों रह जाती ?
उस मूर्छित नीरवता में कुछ हलके से स्पंदन आये ,
आँखे खुलीं चार कोनों में चार बिंदु आकर छाये |
उधर कुमार देखता ऊँचे मंदिर, मंडप, वेदी को ,
यह सब क्या है नया मनोहर कैसे ये लगते जी को ?
माँ ने कहा 'अरे आ तू भी देख पिता हैं पड़े हुए , '
' पिता ॐ आ गया लो' यह कहते उसके रोयें खड़े हुए |
"माँ जल दे , कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ ? "
मुखर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ ?
आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना,
छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना |

101

"तुमल कोलाहल कलह में
मैं हृदय की बात रे मन ॐ
विकल होकर नित्य चंचल,
खोजती जब नींद के पल,
चेतना थक-सी रही तब,
मैं मलय की वात रे मन ॐ

चिर-विषाद-विलीन मन की,
इस व्यथा के तिमिर-वन की ल
में उषा-सी ज्योति-रेखा,
कुसुम-विकसित प्रात रे मन ॐ
जहाँ मरु-ज्वाला धधकती,
चातकी कन को तरसती,
उन्हीं जीवन-घाटियों की,
में सरस बरसात रे मन ॐ

पवन की प्राचीर में रुक
जला जीवन जी रहा झुक,
इस झुलसते विश्व-दिन की
में कुसुम-ऋतु-रात रे मन ॐ
चिर निराशा नीरधर से,
प्रतिच्छायित अश्रु-सर में,
मधुप-मुखर मरंद-मुकुलित,
में सजल जलजात रे मन ॐ "

102

उस स्वर-लहरी के अक्षर सब संजीवन रस बने घुले,
उधर प्रभात हुआ प्राची में मनु के मुद्रित-नयन खुले ।
श्रद्धा का अवलंब मिला फिर कृतज्ञता से हृदय भरे,
मनु उठ बैठे गदगद होकर बोले कुछ अनुराग भरे ।
"श्रद्धा ॐ तू आ गयी भला तो- पर क्या मैं था यहीं पडा ॐ"
वही भवन, वे स्तंभ, वेदिका ॐ बिखरी चारों ओर घृणा ।
आँखें बंद कर लिया क्षोभ से "दूर दूर ले चल मुझको,
इस भयावने अंधकार में खो दूँ कहीं न फिर तुझको ।
हाथ पकड ले, चल सकता हूँ -हाँ कि यही अवलंब मिले,
वह तू कौन ? परे हट, श्रद्धे ॐ आ कि हृदय का कुसुम खिले ।"
श्रद्धा नीरव सिर सहलाती आँखों में विश्वास भरे,
मानो कहती "तुम मेरे हो अब क्यों कोई वृथा डरे ?"
जल पीकर कुछ स्वस्थ हुए से लगे बहुत धीरे कहने,
"ले चल इस छाया के बाहर मुझको दे न यहाँ रहने ।
मुक्त नील नभ के नीचे या कहीं गुहा में रह लेंगे,
अरे झेलता ही आया हूँ -जो आवेगा सह लेंगे "
"ठहरो कुछ तो बल आने दो लिवा चलूँगी तुरत तुम्हें,
इतने क्षण तक" श्रद्धा बोली - "रहने देंगी क्या न हमें ?"
इडा संकुचित उधर खडी थी यह अधिकार न छीन सकी,
श्रद्धा अविचल, मनु अब बोले उनकी वाणी नहीं रुकी ।
"जब जीवन में साध भरी थी उच्छृंखल अनुरोध भरा,

अभिलाषायें भरी हृदय में अपनेपन का बोध भरा ।
मैं था, सुंदर कुसुमों की वह सघन सुनहली छाया थी ,
मलयानिल की लहर उठ रही उल्लासों की माया थी ॐ

103

उषा अरुण प्याला भर लाती सुरभित छाया के नीचे
मेरा यौवन पीता सुख से अलसाई आँखे मींचे ।
ले मकरंद नया चू पडती शरद-प्रात की शेफाली,
विखराती सुख ही, संध्या की सुंदर अलकें घुँघराली ।
सहसा अंधकार की आँधी उठी क्षितिज से वेग भरी ,
हलचल से विक्षुब्ध विश्व-थी उद्वेलित मानस लहरी ।
व्यथित हृदय उस नीले नभ में छायापथ-सा खुला तभी ,
अपनी मंगलमयी मधुर-स्मिति कर दी तुमने देवि ॐ जभी ।
दिव्य तुम्हारी अमर अमिट छवि लगी खेलने रंग-रली ,
नवल हेम-लेखा सी मेरे हृदय-निकष पर खिची भली ।
अरुणाचल मन मंदिर की वह मुग्ध-माधुरी नव प्रतिमा ,
लगी सिखाने स्नेह-मयी सी सुंदरता की मृदु महिमा ।
उस दिन तो हम जान सके थे सुंदर किसको हैं कहते ॐ
तब पहचान सके , किसके हित प्राणी यह दुख-सुख सहते ।
जीवन कहता यौवन से "कुछ देखा तूने मतवाले "
यौवन कहता साँस लिये चल कुछ अपना संबल पाले ॐ"
हृदय बन रहा था सीपी सा तुम स्वाती की बूँद बनी ,
मानस-शतदल झूम उठा जब तुम उसमें मकरंद बर्नी ।
तुमने इस सूखे पतझड़ में भर दी हरियाली कितनी ,
मैंने समझा मादकता है तृप्ति बन गयी वह इतनी ॐ
विश्व, कि जिसमें दुख की आँधी पीडा की लहरी उठती ,
जिसमें जीवन मरण बना था बुदबुद की माया नचती ।
वही शांत उज्ज्वल मंगल सा दिखता था विश्वास भरा ,
वर्षा के कदंब कानन सा सृष्टि-विभव हो उठा हरा ।

104

भगवती ॐ वह पावन मधु-धारा ॐ देख अमृत भी ललचाये ,
वही, रम्य सौंदर्य-शैल से जिसमें जीवन धुल जाये ।
संध्या अब ले जाती मुझसे ताराओं की अकथ कथा ,
नींद सहज ही ले लेती थी सारे श्रम की विकल व्यथा ।

सकल कुतूहल और कल्पना उन चरणों से उलझ पडी ,
कुसुम प्रसन्न हुए हँसते से जीवन की वह धन्य घडी ।
स्मिति मधुराका थी, श्वासों से पारिजात कानन खिलता,
गति मरंद-मंथर मलयज-सी स्वर में वेणु कहाँ मिलता ॐ

श्वास-पवन पर चढ कर मेरे दूरागत वंशी-रव-सी ,
 गूँज उठीं तुम , विश्व-कुहर में दिव्य-रागिनी-अभिनव-सी ॐ
 जीवन-जलनिधि के तल से जो मुक्ता थे वे निकल पडे ,
 जग-मंगल-संगीत तुम्हारा गाते मेरे रोम खडे |
 आशा की आलोक-किरन से कुछ मानस से ले मेरे,
 लघु जलधर का सृजन हुआ था जिसको शशिलेखा घेरे -
 उस पर बिजली की माला-सी झूम पडी तुम प्रभा भरी ,
 और जलद वह रिमझिम बरसा मन-वनस्थली हुई हरी ॐ
 तुमने हँस-हँस मुझे सिखाया विश्व खेल है खेल चलो ,
 तुमने मिलकर मुझे बताया सबसे करते मेल चलो |
 यह भी अपनी बिजली के से विभ्रम से संकेत किया ,
 अपना मन है, जिसको चाहा तब इसको दे दान दिया |
 तुम अजस्र वर्षा सुहाग की और स्नेह की मधु-रजनी ,
 चिर अतृप्ति जीवन यदि था तो तुम उसमें संतोष बनी |
 कितना है उपकार तुम्हारा आशिर्यात मेरा प्रणय हुआ ,
 कितना आभारी हूँ , इतना संवेदनमय हृदय हुआ |

105

कितु अधम मैं समझ न पाया उस मंगल की माया को,
 और आज भी पकड रहा हूँ हर्ष शोक की छाया को ,
 मेरा सब कुछ क्रोध मोह के उपादान से गठित हुआ,
 ऐसा ही अनुभव होता है किरनों ने अब तक न छुआ |
 शापित-सा मैं जीवन का यह ले कंकाल भटकता हूँ ,
 उसी खोखलेपन में जैसे कुछ खोजता अटकता हूँ |
 अंध-तमस है, कितु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा ,
 सब पर, हाँ अपने पर भी मैं झुँझलाता हूँ खीझ रहा |
 नहीं पा सका हूँ मैं जैसे जो तुम देना चाह रही ,
 क्षुद्र पात्र ॐ तुम उसमें कितनी मधु-धारा हो ढाल रही |
 सब बाहर होता जाता है स्वगत उसे मैं कर न सका ,
 बुद्धि-तर्क के छिद्र हुए थे हृदय हमारा भर न सका |
 यह कुमार-मेरे जीवन का उच्च-अंश, कल्याण-कला ॐ
 कितना बडा प्रलोभन मेरा हृदय स्नेह बन जहाँ ढला |
 सुखी रहें, सब सुखी रहें बस छोडो मुझ अपराधी को"
 श्रद्धा देख रही चुप मनु के भीतर उठती आँधी को |
 दिन बीता रजनी भी आयी तंद्रा निद्रा संग लिये ,
 इडा कुमार समीप पडी थी मन की दबी उमंग लिये |
 श्रद्धा भी कुछ खिन्न थकी सी हाथों को उपधान किये ,
 पडी सोचती मन ही मन कुछ, मनु चुप सब अभिशाप पिये -
 सोच रहे थे, "जीवन सुख है ? ना, यह विकट पहेली है ,

भाग अरे मनु ॐ इंद्रजाल से कितनी व्यथा न झेली है ?
यह प्रभात की स्वर्ण किरन सी झिलमिल चंचल सी छाया ,
श्रद्धा को दिखलाऊँ कैसे यह मुख या कलुषित काया ।

106

और शत्रु सब, ये कृतघ्न फिर इनका क्या विश्वास करूँ ,
प्रतिहिंसा प्रतिशोध दबा कर मन ही मन चुपचाप मरूँ ।
श्रद्धा के रहते यह संभव नहीं कि कुछ कर पाऊँगा .
तो फिर शांति मिलेगी मुझको जहाँ, खोजता जाऊँगा । ' '
जगे सभी जब नव प्रभात में देखें तो मनु वहाँ नहीं ,
' पिता कहाँ' कह खोज रहा था यह कुमार अब शांत नहीं ।
इडा आज अपने को सबसे अपराधी है समझ रही ,
कामायनी मौन बैठी सी अपने में ही उलझ रही ।

107

दर्शन

.....

वह चंद्रहीन थी एक रात,
जिसमें सोया था स्वच्छ प्रात ल
उजले—उजले तारक झलमल,
प्रतिबिंबित सरिता वक्षस्थल ,
धारा बह जाती बिब अटल,
खुलता था धीरे पवन —पटल

चुपचाप खडी थी वृक्ष पाँत,
सुनती जैसे कुछ निजी बात ।
धूमिल छायायें रहीं घूम ,
लहरी पैरों को रही चूम ,

"माँ ॐ तू चल आयी दूर इधर ,
संन्ध्या कब की चल गयी उधर ,
इस निर्जन में अब क्या सुंदर —
तू देख रही, हाँ बस चल घर

उसमें से उठता गंध—धूम "
श्रद्धा ने वह मुख लिया चूम ।

108

"माँ ॐ क्यों तू है इतनी उदास ,
क्या मैं हूँ तेरे नहीं पास ,

तू कई दिनों से यों चुप रह ,
क्या सोच रही है ? कुछ तो कह ,

यह कैसा तेरा दुःख—दुसह ,

जो बाहर—भीतर देता दह ,

लेती ढीली सी भरी साँस ,
जैसे होती जाती हताश | "
वह बोली "नील गगन अपार ,
जिसमें अवनत घन सजल भार ,

यह विश्व अरे कितना उदार ,
मेरा गृह रे उन्मुक्त—द्वार |
यह लोचन—गोचर—सकल—लोक ,
संस्कृति के कल्पित हर्ष शोक ,

उलझन की मीठी रोक टोक ,
यह सब उसकी है नोंक झोंक |

109

जग , जगता आँखें किये लाल ,
सोता ओढ़े तम—नींद—जाल ,

अवकाश—सरोवर का मराल ,
कितना सुंदर कितना विशाल ॐ
इसके स्तर—स्तर में मौन शांति ,
शीतल अगाध है , ताप —भ्रांति ,

मेरा निवास अति—मधुर—काँति ,

आते जाते , सुख , दुख , दिशि , पल ,
शिशु सा आता कर खेल अनिल ,
फिर झलमल सुंदर तारक दल ,
नभ रजनी के जुगुनू अविरल ,

भावोदधि से किरनों के मग ,
स्वाती कन से बन भरते जग ,
उत्थान—पतनमय सतत सजग ,
झरने झरते आलिंगित नग ,

सुरधनु सा अपना रंग बदल ,
मृति , संस्कृति , नति , उन्नति में ढल ,
अपनी सुषमा में यह झलमल ,
इस पर खिलता झरता उडुदल ,

परिवर्तनमय यह चिर—मंगल ,
मुसक्याते इसमें भाव सकल ,
हँसता है इसमें कोलाहल ,
उल्लास भरा सा अंतस्तल ,

यह एक नीड है सुखद शांति
"अंबे फिर क्यों इतना विराग ,
मुझ पर न हुई क्यों सानुराग ?"

पीछे मुड श्रद्धा ने देखा ,
वह इडा मलिन छवि की रेखा ,
ज्यों राहुग्रस्त—सी शशि —लेखा ,
जिस पर विषाद की विष—रेखा ,

कुछ ग्रहण कर रहा दीन त्याग ,
सोया जिसका है भाग्य, जाग ।

110

बोली "तुमसे कैसी विरक्ति ,
तुम जीवन की अंधानुरक्ति ,

मुझसे बिछुडे को अवलंबन ,
देकर , तुमने रक्खा जीवन ,
तुम आशामयि ॐ चिर आकर्षण ,
तुम मादकता की अवनत धन ,

मनु के मस्तक की चिर —अतृप्ति ,
तुम उत्तेजित चंचला —शक्ति ॐ
मैं क्या दे सकती तुम्हें मोल ,
यह हृदय ॐ अरे दो मधुर बोल ,

मैं हँसती हूँ रो लेती हूँ ,
मैं पाती हूँ खो देती हूँ ,
इससे ले उसको देती हूँ ,
मैं दुख को सुख कर लेती हूँ ,

अनुराग भरी हूँ मधुर घोल ,
चिर—विस्मृति—सी हूँ रही डोल ।

यह प्रभापूर्ण तव मुख निहार ,
मनु हत—चेतन थे एक बार ,

नारी माया—ममता का बल ,
वह शक्तिमयी छाया शीतल ,
फिर कौन क्षमा कर दे निश्छल ,
जिससे यह धन्य बने भूतल ,

'तुम क्षमा करोगी' यह विचार
मैं छोड़ूँ कैसे साधिकार । "

111

"अब मैं रह सकती नहीं मौन ,

अपराधी कितु यहाँ न कौन ?

सुख—दुख जीवन में सब सहते ,
पर केवल सुख अपना कहते ,

अधिकार न सीमा में रहते ,
पावस—निर्झर—से वे बहते ,

रोके फिर उनको भला कौन ?
सब को वे कहते — शत्रु हो न ॐ"
अगसर हो रही यहाँ फूट ,
सीमायें कृत्रिम रहीं टूट ,

श्रम—भाग वर्ग बन गया जिन्हें ,
अपने बल का है गर्व उन्हें ,
नियमों की करनी सृष्टि जिन्हें ,

विप्लव की करनी वृष्टि उन्हें ,

सब पिये मत्त लालसा घूँट ,
मेरा साहस अब गया घूँट |
मैं जनपद—कल्याणी प्रसिद्ध ,
अब अवनति कारण हूँ निषिद्ध ,

मेरे सुविभाजन हुए विषम ,
टूटते , नित्य बन रहे नियम

नाना केंद्रों में जलधर —सम ,
घिर हट, बरसे ये उपलोपम

यह ज्वाला इतनी है समिद्ध ,
आहुति बस चाह रही समृद्ध |

112

तो क्या मैं भ्रम में थी नितांत ,
संहार—बध्य असहाय दांत ,

प्राणी विनाश—मुख में अविरल ,
चुपचाप चलें होकर निर्बल ॐ

संघर्ष कर्म का मिथ्या बल ,
ये शक्ति—चिन्ह, ये यज्ञ विफल ,

भय की उपासना ॐ प्रणाति भ्रांत ॐ
अनुशासन की छाया अशांत ॐ
तिस पर मैंने छीना सुहाग ,
हे देवि ॐ तुम्हारा दिव्य—राग ,

मैं आज अकिचन पाती हूँ ,

अपने को नहीं सुहाती हूँ ,
मैं जो कुछ भी स्वर गाती हूँ ,
वह स्वयं नहीं सुन पाती हूँ ,

दो क्षमा, न दो अपना विराग ,
सोयी चेतनता उठे जाग । "

"है रुद्र-रोष अब तक अशांत "
श्रद्धा बोली, "बन विषम ध्वांत ॐ

सिर चढी रही ॐ पाया न हृदय
तू विकल कर रही है अभिनय ,

अपनापन चेतन का सुखमय

खो गया, नहीं आलोक उदय ,

सब अपने पथ पर चलें श्रांत ,
प्रत्येक विभाजन बना भ्रांत ।

113

जीवन धारा सुंदर प्रवाह ,
सत्, सतत, प्रकाश सुखद अथाह ,

ओ तर्कमयी ॐ तू गिने लहर ,

प्रतिबिंबित तारा पकड , ठहर ,
तू रुक-रुक देखे आठ पहर ,
वह जडता की स्थिति, भूल न कर ,

सुख-दुख का मधुमय धूप-छाँह ,
तू ने छोडी यह सरल राह ।

चेतनता का भौतिक विभाग -
कर, जग को बाँट दिया विराग ,

चिति का स्वरूप यह नित्य-जगत ,
वह रूप बदलता है शत-शत ,
कण विरह-मिलन-मय नृत्य-निरत

उल्लासपूर्ण आनंद सतत

तल्लीन-पूर्ण है एक राग ,
झंकृत है केवल 'जाग जाग ॐ'
मैं लोक-अग्नि में तप नितांत ,
आहुति प्रसन्न देती प्रशांत ,

तू क्षमा न कर कुछ चाह रही ,
जलती छाती की दाह रही ,
तू ले ले जो निधि पास रही ,
मुझको बस अपनी राह रही ,

रह सौम्य ॐ यहीं , हो सुखद प्रांत ,
विनिमय कर दे कर कर्म कांत ।

114

तुम दोनों देखो राष्ट्र-नीति ,
शासक बन फैलाओ न भीति ,

मैं अपने मनु को खोज चली ,
सरिता, मरु, नग या कुंज-गली ,
वह भोला इतना नहीं छली ॐ

मिल जायेगा, हूँ प्रेम-पत्नी ,

तब देखूँ कैसी चली रीति ,
मानव ॐ तेरी हो सुयश गीति । "
बोला बालक "ममता न तोड ,
जननी ॐ मुझसे मुँह यों न मोड ,

तेरी आज्ञा का कर पालन ,
वह स्नेह सदा करता लालन -
मैं मरूँ जिऊँ पर छूटे न प्रन ,
वरदान बने मेरा जीवन ॐ

जो मुझको तू यों चली छोड ,
तो मुझे मिले फिर यही क्रोड ॐ "
"हे सौम्य ॐ इडा का शुचि दुलार ,
हर लेगा तेरा व्यथा -भार ,

यह तर्कमयी तू श्रद्धामय ,
तू मननशील कर कर्म अभय ,
इसका तू सब संताप निचय ,
हर ले, हो मानव भाग्य उदय ,

सब की समरसता कर प्रचार ,
मेरे सुत ॐ सुन माँ की पुकार । "

115

"अति मधुर वचन विश्वास मूल ,
मुझको न कभी ये जायँ भूल ल

हे देवि ॐ तुम्हारा स्नेह प्रबल ,

बन दिव्य श्रेय-उद्गम अविरल ,
आकर्षण घन-सा वितरे जल ,
निर्वासित हों संताप सकल ॐ "

कह इडा प्रणत ले चरण धूल ,
पकडा कुमार-कर मृदुल फूल ।

वे तीनों ही क्षण एक मौन—
विस्मृत से थे , हम कहाँ कौनऊँ

विच्छेद बाह्य, था आलिंगन —

वह हृदयों का , अति मधुर—मिलन,
मिलते आहत होकर जलकन ,
लहरों का यह परिणत जीवन ,

दो लौट चले पुर ओर मौन ,
जब दूर हुए तब रहे दो न ।
निस्तब्ध गगन था, दिशा शांत ,
वह था असीम का चित्र कांत ।

कुछ शून्य बिंदु उर के ऊपर,
व्यथिता रजनी के श्रमसीकर ,
झलके कब से पर पड़े न झर ,
गंभीर मलिन छाया भू पर ,

सरिता तट तरु का क्षितिज प्रांत ,
केवल बिखेरता दीन ध्वांत ।

116

शत—शत तारा मंडित अनंत ,
कुसुमों का स्तबक खिला बसंत ,

हँसता ऊपर का विश्व मधुर ,
हलके प्रकाश से पूरित उर ,
बहती माया सरिता ऊपर ,
उठती किरणों की लोल लहर ,

निचले स्तर पर छाया दुरंत ,
आती चुपके, जाती तुरंत ।
सरिता का वह एकांत कूल ,
था पवन हिंडोले रहा झूल ,

धीरे—धीरे लहरों का दल ,
तट से टकरा होता ओझल ,

छप—छप का होता शब्द विरल ,
थर—थर कँप रहती दीप्ति तरल ल

संसृति अपने में रही भूल ,
वह गंध—विधुर अम्लान फूल ।
तब सरस्वती—सा फेंक साँस ,
श्रद्धा ने देखा आस—पास ,

थे चमक रहे दो फूल नयन ,
ज्यों शिलालग्न अनगढे रतन ,
वह क्या तम में करता सनसन ?
धारा का ही क्या यह निस्वन ॐ

ना, गुहा लतावृत एक पास ,
कोई जीवित ले रहा साँस ॐ

117

वह निर्जन तट था एक चित्र,
कितना सुंदर, कितना पवित्र ?

कुछ उन्नत थे वे शैलशिखर ,
फिर भी ऊँचा श्रद्धा का सिर ,
वह लोक—अग्नि में तप गल कर ,
थी ढली स्वर्ण—प्रतिमा बन कर ,

मनु ने देखा कितना विचित्र ॐ
वह मातृ—मूर्ति थी विश्व—मित्र |
बोले "रमणी तुम नहीं आह ॐ
जिसके मन में हो भरी चाह ,

तुमने अपना सब कुछ खोकर ,
वंचिते ॐ जिसे पाया रोकर ,
मैं भगा प्राण जिनसे लेकर ,
उसको भी, उन सब को देकर ,

निर्दय मन क्या न उठा कराह ?
अदभुत है तब मन का प्रवाह ॐ
ये श्वापद से हिसक अधीर,
कोमल शावक वह बाल वीर ,

सुनता था वह वाणी शीतल ,
कितना दुलार कितना निर्मल ॐ

कैसा कठोर है तव हृत्तल ॐ

वह इडा कर गयी फिर भी छल ,
तुम बनी रही हो अभी धीर,
छुट गया हाथ से आह तीर | "

118

"प्रिय ॐ अब तक हो इतने सशंक ,
देकर कुछ कोई नहीं रंक ,

यह विनिमय है या परिवर्तन ,
बन रहा तुम्हारा ऋण अब धन ,
अपराध तुम्हारा वह बंधन -
लो बना मुक्ति, अब छोड स्वजन -

निर्वासित तुम, क्यों लगे डंक ?
दो लो प्रसन्न, यह स्पष्ट अंक । "
"तुम देवि ॐ आह कितनी उदार ,
यह मातृमूर्ति है निर्विकार ,

हे सर्वमंगले ॐ तुम महती ,
सबका दुख अपने पर सहती ,
कल्याणमयी वाणी कहती ,
तुम क्षमा निलय में हो रहती ,

मैं भूला हूँ तुमको निहार -
नारी सा ही, वह लघु विचार ।
मैं इस निर्जन तट में अधीर ,
सह भूख व्यथा तीखा समीर ,

हाँ भावचक्र में पिस-पिस कर ,
चलता ही आया हूँ बढ कर ,
इनके विकार सा ही बन कर ,
मैं शून्य बना सत्ता खोकर ,

लघुता मत देखो वक्ष चीर ,
जिसमें अनुशय बन घुसा तीर । "

119

"प्रियतम ॐ यह नत निस्तब्ध रात ,
है स्मरण कराती विगत बात ,

वह प्रलय शांति वह कोलाहल ,
जब अर्पित कर जीवन संबल ,
मैं हुई तुम्हारी थी निश्छल ,
क्या भूलूँ मैं , इतनी दुर्बल ?

तब चलो जहाँ पर शांति प्रात ,
मैं नित्य तुम्हारी , सत्य बात ।
इस देव-द्वंद्व का वह प्रतीक -
मानव ॐ कर ले सब भूल ठीक ,

यह विष जो फैला महा-विषम ,
निज कर्मोन्नति से करते सम ,
सब मुक्त बनें, काटेंगे भ्रम ,
उनका रहस्य हो शुभ-संयम ,

गिर जायेगा जो है अलीक ,

चल कर मिटती है पड़ी लीक । "
वह शून्य असत या अंधकार ,
अवकाश पटल का वार पार ,

इतना अनंत था शून्य -सार ,
दीखता न जिसके परे पार ।

120

सत्ता का स्पंदन चला डोल ,
आवरण पटल की ग्रंथि खोल ,

केवल प्रकाश का था कलोल ,
मधु किरणों की थी लहर लोल ।
बन गया तमस था अलक जाल ,
सर्वांग ज्योतिमय था विशाल ,

स्वर लय होकर दे रहे ताल ,
थे लुप्त हो रहे दिशाकाल ।
लीला का स्पंदित आह्लाद ,
वह प्रभा-पुंज चितिमय प्रसाद ,

संहार सृजन से युगल पाद -
गतिशील , अनाहत हुआ नाद ।

121

बिखरे असंख्य ब्रह्मांड गोल ,

बाहर भीतर उन्मुक्त सघन ,
था अचल महा नीला अंजन ,
भूमिका बनी वह स्निग्ध मलिन ,
थे निर्निमेष मनु के लोचन ,

तम जलनिधि बन मधुमंथन ,
ज्योत्स्ना सरिता का आलिगन ,
वह रजत गौर , उज्ज्वल जीवन ,
आलोक पुरुष ॐ मंगल चेतन ॐ

अंतर्निनाद ध्वनि से पूरित ,
थी शून्य -भेदिनी-सत्ता चित् ,
नटराज स्वयं थे नृत्य-निरत ,
था अंतरिक्ष प्रहसित मुखरित ,

आनन्द पूर्ण तांडव सुंदर ,
झरते थे उज्ज्वल श्रम सीकर ,
बनते तारा , हिमकर , दिनकर ,

उड रहे धूलिकण-से भूधर ,

युग ग्रहण कर रहे तोल ,

विद्युत कटाक्ष चल गया जिधर ,
कंपित संसृति बन रही उधर ,
चेतन परमाणु अनंत बिखर ,
बनते विलीन होते क्षण भर ल

यह विश्व झुलता महा दोल ,
परवर्तन का पट रहा खोल |
उस शक्ति-शरीरी का प्रकाश ,
सब शाप पाप का कर विनाश -

नर्त्तन में निरत , प्रकृति गल कर ,
उस कांति सिधु में घुल-मिलकर ,
अपना स्वरूप धरती सुंदर ,
कमनीय बना था भीषणतर ,

हीरक-गिरि पर विद्युत-विलास ,
उल्लसित महा हिम धवल हास |
देखा मनु ने नर्त्तित नटेश ,
हत चेत पुकार उठे विशेष -

"यह क्या ॐ श्रद्धे ॐ बस तू ले चल ,
उन चरणों तक , दे निज संबल ,
सब पाप पुण्य जिसमें जल-जल ,
पावन बन जाते हैं निर्मल ,

मिटतते असत्य-से ज्ञान-लेश ,
समरस , अखंड , आनंद-वेश" !

122

रहस्य

.....

उर्ध्व देश उस नील तमस में , स्तब्ध हो रही अचल हिमानी ,
पथ थककर हैं लीन , चतुर्दिक देख रहा वह गिरि अभिमानी |
दोनों पथिक चले हैं कब से ऊँच ऊँचे चढते चढते ,
श्रद्धा आगे मनु पीछे थे , साहस उत्साही से बढते |

पवन वेग प्रतिकूल उधर था कहता , फिर जा अरे बटोही ॐ
किधर चला तू मुझे भेद कर ॐ प्राणों के प्रति क्यों निर्मोही ?
छूने को अंबर मचली सी बढी जा रही सतत उँचाई ल
विक्षत उसके अंग , प्रगट थे भीषण खड्ड भयकरी खाँई |
रविकर हिम खंडो पर पड कर हिमकर कितने नये बनाता ,
द्रुततर चक्कर काट पवन भी फिर से वहीं लौट आ जाता |

नीचे जलधर दौड़ रहे थे सुंदर सुर-धनु माला पहने,
कुंजर-कलभ सदृश इठलाते चपला के गहने ।
प्रवहमान थे निम्न देश में शीतल शत-शत निर्झर ऐसे
महाश्वेत गजराज गंड से बिखरीं मधु धारायें जैसे ।
हरियाली जिनकी उभरी, वे समतल चित्रपटी से लगते ,
प्रतिकृतियों के बाह्य रेख-से स्थिर, नद जो प्रति पल थे भगते ।
लघुतम वे सब जो वसुधा पर ऊपर महाशून्य का घेरा ,
ऊँचे चढने की रजनी का यहाँ हुआ जा रहा सबेरा ।

123

"कहाँ ले चली हो अब मुझको श्रद्धेऊँ मैं थक चला अधिक हूँ,
साहस छूट गया है मेरा निस्संबल भग्नाश पथिक हूँ ,
लौट चलो , इस वात-चक्र से मैं दुर्बल अब लड न सकूँगा ,
श्वास रुद्ध करने वाले इस शीत पवन से अड न सकूँगा ।
मेरे, हाँ वे सब मेरे थे जिन से रूठ चला आया हूँ ,
वे नीचे छूटे सुदूर, पर भूल नहीं उनको पाया हूँ ।"
वह विश्वास भरी स्मिति निश्छल श्रद्धा-मुख पर झलक उठी थी ।
सेवा कर -पल्लव में उसके कुछ करने को ललक उठी थी ।
दे अवलंब, विकल साथी को कामायनी मधुर स्वर बोली ,
"हम बढ दूर निकल आये अब करने का अवसर न ठिठोली ।
दिशा-विकंपित, पल असीम है यह अनंत सा कुछ ऊपर है,
अनुभव-करते हो, बोलो क्या पदतल में , सचमुच भूधर है ?
निराधार हैं किंतु ठहरना हम दोनों को आज यहीं है ल
नियति खेल देखूँ न , सुनो अब इसका अन्य उपाय नहीं है ।
झाँई लगती जो, वह तुमको ऊपर उठने को है कहती ,
इस प्रतिकूल पवन धक्के को झोंक दूसरी ही आ सहती ।
श्रांत पक्ष, कर नेत्र बंद बस विहग-युगल से आज हम रहें ,
शून्य पवन बन पंख हमारे हमको दें आधार, जम रहें ।
घबराओ मतऊँ यह समतल है देखो तो, हम कहाँ आ गये "
मनु ने देखा आँख खोल कर जैसे कुछ त्राण पा गये ।
ऊष्मा का अभिनव अनुभव था ग्रह, तारा , नक्षत्र अस्त थे ,
दिवा-रात्रि के संधिकाल में ये सब कोई नहीं व्यस्त थे ।

124

ऋतुओं के स्तर हुये तिरोहित भू-मंडल रेखा विलीन-सी
निराधार उस महादेश में उदित सचेतनता नवीन-सी ।
त्रिदिक विश्व, आलोक बिदु भी तीन दिखाई पडे अलग व,
त्रिभुवन के प्रतिनिधि थे मानो वे अनमिल थे किंतु सजग थे ।
मनु ने पूछा , "कौन नये ग्रह ये हैं श्रद्धे ऊँ मुझे बताओ ?

मैं किस लोक बीच पहुँचा, इस इंद्रजाल से मुझे बचाओ "

 " इस त्रिकोण के मध्य बिंदु तुम शक्ति विपुल क्षमतावाले थे,

 एक एक को स्थिर हो देखो इच्छा ज्ञान, क्रिया वाले थे ।

 वह देखो रागारुण है जो उषा के कंदुक सा सुंदर ,

 छायामय कमनीय कलेवर भाव—मयी प्रतिमा का मंदिर ।

 शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की पारदर्शनी सुघड पुतलियाँ ,

 चारों ओर नृत्य करतीं ज्यों रूपवती रंगीन तितलियाँ ॐ

 इस कुसुमाकर के कानन के अरुण पराग पटल छाया में ,

 इठलतीं सोतीं जगतीं ये अपनी भाव—भरी माया में ।

 वह संगीतात्मक ध्वनि इनकी कोमल अँगड़ाई है लेती ,

 मादकता की लहर उठा कर अपना अंबर तर कर देती ।

 आलिंगन—सी मधुर प्रेरणा छू लेती, फिर सिहरन बनती ,

 नव—अलंबुषा की व्रीडा—सी खुल जाती है, फिर जा मुँदती ।

 यह जीवन की मध्य — भूमि है रस—धारा से सिंचित होती ,

 मधुर लालसा की लहरों से यह प्रवाहिका स्पंदित होती ।

 जिसके तट पर विद्युत्—कण से मनोहारिणी आकृति वाले ,

 छायामय सुषमा में विह्वल विचर रहे सुंदर मतवाले ।

125

सुमन—संकुलित भूमि —रंध —से मधुर गंध उठती रस—भीनी ,

 वाष्प अदृश्य फुहारे इसमें छूट रहे, रस—बूँदे झीनी ।

 घूम रही है यहाँ चतुर्दिक चलचित्रों सी संसृति छाया ,

 जिस आलोक—विंदु को घेरे वह बैठी मुसक्याती माया ।

 भाव चक्र यह चला रही है इच्छा की रथ—नाभि घूमती ,

 नवरस—भरी अराएँ अविरल चक्रवाल को चकित चूमतीं ।

 यहाँ मनोमय विश्व कर रहा रागारुण चेतन उपासना ,

 माया—राज्य ॐ यही परिपाटी पाश बिछा कर जीव फाँसना ।

 ये अशरीरी रूप, सुमन से केवल वर्ण गंध में फूले ,

 इन अप्सरियों की तानों के मचल रहे हैं सुंदर झूले ।

 भाव—भूमिका इसी लोक की जननी है सब पुण्य—पाप की ,

 ढलते सब, स्वभाव प्रतिकृति बन गल ज्वाला से मधुर ताप की ।

 नियममयी उलझन लतिका का भाव विटपि से आकर मिलना ,

 जीवन—वन की बनी समस्या आशा नभकुसुमों का खिलना ।

 चिर—वसंत का यह उदगम है पतझर होता एक ओर है ,

 अमृत हलाहल यहाँ मिले हैं सुख दुख बँधते , एक डोर है । "

 " सुंदर यह तुमने दिखलाया कितु कौन वह श्याम देश है ?

 कामायनी ॐ बताओ उसमें क्या रहस्य रहता विशेष है "

 " मनु यह श्यामल कर्म लोक है धुँधला कुछ—कुछ अंधकार—सा ,

 सघन हो रहा अविज्ञात यह देश मलिन है धूम—धार —सा ।

कर्म—चक्र—सा घूम रहा है यह गोलक, बन नियति—प्रेरणा,
सब के पीछे लगी हुई है कोई व्याकुल नयी एषणा ।

126

श्रममय कोलाहल, पीडनमय विकल प्रवर्तन महायंत्र का,
क्षण भर भी विश्राम नहीं है प्राण दास हैं क्रिया—तंत्र का ।
भाव—राज्य के सकल मानसिक सुख यों दुख में बदल रहे हैं,
हिसा गर्वोन्नत हारों में ये अकडे अणु टहल रहे हैं ।
ये भौतिक सदेह कुछ करके जीवित रहना यहाँ चाहते,
भाव—राष्ट्र के नियम यहाँ पर दंड बने हैं, सब कराहते ।
करते हैं, संतोष नहीं है जैसे कशाघात—प्रेरित से —
प्रति क्षण करते ही जाते हैं भीति—विचश ये सब कंपित से ।
नियाते चलाती कर्म—चक्र यह तृष्णा—जनित ममत्व—वासना,
पाणि—पादमय पंचभूत की यहाँ हो रही है उपासना ।
यहाँ सतत संघर्ष विफलता कोलाहल का यहाँ राज है,
अंधकार में दौड़ लग रही मतवाला यह सब समाज है ।
स्थूल हो रहे रूप बना कर कर्मों की भीषण परिणति है,
आकांक्षा की तीव्र पिपासा ॐ ममता की यह निर्मम गति है ।
यहाँ शासनादेश घोषणा विजयों की हुंकार सुनाती,
यहाँ भूख से विकल दलित को पदतल में फिर फिर गिरवाती ।
यहाँ लिये दायित्व कर्म का उन्नति करने के मतवाले,
जल—जला कर फूट पड रहे दुल कर बहने वाले छाले ।
यहाँ राशिकृत विपुल विभव सब मरीचिका—से दीख पड रहे,
भाग्यवान बन क्षणिक भोग के वे विलीन, ये पुनः गड रहे ।
बडी लालसा यहाँ सुयश की अपराधों की स्वीकृति बनती,
अंध प्रेरणा से परिचालित कर्ता में करते निज गिनती ।
प्राण तत्त्व की सघन साधना जल, हिम उपल यहाँ है बनता,
प्यासे घायल हो जल जाते मर—मर कर जीते ही बनता

127

यहाँ नील—लोहित ज्वाला कुछ जला—जला कर नित्य ढालती,
चोट सहन कर रुकने वाली धातु, न जिसको मृत्यु सालती ।
वर्षा के घन नाद कर रहे तट—कूलों को सहज गिराती,
प्लावित करती वन कुंजों को लक्ष्य प्राप्ति सरिता बह जाती । "
"बस ॐ अब और न इसे दिखा तू यह अति भीषण कर्म जगत है,
श्रद्धे ॐ वह उज्ज्वल कैसा है जैसे पुंजीभूत रजत है । "
"प्रियतम ॐ यह तो ज्ञान—क्षेत्र है सुख—दुख से है उदासीनता,
यहाँ न्याय निर्मम, चलता है बुद्धि—चक्र, जिसमें न दीनता ।
अस्ति—नास्ति का भेद, निरंकुश करते ये अणु तर्क—युक्ति से,

ये निस्संग, किंतु कर लेते कुछ संबंध—विधान मुक्ति से ।
 यहाँ प्राप्य मिलता है केवल तृप्ति नहीं, कर भेद बाँटती,
 बुद्धि, विभूति सकल सिकता—सी प्यास लगी है ओस चाटती ।
 न्याय, तपस्, ऐश्वर्य में पगे ये प्राणी चमकीले लगते,
 इस निदाघ मरु में, सूखे से स्रोतों के तट जैसे जगते ।
 मनोभाव से काय—कर्म के समतोलन में दत्तचित्त से,
 ये निस्पृह न्यायासन वाले चूक न सकते तनिक वित्त से ॐ
 अपना परिमित पात्र लिये ये बूँद—बूँद वाले निर्झर से,
 माँग रहे हैं जीवन का रस बैठ यहाँ पर अजर—अमर—से ।
 यहाँ विभाजन धर्म—तुला का अधिकारों की व्याख्या करता,
 यह निरीह, पर कुछ पाकर ही अपनी ढीली साँसे भरता ।
 उत्तमता इनका निजस्व है अंबुज वाले सर सा देखो,
 जीवन—मधु एकत्र कर रही उन माखियों सा बस लेखो ।

128

यहाँ शरद की धवल ज्योत्स्ना अंधकार को भेद निखरती,
 यह अनवस्था, युगल मिले से विकल व्यवस्था सदा बिखरती ।
 देखो वे सब सौम्य बने हैं किन्तु सशंकित हैं दोषों से
 वे संकेत दंभ के चलते भू—चालन मिस परितोषों से ।
 यहाँ अछूत रहा जीवन रस छूओ मत, संचित होने दो ।
 बस इतना ही भाग तुम्हारा तृषा ॐमृषा, वंचित होने दो ।
 सामंजस्य चले करने ये किंतु विषमता फैलाते हैं,
 मूल—स्वत्व कुछ और बताते इच्छाओं को झुठलाते हैं ।

स्वयं व्यस्त पर शांत बने—से शास्त्र शस्त्र—रक्षा में पलते,
 ये विज्ञान भरे अनुशासन क्षण क्षण परिवर्तन में ढलते ।
 यही त्रिपुर है देखा तुमने तीन विदु ज्योतिर्मय इतने,
 अपने केन्द्र बने दुख—सुख में भिन्न हुए हैं ये सब कितने ॐ
 ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की,
 एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की । "

महाज्योति—रेखा सी बनकर श्रद्धा की स्मिति दौड़ी उनमें,
 वे संबद्ध हुए फिर सहसा जाग उठी थी ज्वाला जिनमें ।
 नीचे ऊपर लचकीली वह विषम वायु में धधक रही सी,
 महाशून्य में ज्वाल सुनहली सब को कहती 'नहीं नहीं सी ।
 शक्ति—तरंग प्रलय—पावक का उस त्रिकोण में निखर—उठा सा,
 श्रृंग और डमरू निनाद बस सकल—विश्व में बिखर उठा—सा ।
 चित्तिमय चिता धधकती अविरल महाकाल का विषय नृत्य था,
 विश्व रंध्र ज्वाला से भरकर करता अपना विषम कृत्य था,

स्वप्न , स्वाप, जागरण भस्म हो इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे ,
दिव्य अनाहत पर—निनाद में श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे ।

129

आनंद

.

चलता था धीरे—धीरे वह एक यात्रियों का दल ,
सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से , ले निज संबल ।
या सोम लता से आवृत वृष धवल, धर्म का प्रतिनिधि ,
घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गति—विधि ।
वृष—रज्जु वाम कर में था दक्षिण त्रिशूल से शोभित ,
मानव था साथ उसी के मुख पर था तेज अपरिमित ।
केहरि—किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए थे ,
यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नये थे ।
चल रही इडा भी वृष के दूसरे पार्श्व में नीरव ,
गैरिक—वसना संध्या सी जिसके चुप थे सब कलरव ।
उल्लास रहा युवकों का शिशु गण का था मृदु कलकल ।
महिला—मंगल—गानों से मुखरित था वह यात्री दल ।
चमरों पर बोझ लदे थे वे चलते थे मिल अविरल ,
कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर अपने ही बने कुतूहल ।
माताएँ पकड़े उनको बातें थीं करती जातीं ,
' हम कहाँ चल रहे' यह सब उनको विधिवत समझातीं ।
कह रहा एक था " तू तो कब से ही सुना रही है —
अब आ पहुँची लो देखो आगे वह भूमि यही है ।
पर बढती ही चलती है रुकने का नाम नहीं है ,
वह तीर्थ कहाँ है कह तो जिसके हित दौड रही है । "

130

" वह अगला समतल जिस पर है देवदारु का कानन,
घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन ।
हाँ इसी ढालवें को जब बस सहज उतर जावें हम ,
फिर सन्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्ज्वल पावनतम "
वह इडा समीप पहुँच कर बोला उसको रुकने को ,
बालक था , मचल गया था कुछ और कथा सुनने को ।
वह अपलक लोचन अपने पादाग्र विलोकन करती ,
पथ—प्रदर्शिका—सी चलती धीरे—धीरे डग भरती ।
बोली, " हम जहाँ चले हैं वह है जगती का पावन—
साधना प्रदेश किसी का शीतल अति शांत तपोवन । "
"कैसा ? क्यों शांत तपोवन ? विस्तृत क्यों न बताती "

बालक ने कहा इडा से वह बोली कुछ सकुचाती -
 "सुनती हूँ एक मनस्वी था वहाँ एक दिन आया ,
 वह जगती की ज्वाला से अति-विकल रहा झुलसाया ।
 उसकी वह जलन भयानक फैली गिरि अंचल में फिर ,
 दावाग्नि प्रखर लपटों ने कर लिया सघन बन अस्थिर ।
 थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आयी ,
 यह दशा देख , करुणा की- वर्षा दृग में भर लायी ।
 वरदान बने फिर उसके आँसू , करते जग -मंगल ,
 सब ताप शांत होकर , बन हो गया हरित , सुख शीतल ।
 गिरि-निर्झर चले उछलते छाये फिर से हरियाली ,
 सूखे तरु कुछ मुसक्याये फूटी पल्लव में लाली ।
 वे युगल वहीं अब बैठे संसृति की सेवा करते ,
 संतोष और सुख देकर सब की दुख ज्वाला हरते ।

131

है वहाँ महाह्मद निर्मल जो मन की प्यास बुझाता ,
 मानस उसको कहते हैं सुख पाता जो है जाता ।
 "तो यह वृष क्यों तू यों ही जैसे ही चला रही है ,
 क्यों बैठ न जाती इस पर अपने को थका रही है ?"
 "सारस्वत-नगर-निवासी हम आये यात्रा करने ,
 यह व्यर्थ , रिक्त-जीवन-घट पीयूष-सलिल से भरने ।
 इस वृषभ धर्म-प्रतिनिधि को उत्सर्ग करेंगे जाकर ,
 चिर-मुक्त रहे यह निर्भय स्वच्छंद सदा सुख पाकर ।"
 सब सम्हल गये थे आगे थी कुछ नीची उतराई ,
 जिस समतल घाटी में , वह थी हरियाली से छाई ।
 श्रम , ताप और पथ-पीडा क्षण भर में थे अंतर्हित ,
 सामने विराट धवल-नग अपनी महिमा से विलसित ।
 उसकी तलहटी मनोहर श्यामल तृण-वीरुध वाली ,
 नव-कुंज , गुहा-गृह सुंदर हृद से भर रही निराली ।
 वह मंजरियों का कानन कुछ अरुण पीत हरियाली ,
 प्रति-पर्व सुमन-सुकुल थे छिप गई उन्ही में डाली ।
 यात्री दल ने रुक देखा मानस का दृश्य निराला ,
 खग-मृग को अति सुखदायक छोटा-सा जगत उजाला ।
 मरकत की वेदी पर ज्यों रक्खा हीरे का पानी ,
 छोटा सा मुकुर प्रकृति या सोयी राका रानी ।
 दिनकर गिरि के पीछे अब हिमकर था चढा गगन में ,
 कैलास प्रदोष-प्रभा में स्थिर बैठा किसी लगन में ।
 संध्या समीप आयी थी उस सर के , वल्कल-वसना ,

तारों से अलक गुँथी थी पहने कदंब की रशना ।

132

खग कुल किलकार रहे थे, कलहंस कर रहे कलरव,
किन्नरियाँ बनी प्रतिध्वनि लेती थीं तानें अभिनव ।
मनु बैठे ध्यान—निरत थे उस निर्मल मानस —तट में ,
सुमनों की अंजलि भर कर श्रद्धा थी खडी निकट में ।
श्रद्धा ने सुमन बिखेरा शत—शत मधुपों का गुंजन ,
भर उठा मनोहर नभ में मनु तन्मय बैठे उन्मन ।
पहचान लिया था सब ने फिर कैसे अब वे रुकते ,
वह देव—द्वंद्व द्युतिमय था फिर क्यों न प्रणति में झुकते ।
तब वृषभ सोमवाही भी अपनी घंटा—ध्वनि करता ,
बढ चला इडा के पीछे मानव भी था डग भरता ।
हाँ इडा आज भूली थी पर क्षमा न चाह रही थी,
वह दृश्य देखने को निज दृग—युगल सराह रही थी ।
चिर—मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन—पुरुष—पुरातन ,
निज—शक्ति—तरंगायित था आनंद—अंबु—निधि शोभन ।
भर रहा अंक श्रद्धा का मानव उसको अपना कर ,
था इडा—शीश चरणों पर वह पुलक भरी गद्गद स्वर —
बोली — "मैं धन्य हुई हूँ जो यहाँ भूलकर आयी ,
हे देवि ॐ तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लायी ।
भगवति, समझी मैं ॐ सचमुच कुछ भी न समझ थी मुझको ।
सब को ही भुला रही थी अभ्यास यही था मुझको ।
हम एक कुटुम्ब बना कर यात्रा करने हैं आये ,
सुन कर यह दिव्य—तपोवन जिसमें सब अघ छुट जाये । "
मनु ने कुछ—कुछ मुसक्या कर कैलास ओर दिखलाया,
बोले "देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया ।

133

हम अन्य न और कुटुंबी हम केवल एक हर्मी है ,
तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें कुछ नहीं कमी है ।
शापित न यहाँ है कोई तापित पापी न यहाँ है ,
जीवन—वसुधा समतल है समरस है जो कि जहाँ है ।
चेतन समुद्र में जीवन लहरों सा बिखर पडा है,
कुछ छाप व्यक्तिगत , अपना निर्मित आकार खडा है ।
इस ज्योत्स्ना के जलनिधि में बुदबुद सा रूप बनाये ,
नक्षत्र दिखाई देते अपनी आभा चमकाये ।
वैसे अभेद—सागर में प्राणों का सृष्टि—क्रम है,
सब में घुल मिल कर रसमय रहता यह भाव चरम है ।

अपने दुख—सुख से पुलकित यह मूर्त—विश्व सचराचर ,
 चिति का विराट—वपु मंगल यह सत्य सतत चित सुंदर ।
 सब की सेवा न परायी वह अपनी सुख—संसृति है ,
 अपना ही अणु अणु कण—कण द्वयता ही तो विस्मृति है ।
 मैं की मेरी चेतनता सबको ही स्पर्श किये सी,
 सब भिन्न परिस्थितियों की है मदक घूँट पिये सी ।
 जग ले ऊषा के दृग में सो ले निशि की पलकों में,
 हाँ स्वप्न देख ले सुंदर उलझन वाली अलकों में—
 चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा ,
 मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धँसता सा ।
 सब भेद—भाव भुलवा कर दुख—सुख को दृश्य बनाता,
 मानव कह रे ॐ यह मैं हूँ, यह विश्व नीड बन जाता ॐ"
 श्रद्धा के मधु—अधरों की छोटी—छोटी रेखायें ,
 रागारुण किरण कला सी विकसीं बन स्मिति लेखायें ।

134

वह कामायनी जगत की मंगल—कामना—अकेली ,
 थी—ज्योतिष्मती प्रफुल्लित मानस तट की वन बेली ।
 वह विश्व—चेतना पुलकित थी पूर्ण—काम की प्रतिमा ,
 जैसे गंभीर महाहृद हो भरा विमल जल महिमा ।
 जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य रागमय होता ,
 वह कामायनी विहँसती अग जग था मुखरित होता ।
 क्षण—भर में सब परिवर्तित अणु—अणु थे विश्व—कमल के,
 पिगल—पराग से मचले आनंद—सुधा—रस छलके ।
 अति मधुर गंधवह बहता परिमल बूँदों से सिंचित ,
 सुख—स्पर्श कमल—केसर का कर आया रज से रंजित ।
 जैसे असंख्य मुकुलों का मादन—विकास कर आया,
 उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया ।
 रुक—रुक कर कुछ इठलाता जैसे कुछ हो वह भूला ,
 नव कनक—कुसुम—रज धूसर मकरंद—जलद—सा फूला ।
 जैसे वनलक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर—रज ,
 या हेमकूट हिम जल में झलकाता परछाईं निज ।
 संसृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास बना कर निज दल ,
 चल पडे गगन—आँगन में कुछ गाते अभिनव मंगल ।
 वल्लरियाँ नृत्य निरत थीं, बिखरी सुगंध की लहरें ,
 फिर वेणु रंध्र से उठ कर मूर्च्छना कहाँ अब ठहरे ।
 गूँजते मधुर नूपुर से मदमाते होकर मधुकर,
 वाणी की वीणा—धवनि—सी भर उठी शून्य में झिल कर ।
 उन्मद माधव मलयानिल दौड़े सब गिरते—पडते ,

परिमल से चली नहा कर काकली, सुमन थे झडते ।
सिकुडन कौशेय वसन की थी विश्व-सुन्दरी तन पर,
या मादन मृदुतम कंपन छायी संपूर्ण सृजन पर ।
सुख-सहचर दुःख-विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय ,
सब की विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय ।
थे डाल डाल में मधुमय मृदु मुकुल बने झालर से,
रस भार प्रफुल्ल सुमन सब धीरे-धीरे से बरसे ।
हिम खंड रश्मि मंडित हो मणि-दीप प्रकाश दिखाता ,
जिनसे समीर टकरा कर अति मधुर मृदंग बजाता ।
संगीत मनोहर उठता मुरली बजती जीवन की ,
संकेत कामना बन कर बतलाती दिशा मिलन की ।
रस्मियाँ बर्नी अप्सरियाँ अंतरिक्ष में नचती थीं ,
परिमल का कन-कन लेकर निज रंगमंच रचती थी ।
मांसल-सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी ,
उस लास-रास में विह्वल थी हँसती सी कल्याणी ।
वह चंद्र किरीट रजत-नग स्पंदित-सा पुरुष पुरातन ,
देखता मानसी गौरी लहरों का कोमल नर्तन ॐ
प्रतिफलित हुई सब आँखें उस प्रेम-ज्योति-विमला से,
सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से ।
समरस थे जड या चेतन सुन्दर साकार बना था ,
चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था ।

: समाप्त :